

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 2001 (आषाढ़ 9, 1923)
 No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 2001 (ASADHA 9, 1923)

इस भाग में (Separate page) दिया गया है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में हो सके।
 (Separate page is given to this part in order that it may be filed as a separate volume.)

भाग I—खण्ड 4
[PART-I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अपरसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2001

सं० 366, दिनांक 10 मई 2001—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय की के० सं० सेवा सवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गयी है इन प्रभाग में अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सम्बन्धित मन्त्रिण प्रशि० एवं म० प्र० अ० का कार्यालय

सं० 367, दिनांक 25 मई, 01—राष्ट्रपति, निम्नांकित सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों (प्रोबेशनर) (युव श्री राजपत्रित) की मशस्त सेना मुख्यालय सिविल सेवा में नीचे उनके नाम के सामने दिखाई गई तिथि से स्थाई सिविलियन स्टाफ अधिकारी (युव श्री राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	जन्म तिथि	कार्यालय	स्थायी नियुक्ति की तिथि
1	प्रदीप कुमार	18-05-69	बा० म० सं०	23-12-2000
2	बी० सी० बोस	21-12-69	डी०जी०एल०	सी०सी० 24-12-2000
3	अजीत मिह्यादेव	05-02-67	एम० एम०	28-12-2000
4	जितेन्द्र कुमार	21-12-69	ए० जी०	28-12-2000
5	हेमन्त कुमार हेम	02-11-68	डी०जी०डी०	27-12-2000
6	हरीश मोहन	15-03-68	म० प्र० अ०	27-12-2000

नाम

प्रमाण पत्र

सर्वश्री

(सर्वश्री/श्रीमती)

मनमोहन शर्मा

19 फरवरी 2001

बी० के० अग्रवाल

19 मार्च 2001

नवीन मोदी,

उप निदेशक (स्थापना)

आई० सी० प्रयोग,

उप निदेशक (स्थापना) (नियंत्रण)

थल सेवा विभाग/एम० जी० ओ०/ई० एम० ई० तामिक

सं० 368, दिनांक 29 मई, 01--

नायब सूवेदार (धार्मिक शिक्षक) के रैंक में

क्रम सं०	नाम	पदोन्नति की तारीख
1.	साधु सिंह (जे० सी०-754515 ए)	30 मई, 1999
2.	नित्या नन्द मिश्रा (जे० सी०-754517 ए)	31 जुलाई 1999
3.	वेद प्रकाश तिवारी (जे० सी० 754518 ए)	31 जुलाई 1999
4.	भुवन चन्द्रा पाण्डे (जे० सी०-755288 के)	22 जुलाई, 2001

टी० सी० जैन,
उप सचिव

रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन

सं० 369, दिनांक 28 मई, 2001--राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गये दिनांक से रक्षा अनुसन्धान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थाई वैज्ञानिक "बी" (ग्रुप "ए") के रूप में वेतनमान रु० 2200-75-2800-ई० बी-100-4000 (पूर्व संशोधित) पर --

सं०	नाम	स्थापना	दिनांक
1.	श्री जे० बी० सत्य- नारायण	आर सी आई, हैदराबाद	03-8-96

निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को उनके नाम के सामने दर्शाये गए दिनांक से रक्षा अनुसन्धान तथा विकास सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थाई वैज्ञानिक "बी" (ग्रुप "ए") के रूप में वेतनमान रु० 8000-275-13500 पर --

सं०	नाम	स्थापना	दिनांक
1.	श्री श्रीकान्त एम०	जीटीआरई	17-02-2000
1	श्री गुण शेखरन जी एन एम आर एल मुम्बई		15-06-1998
2	श्री बी० राम कृष्ण राव	वही	01-10-1999

डी० आर० डी० एम० नियम 1979 के उ० नियम 8(क) के निबन्धनों के अनुसार हुई सीमित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होन पर निम्नलिखित व्यक्तियों को दो वर्ष की परखावधि पर उनके नाम के सामने लिखी तारीख से स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" वेतनमान रु० 8000-275-13500 पर --

सं०	नाम	स्थापना	दिनांक
श्री एन० के० गुप्ता	लैम्बेक, दिल्ली		31-12-1999

जे० के० खण्डवाल,
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

नौ सेवा शाखा

सं० 370, दिनांक 24 मई, 2001--रक्षा मंत्रालय के पत्र एम० एफ०/1822/डी० ई० एस०/2028-डी० ओ० (पी०)/ डी० (एन-II) दिनांक 30 सितम्बर, 1998 के अधीन भारतीय नौ सेवा की इंजीनियरी शाखा में सीधी भर्ती योजना के अन्तर्गत नियुक्ति उनके नाम के सामने दी गयी स्थिति से की जाती है :-

कार्यकारी मंत्र ले० के रैंक में (परखाधीन)

सीधी भर्ती (इंजीनियरी शाखा)

नाम, निजीसं०, कमीशन की किस्म भर्ती की तिथि

पंकज श्रीवास्तवा (41982 एन) अल्पकालीन--31 अगस्त, 1997 ।

कुमार परितोष,
कमांडर, डी०डी०एम०पी०आर० (आरएण्ड आर-II)

वायु शाखा

सं० 371, दिनांक 25 मई, 2001--राष्ट्रपति, वा० से० अनुदेश 6/81, 10/81 और 4/82 द्वारा संशोधित वा० से० अनुदेश 30/74 के अनुच्छेद 9 के उपबंधों के अन्तर्गत निम्नलिखित को शाखा कमीशन प्रदान करते हैं --

भारतीय वायु सेवा

वैज्ञानिक इंजीनियरिंग (मैकेनिकल्स)

(भूतपूर्व वायुसैनिक कैडेटों को पचाइग अफमरो के रैंक में)

(659286) डब्ल्यू० ओ० एम० डी० मिह (25057--
दिनांक 24 अप्रैल, 1998 से ।

एम० बी० कुटें,
सक्का० ली०, डी० पी० ओ० 3 सी० (डी)

वित्त प्रभाग

सं० 372, दिनांक 10 मई, 2001—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि संग्रह के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपियों की इस प्रभाग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में की गई नियुक्ति को उनके नाम के सामने दर्शायी अवधि के लिए या आदेशों तक, जो भी पहले हो, जारी रखते हैं :—

क्र० सं०	नाम	से	तक
	(सर्वधी)		
1.	सुमन तनेजा	1 जनवरी, 2001	30 जून, 2001
2.	राजबीर सिंह	1 जनवरी, 2001	30 जून, 2001

नवीन मोई
उप वित्त मलाहकार (स्थापना)

थल सेना विभाग

सं० 373, दिनांक 24 मई, 2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करने हैं :—

नियमित सेवा

विशेष सूची

पंजाब रेजिमेंट

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-428088 बाईं)—1 अप्रैल, 2000।

सूबेदार क्लर्क परमजीत सिंह पट्ट (जे० सी०-428002 पीं)—7 जून, 2000।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गुरनाम सिंह (जे० सी०-180836 एक्स)—1 जून, 2000।

सूबेदार नसीब सिंह (जे० सी०-212834 एफ)—1 अगस्त, 2000।

सूबेदार जगदीश चन्द (जे० सी०-196827 ए)—1 अगस्त, 2000।

सूबेदार मननाम सिंह (जे० सी०-174911 ए)—1 सितम्बर, 2000।

सूबेदार परगट सिंह (जे० सी०-203628 एक्स)—1 अक्टूबर, 2000।

सूबेदार दिलबाग सिंह (जे० सी०-178440 पीं)—1 नवम्बर, 2000।

सूबेदार जमनाल सिंह (जे० सी०-192522 एच)—1 नवम्बर, 2000।

सूबेदार दरबारा सिंह (जे० सी०-428127 एम)—1 जनवरी, 2001।

सूबेदार अमरीक सिंह (जे० सी०-192856 एक्स)—1 फरवरी, 2001।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क कश्मीर सिंह पठानिया (जे० सी०-428510 एल)—10 मार्च, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क मुभ कर्ण (जे० सी०-428512 डब्ल्यू)—1 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क सूच्चा सिंह (जे० सी०-428521 एक्स)—7 जून, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क सुरिन्दर कुमार (जे० सी०-428522 ए)—1 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क यश पाल कपूर (जे० सी०-428523 एच)—1 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क परमा नन्द (जे० सी०-428524 एल)—1 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क मेहर सिंह राणा (जे० सी०-428525 एन)—1 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार क्लर्क प्रेम चन्द शर्मा (जे० सी०-428537 एच)—1 दिसम्बर, 2000।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मुरजीत सिंह (जे० सी०-428498 पीं)—22 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार यश पाल सिंह (जे० सी०-428214 ए)—22 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जे० सी०-428753 डब्ल्यू)—22 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार गुरमन्तोष सिंह (जे० सी०-428564 एम)—22 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जे० सी०-428667 एल)—1 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-428283 डब्ल्यू)—28 अप्रैल, 2000।

नायब सूबेदार (जे सी-42853 एम)
—21 मई, 2000।

नायब सूबेदार कर्मजीत सिंह (जे सी-428334 एम्स)—1 जन, 2000।

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जे सी-428690 बाई)—1 जन, 2000।

नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जे सी-428356 एम्स)—1 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जे सी-428474 एल)—1 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे सी-427535 एम्स)—01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार राम चन्द वर्मा (जे सी-428636 एल)—01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार धाम राम (जे सी-428622 एल)—23 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार कुतबीर सिंह (जे सी-428335 एल)—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार अणोक कुमार (जे सी-428544 बाई)—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जे सी-428530 बाई)—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार भगत सिंह (जे सी-428553 ए)—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार दिल राम (जे सी-428582 पी)—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार बृद्ध राम (जे सी-428585 एल)—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार मनोहर लाल (जे सी-428608 बाई)—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार शक्ति सिंह (जे सी-428635 एल)—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार लाल सिंह बिब (जे सी-428692 के)—24 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार गुग्नेज सिंह (जे सी-428391 ए)—01 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार गुग्नेज सिंह (जे सी-428451 के)—01 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार गुग्नेज सिंह सिद्धु (जे सी-428513 बाई)—01 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार शमविन्दर सिंह (जे सी-428598 ए)—01 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जे सी-428697 एल)—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार तरलाक सिंह (जे सी-428551 पी)—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार मविन्दर सिंह (जे सी-428415 बाई)—01 जनवरी, 2001।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे सी-428418 एम्स)—01 जनवरी, 2001।

नायब सूबेदार जलधीर सिंह (जे सी-428578 एम्स)—01 जनवरी, 2001।

इन्फेन्ट्री

मद्रास रेजिमेंट

सूबेदार के रक मे

नायब सूबेदार एम्स विक्टेसन (जे सी-438033 एल)—01 अक्टूबर, 1998।

नायब सूबेदार राजा बे० (जे सी-438048 एल)—1 जुलाई, 1999।

नायब सूबेदार ए० पचिय पा (जे सी-438050 एल)—1 जुलाई, 1999।

नायब सूबेदार ए० अयाकत (जे सी-438121 बाई)—1 अगस्त, 1999।

नायब सूबेदार एम्स पचई तामी (जे सी-438123 के)—1 सितम्बर, 1999।

नायब सूबेदार शिवानन्द उर्लगाड्डी (जे सी-438125 पी)—1 सितम्बर, 1999।

नायब सूबेदार पी० भार्गवन गिल्ल (जे सी-438127 ए)—1 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार मुन्नु राज पी ए (जे सी-438138 एम्स)—1 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार एम्स मोहन (जे सी-438161 ए)—1 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार एम्स बमीर (जे सी-438222 एम्स)—1 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार गणेशन टी० (जे सी-438241 एम्स)—1 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार एम्स नटराजन (जे सी-438250 बाई)—1 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार पी० अदियपनम (जे सी-438251 एल)—1 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार सी० अन्नादुरई (जे सी-438252 के)—1 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार केशवन जी० (जेसी-438253 एम)---
1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार रामन्ता तोलामट्टी (जेसी-438254 पी)-
20 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार एन० मनी (जेसी-438349 पी)-
20 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार ए० अन्धानिदर (जेसी-438350 के)-
20 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार के० पेरुमल (जेसी-438643 पी)-
9 जुलाई 2000 ।

नाथब सूबेदार सी० अरुमुगम (जेसी-438644 वाई)-
9 जुलाई 2000 ।

नाथब सूबेदार रवीन्द्रन म्नानी (जेसी-438439 डब्ल्यू)-
1 अक्टूबर 2000 ।

नाथब सूबेदार ई० मिलवामनी (जेसी-438417 एम)-
1 अक्टूबर 2000 ।

नाथब सूबेदार जी० रंगामामी (जेसी-138118 ए)-
1 अक्टूबर 2000 ।

नाथब सूबेदार ए० मन्थकुणन (जेसी-438419 एच)-
1 नवम्बर 2000 ।

नाथब सूबेदार ए० सूर्यनारायणन (जेसी-138167 एफ)-
1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार एम० आर० पराशराम नाथ (जेसी-
210949 के)-1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार बिक्रम सुब्बाय्य बरकाकूवा (जेसी-
438179 डब्ल्यू)-1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार ए० सुब्रामनियन (जेसी-438221 के)-
1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार आर० दामोदरन (जेसी-438261 एन)-
1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार चन्द्रन कुन्डथिल (जेसी-428219 एम)-
1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार एम० सुन्दर (जेसी-438220 एफ)-
1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार आर० कन्दईयन (जेसी-438296 एफ)-
1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार सी० डल्लाणन (जेसी-438297 के)-
1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार जी० गतोमन (जेसी-438298 एम)-
1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार संगमड वीरगुणम्पा (जेसी-438334 एम)
---1 जनवरी 2000 ।

नाथब सूबेदार अन्णाबलम पी० (जेसी-438416 पी)-
1 अक्टूबर 2000 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुणन टी (जेसी-156869 के)-1 जनवरी
2000 ।

सूबेदार रवीन्द्रन पी० (जेसी-178203 एल) 1 जनवरी
2000 ।

सूबेदार के रैंक में

नाथब सूबेदार गजेन्द्रन (जेसी-438530 एम)-
1 जुलाई 2000 ।

नाथब सूबेदार ए० गुन्दरेशन (जेसी-438472 एन)-
29 जुलाई 2000 ।

नाथब सूबेदार रेमाकुमम ए० (जेसी-438473 डब्ल्यू)-
29 जुलाई 2000 ।

वी राजगुप्ता राईहल

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लफे मिड (जेसी-172567 एफ)-01 मार्च
2000 ।

सूबेदार एन्ड्रय पारा मिड (जेसी-164756 डब्ल्यू)-
01 अप्रैल 2000 ।

सूबेदार थम रॉय (जेसी-155987 एन)-01 अप्रैल
2000 ।

सूबेदार थम पल (जेसी-167187 वाई)-01 अप्रैल
2000 ।

सूबेदार लफे मिड (जेसी-148396 एफ)-01 मई
2000 ।

सूबेदार थम मिड गडी (जेसी-173841 ए)-
01 जून 2000 ।

सूबेदार राजन थाम (जेसी-171866 एन)-
01 जुलाई 2000 ।

सूबेदार महेन पाल मिड एम एम (जेसी-171871 वाई)
---01 अगस्त 2000 ।

सूबेदार भवाई मिड (जेसी-172564 एन)-01 अगस्त
2000 ।

सूबेदार लफे मिड (जेसी-148397 के)-01 अगस्त
2000 ।

सूबेदार लफे मिड (जेसी-212889 एम)-
01 अप्रैल 2000 ।

सूबेदार के रैंक में

- नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-468415 एफ)
—7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार हावा सिंह (जे० सी०-468425 एल)
—7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार मुखवीर सिंह गहलोत (जे० सी०-468447 के)—7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार शीरी राम (जे० सी०-468450 के)
—7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार धानमी राम (जे० सी०-468493 बाई)—7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार शंकर सिंह (जे० सी०-468524 एन)
—7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जे० सी०-468449 पी)
—7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार रामें प्रयाग (जे० सी०-468593 के)
—7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार कल्याण सिंह (जे० सी०-468594 एम)
—7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार सूबे सिंह (जे० सी०-468595 पी)—
7 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार विजय सिंह शेखावत (जे० सी०-468596 एम)
—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार लेख राम (जे० सी०-468528 के)—
01 जनवरी, 2000।
- नायब सूबेदार हावा सिंह (जे० सी०-468553 एच)
—01 जनवरी, 2000।
- नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी०-468619 एन)
—01 जनवरी, 2000।
- नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जे० सी०-468652 एल)
—01 जून, 2000।
- नायब सूबेदार राम सन्न (जे० सी०-468044 के)—
01 अक्टूबर, 1999।
- नायब सूबेदार राम पाल सिंह धौचक (जे० सी०-468131 एम)—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार भीम सिंह चौहान (जे० सी०-468222 एफ)—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार जयवीर सिंह (जे० सी०-468255 एम)
—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार राम लाल सिंह (जे० सी०-468294 एल)—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार ओम पाल सिंह (जे० सी०-468270 एफ)—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार साधु सिंह (जे० सी०-468295 एन)
—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार भदर सिंह (जे० सी०-468335 के)—
—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार काशी राम (जे० सी०-468332 डब्ल्यू)
—01 जनवरी, 2000।
- नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-468362 एन)
—01 अप्रैल, 2000।
- नायब सूबेदार रतन सिंह राजपूत (जे० सी०-468433 के)—01 अप्रैल, 2000।
- नायब सूबेदार हनुमाना राम (जे० सी०-468421 पी)—01 अप्रैल, 2000।
- नायब सूबेदार चन्दर पाल सिंह (जे० सी०-468422 एम)—01 अप्रैल, 2000।
- नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी०-468452 पी)
—28 मई, 2000।
- नायब सूबेदार सुमेर सिंह (जे० सी०-468519 एच)
—01 मितम्बर, 2000।
- नायब सूबेदार राम बहादुर सिंह (जे० सी०-468545 के)—01 मितम्बर, 2000।
- नायब सूबेदार इन्दर सिंह (जे० सी०-468030 के)
—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार धन सिंह (जे० सी०-468113 पी)—
07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार गोविन्द सिंह राठी (जे० सी०-468114 एम)—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार हीर सिंह भाटी (जे० सी०-468115 ए)—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार लाल सिंह (जे० सी०-468280 एल)
—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार मूरख सिंह (जे० सी०-468314 एन)
07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार तेज सिंह धनकर (जे० सी०-468405 एम)—01 मार्च, 2000।
- नायब सूबेदार मदन सिंह शेखावत (जे० सी०-468194 ए)—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार रोहतास सिंह (जे० सी०-468195 एच)—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार मदन लाल (जे० सी०-468100 एम)
—07 दिसम्बर, 1999।
- नायब सूबेदार रानी पाल (जे० सी०-468197 एन)
—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जे० सी०-468404 पी)—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार गंगा सिंह (जे० सी०-468469 एच)—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार प्रभु सिंह शेखावत (जे० सी०-468110 एफ)—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार ब्रज नारायण सिंह (जे० सी०-468299 के)—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार राम चन्द्र सिंह (जे० सी०-468445 वाई)—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार राधा सिंह (जे० सी०-468363 एफ)—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार लि छमन सिंह (जे० सी०-468464 के)—07 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जे० सी०-468470 एक्स)—26 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जे० सी०-468533 पी)—01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार धर्म पाल सिंह (जे० सी०-468534 एक्स)—01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार रमन सिंह पाल (जे० सी०-468554 एल)—12 दिसम्बर, 2000।

बिहार रेजिमेंट

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार सीधरण तराई (जे० सी०-183068 एम)—13 सितम्बर, 1999।

सूबेदार कृष्णा चन्द्र लंगुरी (जे० सी०-204169 डब्ल्यू)—19 जनवरी, 2000।

सूबेदार पुरण चन्द चम्पिया (जे० सी०-178069 एल)—19 जनवरी, 2000।

सूबेदार सहदेव ओरांव (जे० सी०-179436 वाई)—19 जनवरी, 2000।

सूबेदार नारायण जेता (जे० सी०-176396 एक्स)—18 फरवरी, 2000।

सूबेदार पारमनाथ राम (जे० सी०-188404 एक्स)—10 मार्च, 2000।

सूबेदार फिलिम कोन्गारी (जे० सी०-163704 एन)—10 मार्च, 2000।

सूबेदार कैलाश चन्द्र राउत (जे० सी०-184441 एन)—10 मार्च, 2000।

सूबेदार रामधन राय (जे० सी०-196596 पी)—23 मई, 2000।

सूबेदार नारायण केरीया (जे० सी०-221039 के)—23 मई, 2000।

सूबेदार गोविन्द चन्द्रा दास (जे० सी०-222768 वाई)—23 मई, 2000।

सूबेदार मजिस्टर सिंह सेना मेडल (जे० सी०-188402 एम)—23 मई, 2000।

सूबेदार जैम्य राउत (जे० सी०-202063 एल)—1 जून, 2000।

8 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रेम बहादुर थापा (जे० सी०-180817ए)—1 मई, 2000।

सूबेदार लोक बहादुर गुरूंग (जे० सी०-185574 डब्ल्यू)—1 जुलाई, 2000।

सूबेदार प्रेम बहादुर गुरूंग (जे० सी०-178333 एन)—1 अक्टूबर, 2000।

सूबेदार सुक बहादुर गुरूंग (जे० सी०-180819 वाई)—1 अक्टूबर, 2000।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार टिक राम पुन (जे० सी०-623198 एन)—1 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार गणेश बहादुर थापा (जे० सी०-623210 के)—1 फरवरी, 2000।

नायब सूबेदार निम बहादुर सगर (जे० सी०-623188 के)—1 जून, 2000।

नायब सूबेदार आनन्द गुरूंग (जे० सी०-623189 एम)—1 जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार अनिल कुमार थापा (जे० सी०-623190 एफ)—1 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार रमन सात गुरूंग (जे० सी०-623219 वाई)—1 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार टिका राम राता (जे० सी०-623215 एन)—1 सितम्बर, 2000।

नाथब सुबेदार गंगाधर गंगु (जे.सी.-538491 एन) --
01 सितम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार सुर्जित सिंह गुप्ता (जे.सी.-623191 के) --
01 सितम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार लाला सुन्दर लाल (जे.सी.-538335 डब्ल्यू) --
01 अक्टूबर 2000 ।

नाथब सुबेदार गंगाधर गंगु (जे.सी.-538344 एफ) --
01 नवम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार (निजि) गुजदेव कुमार थापा (जे.सी.-
623129 एफ) --01 अक्टूबर 2000 ।

नाथब सुबेदार (निजि) राम दरग यादव (जे.सी.-
623217 एन) --01 सितम्बर 2000 ।

वृत्तांक रेजिमेंट

सुबेदार के रैंक में

नाथब सुबेदार कुन्दर सिंह (जे.सी.-538316 वाई) --23
दिसम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार वेद प्रताप सिंह (जे.सी.-538607 वाई) --
18 जनवरी 2000 ।

नाथब सुबेदार नारायण सिंह (जे.सी.-538282 डब्ल्यू) --
31 अक्टूबर 2000 ।

नाथब सुबेदार लक्ष्मी चन्द (जे.सी.-538494 एफ) --
14 नवम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार महावीर सिंह (जे.सी.-538495 के) --
14 नवम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार चित्तेश सिंह (जे.सी.-538369 एफ) --
01 जुलाई 2000 ।

नाथब सुबेदार दाम सिंह (जे.सी.-538417 एम) --13
सितम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार नारायण सिंह (जे.सी.-538419 एफ) --
14 अक्टूबर 2000 ।

नाथब सुबेदार नारायण सिंह (जे.सी.-538580 पी) --
02 नवम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार प्रेम सिंह (जे.सी.-538379 एम) --11
नवम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार सिंह (जे.सी.-538486 पी) --
01 दिसम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार मन्मथ सिंह (जे.सी.-538553 एफ) --
26 फरवरी 2000 ।

नाथब सुबेदार मन्मथ सिंह (जे.सी.-538491 एन) --18
अगस्त 2000 ।

सुबेदार कर्तव्य के रैंक में

नाथब सुबेदार कर्तव्य के रैंक में (जे.सी.-538512 डब्ल्यू) --
23 अक्टूबर 2000 ।

नाथब सुबेदार कर्तव्य के रैंक में (जे.सी.-538545
के) --05 जुलाई 2000 ।

नाथब सुबेदार कर्तव्य के रैंक में (जे.सी.-538546
एम) --22 अगस्त 2000 ।

नाथब सुबेदार कर्तव्य के रैंक में (जे.सी.-538547 पी) --
01 अगस्त 2000 ।

नाथब सुबेदार कर्तव्य के रैंक में (जे.सी.-538550
पी) --01 सितम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार कर्तव्य के रैंक में (जे.सी.-538569 एल)
--19 सितम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार कर्तव्य के रैंक में (जे.सी.-538568
एन) --01 अगस्त 2000 ।

दो अगस्त रेजिमेंट

नाथब सुबेदार दी जयसिंग (जे.सी.-590039 एन) --28
अक्टूबर 2000 ।

नाथब सुबेदार ध्यानी जयसिंग (जे.सी.-590045 एफ) --
08 दिसम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार देविना मेघा (जे.सी.-590025 एन) --12
नवम्बर 2000 ।

नाथब सुबेदार सी चिंगमान (जे.सी.-590041 एल) --
01 फरवरी 2001 ।

पिम्प रेजिमेंट

सुबेदार के रैंक में

नाथब सुबेदार पुष्पसिंह सिंह (जे.सी.-498340 के) --02
जनवरी 2000 ।

नाथब सुबेदार नारायण सिंह (जे.सी.-498242 के) --30
जनवरी 2000 ।

नाथब सुबेदार नारायण सिंह (जे.सी.-498298 डब्ल्यू) --
01 फरवरी 2000 ।

नाथब सुबेदार नारायण सिंह (जे.सी.-498290 के) --
01 फरवरी 2000 ।

नाथब सुबेदार नारायण सिंह (जे.सी.-498330 के) --01
फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार जयमल सिंह (जेसी-498366 बाई)---
01 फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार अविनाश सिंह (जेसी-498403 एफ)---
01 फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार बलविंदर सिंह (जेसी-498463 डब्ल्यू)
---01 फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-498466 के)---01
फरवरी 2000 ।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-498257 एम)---01
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार गुरुमुख सिंह (जेसी-498277 ए)---01
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार तरसेन सिंह (जेसी-498301 एल)---01
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-498311 पी)---01
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार गुरमोज सिंह (जेसी-498307 एफ)---01
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार सरदुल सिंह (जेसी-498324 एम)---01
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार सुब्रह्म सिंह (जेसी-498348 डब्ल्यू)---
01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार करतल सिंह (जेसी-498365 डब्ल्यू)---
01 मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-498404 के)---01
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार कुलमीन सिंह (जेसी-498422 एम)---01
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार जयमल सिंह (जेसी-498409 एल)---01
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार कुलमीन सिंह (जेसी-498352 बाई)---06
मार्च 2000 ।

नायब सूबेदार सेवा सिंह (जेसी-498281 ए)---01
अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-498288 एम)---01
अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार जगविंदर सिंह (जेसी-498310 एम)---
01 अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जेसी-498331 एफ)---01
अप्रैल 2000 ।

2-124G1/01

नायब सूबेदार गलजार सिंह (जेसी-498490 ए)---01
अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-498371 एल)---09
अप्रैल 2000 ।

नायब सूबेदार मजीन सिंह (जेसी-498315 एल)---05
मई 2000 ।

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-498282 एल)---01
जून 2000 ।

नायब सूबेदार करनार सिंह (जेसी-498326 एफएम)---01
जून 2000 ।

नायब सूबेदार जोगिंदर सिंह (जेसी-498387 पी)---01
जून 2000 ।

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-498399 के)---01
जून 2000 ।

नायब सूबेदार लखविंदर सिंह (जेसी-498180 पी)---
06 जून 2000 ।

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-498209 एम)---
01 जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार सुलबचन सिंह (जेसी-498364 एल)---
01 जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार मुरजीत सिंह (जेसी-498423 पी)---01
जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार दलजीत सिंह (जेसी-498471 पी)---01
जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार दीदार सिंह (जेसी-498583 पी)---01
जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-498363 एल)---15
जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-498147 एफएम)---
01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार गुरुदाम सिंह (जेसी-498349 बाई)---
01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार जोगिंदर सिंह (जेसी-498418 के)---01
अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार तरलोचन सिंह (जेसी-498368 पी)---
01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-498441 एफएम)---08
अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार गुरार सिंह (जेसी-498276 एफएम)---10
अगस्त 2000 ।

- नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-498484 एफ) —
10 अगस्त 2000 ।
- नायब सूबेदार देविंदर सिंह (जेसी-498584 एक्स) —
20 अगस्त 2000 ।
- नायब सूबेदार मम्पूरन सिंह (जेसी-498299 बाई) —
01 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार गरमेल सिंह (जेसी-498353 एफ) —
01 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार गरवचन सिंह (जेसी-498369 एम) —
01 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-498370 एफ) —01
सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-498436 एच) —
01 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार गुरजीत सिंह (जेसी-498472 एक्स) —
01 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-498401 डब्ल्यू)
—03 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार गोगण्ड सिंह (जेसी-498405 एम) —
03 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार आनन्द सहाय सिंह (जेसी-498288
एक्स) —09 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार हरचन्द सिंह (जेसी-498598 एक्स) —
11 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार गोगिंदर सिंह (जेसी-498657 बाई) —
11 सितम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार पुन्येश सिंह (जेसी-498267 डब्ल्यू) —
01 अक्टूबर 2000 ।
- नायब सूबेदार लखविंदर सिंह (जेसी-498453 एम) —
01 अक्टूबर 2000 ।
- नायब सूबेदार मनोहर सिंह (जेसी-498279 एल) —
22 अक्टूबर 2000 ।
- नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-498725 पी) —13
नवम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार लखविंदर सिंह (जेसी-498278 एच) —
01 दिसम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार हरवीर सिंह (जेसी-498501 एफ) —
01 दिसम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार भजन सिंह (जेसी-498512 एन) —01
दिसम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार दणजीत सिंह (जे० सी०-498244 पी)
—1 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार सल्लू सिंह (जे० सी०-498110 डब्ल्यू)
—1 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार मज्जन सिंह (जे० सी०-498283 एन)
—1 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जे० सी०-498284
डब्ल्यू) —1 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार निरजन सिंह (जे० सी०-498424
एक्स) —1 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार मुन्दर सिंह (जे० सी०-212624 एच)
—01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जे० सी०-498192
बाई) —01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जे० सी०-498184 एल)
—01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार मकखन सिंह (जे० सी०-212625
एल) —01 जनवरी 2000 ।
- नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जे० सी०-498111 बाई)
—01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार जसबन्त सिंह (जे० सी०-498227
पी) —01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जे० सी०-498185
एन) —01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार गुरजन्त सिंह (जे० सी०-498112 एफ)
—01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार जसविन्धर सिंह (जे० सी०-498294
ए) —01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार जसबन्त सिंह (जे० सी०-498318
बाई) —01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार मुख्तियार सिंह (जे० सी०-498426
एच) —01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार धिलबाग सिंह (जे० सी०-498122
एल) —01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार त्रिलोचन सिंह (जे० सी०-498193
डब्ल्यू) —01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार गुरदीप सिंह (जे० सी०-498264
एच) —01 जनवरी, 2000 ।
- नायब सूबेदार हरबल सिंह (जे० सी०-498106
एम) —01 जनवरी, 2000 ।

नाथब सूबेदार इकबाल सिंह (जं० सी०-498198 एल०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार अमरीक सिंह (जं० सी०-498116 एक्स०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार दलीप सिंह (जं० सी०-498236 एल०)—01 जनवरी, 2001।

नाथब सूबेदार जीवन सिंह (जं० सी०-498296 एल०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार अनूप सिंह (जं० सी०-498129 पी०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जं० सी०-498425 ए०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार कनैल सिंह (जं० सी०-498237 बाई०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार मुख्तियार सिंह (जं० सी०-498384 एफ०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार जागिन्दर सिंह (जं० सी०-498070 ए०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार गनवीर सिंह (जं० सी०-498186 डब्ल्यू०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार महेंद्र सिंह (जं० सी०-498292 पी०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार लाल सिंह (जं० सी०-498427 एल०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार जसवीर सिंह (जं० सी०-498015 के०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार बल सिंह (जं० सी०-498206 बाई०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार अर्जीत सिंह (जं० सी०-498238 एफ०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार अनूप सिंह (जं० सी०-498253 डब्ल्यू०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार सविन्दर सिंह (जं० सी०-498455 एक्स०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार बलदेव सिंह (जं० सी०-498239 के०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार अवतार सिंह (जं० सी०-498367 के०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार हरभजन सिंह (जं० सी०-498241 एफ०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जं० सी०-498232 ए०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार मुख्तियार सिंह (जं० सी०-498256 के०)—01 जनवरी, 2000।

सूबेदार मेजर के रैंक।

सूबेदार साहिब सिंह (जं० सी०-160917 डब्ल्यू०)—01 फरवरी, 1998।

सूबेदार के रैंक।

नाथब सूबेदार जसवंत सिंह (जं० सी०-220204 एक्स०)—21 अगस्त, 1997।

नाथब सूबेदार वरन सिंह (जं० सी०-201043 एल०)—01 जनवरी, 1998।

नाथब सूबेदार हरभजन सिंह (जं० सी०-216552 एफ०)—01 जनवरी, 1998।

नाथब सूबेदार डॉनकोरहा (जं० सी०-201939 एम०)—01 जनवरी, 1998।

नाथब सूबेदार अजीत सिंह (जं० सी०-220193 डब्ल्यू०)—01 मार्च, 1998।

नाथब सूबेदार अमरीक सिंह (जं० सी०-498142 बाई०)—01 जून, 1999।

नाथब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जं० सी०-220750 के०)—01 जून, 1999।

नाथब सूबेदार नरभजन सिंह (जं० सी०-498260 एम०)—01 जुलाई, 1999।

नाथब सूबेदार बलजीव सिंह (जं० सी०-498104 एल०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार मुक्ता सिंह (जं० सी०-498105 एल०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार जगीर सिंह (जं० सी०-498115 पी०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार कनैल सिंह (जं० सी०-225823 पी०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार हरबस सिंह (जं० सी०-225826 एल०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार जगजीत सिंह (जं० सी०-225829 डब्ल्यू०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार मुख्तियार सिंह (जं० सी०-498012 डब्ल्यू०)—01 जनवरी, 2000।

नाथब सूबेदार बल सिंह (जं० सी०-498109 एफ०)—01 जनवरी, 2000।

नायब सूबेदार लखमीर सिंह (जे० सी०-498154 एन)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार पिपल सिंह (जे० सी०-498173 बाई)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-498303 डब्ल्यू)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जे० सी०-498188 एफ)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जे० सी०-498189 के)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार कशमीर सिंह (जे० सी०-498190 बाई)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार जयनैल सिंह (जे० सी०-498215 ए)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार बुद्ध सिंह (जे० सी०-498235 एन)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार अजब सिंह (जे० सी०-498169 डब्ल्यू)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार बकशीश सिंह (जे० सी०-498074 डब्ल्यू)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जे० सी०-498386 एम)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जे० सी०-498388 एक्स)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-498392 ए)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-498243 एम)---1 जनवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार मुरजीत सिंह (जे० सी०-498293 एक्स)---1 जनवरी, 2000 ।

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क अमरजीत सिंह (जे० सी०-181853 के)---1 मार्च, 1998 ।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क कशमीर सिंह (जे० सी०-220986 बाई)---1 दिसम्बर, 1997 ।

नायब सूबेदार क्लर्क जिव कुमार (जे० सी०-498337 के)---1 मई, 2000 ।

नायब सूबेदार क्लर्क राज बहादुर ठाका (जे० सी०-498339 पी)---1 अगस्त, 2000 ।

नायब सूबेदार क्लर्क गणेश कुमार (जे० सी०-498347 एन)---1 अक्तूबर, 2000 ।

नायब सूबेदार क्लर्क जगमोहन (जे० सी०-498354 के)---1 अक्तूबर, 2000 ।

नायब सूबेदार क्लर्क नरपाल (जे० सी०-498356 पी)---1 नवम्बर, 2000 ।

नायब सूबेदार क्लर्क रणपत सिंह (जे० सी०-498360 एक्स)---1 दिसम्बर, 2000 ।

जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

ठोस सूबेदार (लिपिक) 'दान्तिक के लिए

नायब सूबेदार (लिपिक) मदन लाल चौधरी (जे० सी०-582321 एक्स)---01 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) किशन लाल (जे० सी०-492322 ए)---01 मार्च, 2001 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) देवेन्द्र कुमार शर्मा (जे० सी०-592323 एच)---01 अप्रैल 2001

नायब सूबेदार (लिपिक) लेख राज परिहार (जे० सी०-592324 एल)---01 अप्रैल 2001 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) कुल रोप सिंह बनडालिया (जे० सी०-592325 एन)---01 अप्रैल 2001 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) बालकन्दर सिंह (जे० सी०-592326 डब्ल्यू)---01 अप्रैल 2001 ।

ठोस सूबेदार मेजर की 'दोन्तनिक के लिए

सूबेदार बाबू सिंह (जे० सी०-592010 के)---01 दिसम्बर, 2000 ।

सूबेदार मदन लाल (जे० सी०-178668 एल)---01 जनवरी, 2001 ।

सूबेदार रेमाल सिंह (जे० सी०-169293 एम)---01 जनवरी, 2001 ।

सूबेदार रत्न लाल (जे० सी०-163718 एन)---01 जनवरी, 2001 ।

सूबेदार सतपाल (जे० सी०-172649 एम)---01 फरवरी, 2001 ।

सूबेदार सतपाल (जे० सी०-212776 के)---01 फरवरी, 2001 ।

सूबेदार अब्दुल मलाम (जे० सी०-183140 एक्स)---01 मार्च, 2001 ।

सूबेदार बोध राज (जे० सी०-592082 एन)---01 मार्च, 2001 ।

ठास सूबेदार की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार राम लाल (जे० सी०-592528 एम)---
01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जे० सी०-592529 ए)---
01 दिसम्बर, 2000।

ठास सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिए

सूबेदार रमाल सिंह (जे० सी०-167520 एम)---11
जनवरी, 2000।

सूबेदार तिलक राज शर्मा (जे० सी०-162232 डब्ल्यू)---
15 जनवरी, 2000।

सूबेदार मोहम्मद खातिद (जे० सी०-166770 एफ)---
01 मार्च, 2000।

सूबेदार जैनो राम (जे० सी०-178134 ए)---01 मार्च,
2000।

सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जे० सी०-190795 एम)---
01 मार्च, 2000।

सूबेदार रत्न सिंह, एस एम (जे० सी०-169461 के)---
01 मार्च, 2000।

सूबेदार बालक राम (जे० सी०-203850 वाई)---01
जुलाई, 2000।

सूबेदार दरवार सिंह (जे० सी०-188567 एन)---01
अगस्त, 2000।

सूबेदार नन्द सिंह (जे० सी०-178667 एच)---01
नवम्बर, 2000।

सूबेदार बलवन्त सिंह, बीआरएम (जे० सी०-226905
के)---01 सितम्बर, 2000।

सूबेदार स्वर्ण लाल (जे० सी०-205722 ए)---01
सितम्बर, 2000।

सूबेदार रोमेश चन्द्र (जे० सी०-179443 पी)---01
नवम्बर, 2000।

सूबेदार अजीत राम (जे० सी०-193911 पी)---01
नवम्बर, 2000।

सूबेदार सुजान सिंह कोतवाल (जे० सी०-205721
एक्स)---01 नवम्बर, 2000।

ठास सूबेदार मेजर विपिक को धर्मशाला दी जाती है

सूबेदार (विपिक) मोहम्मद युसुफ दान (जे० सी०-190797
एफ)---15 जनवरी 2000।

सूबेदार (विपिक) नान चन्द शर्मा (जे० सी०-211768 एम)---
15 मार्च, 2000।

सूबेदार (विपिक) नानदेव चन्द शर्मा (जे० सी०-224307 एम)
---01 अप्रैल, 2001।

सूबेदार (विपिक) अति मोहम्मद दान (जे० सी०-224306 एम)
---01 अप्रैल, 2001।

ठास सूबेदार की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार बृन्दाप सिंह (जे० सी०-59248पी)---01
फरवरी, 2000।

नायब सूबेदार के. ए. सिंह (जे० सी०-59249एम)---01
फरवरी, 2000।

नायब सूबेदार राम बलदु (जे० सी०-59240एफ)---01
मार्च, 2000।

नायब सूबेदार बगवार सिंह (जे० सी०-59242एफ)---01
जुलाई, 2000।

नायब सूबेदार तुलसी दान (जे० सी०-59243वाई)---01
सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार मनीष कुमार (जे० सी०-592409एफ)---01
नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार कमल सिंह, एस एम (जे० सी०-592439वाई)
---01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-592440एन)---01
दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार ओंकार चन्द बक्शा (जे० सी०-592441डब्ल्यू)
---01 दिसम्बर, 2000।

जाट रेजीडेंट

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) धीर प्रकाश त्रिपाठी (जे० सी०-
152329एन)---7 दिसम्बर 1999।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) पण्डित प्रसाद लखेड़ा (जे० सी०-
152330एच)---7 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) सुनील कुमार त्रिपाठी (जे० सी०-
164328एन)---7 दिसम्बर, 1999।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) श्री कृष्ण देव भार्गव (जे० सी०-
164327पी)---7 दिसम्बर, 1999।

3 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मान प्रसाद गुप्त (जे० सी०-17064एन)---
01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार कलकामि शर्मा (जे० सी०-17065एन)---
01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार दिनेश जगदीश (जे० सी०-170706डब्ल्यू)
---01 अक्टूबर, 1999।

नायब सूबेदार पहल सिंह थापा (जेसी-607074पी) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार हरेक बहादुर शर्मा (जेसी-607081एल) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार लाल बहादुर बनवर (जेसी-607039 एम) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार निर्धा बहादुर थापा (जेसी-607031 ए) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार मन्ना बहादुर थापा (जेसी-607032 एन) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार तुल सिंह शुक्ल (जेसी-607047 एम) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर तुल (जेसी-607063 एन) —01 अक्टूबर, 99।

9 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बालू बहादुर क्षेत्री (जेसी-629061 एक्स) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार मन्ना मन्ना क्षेत्री (जेसी-629116 एन) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार आम बहादुर ठाकुर (जेसी-629161 एन) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार राम बहादुर क्षेत्री (जेसी-629126 ए) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार विष्णु बहादुर क्षेत्री (जेसी-6211105पी) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर कार्की (जेसी-629162 एल) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार रामा नन्द पीठेय (जेसी-629082 एन) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार बल बहादुर क्षेत्री (जेसी-629098 आई) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार विष्णु बहादुर सिंह ठाकुरी (जेसी-629095 एल) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार गणेश बहादुर मल्ला (जेसी-629099 एफ) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार धर्म सिंह राणा (जेसी-629108 एक्स) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार राज थापा (जेसी-629180 एन) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार राम बहादुर मल्ला (जेसी-629120 आई) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार खेम बहादुर ठाकुरी (जेसी-629143 ए) —01 सितम्बर, 99।

नायब सूबेदार विजय सिंह कार्की (जेसी-629147 डब्ल्यू) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार रेशम बहादुर कार्की (जेसी-629148 आई) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार बृद्धी बहादुर क्षेत्री (जेसी-629149 एफ) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार चित्रा बहादुर क्षेत्री (जेसी-629156 एक्स) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार मित्रा बहादुर क्षेत्री (जेसी-629158 एन) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार अर्जुन चन्द (जेसी-629170के) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार जित बहादुर क्षेत्री (जेसी-629185 एम) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार केसर सिंह क्षेत्री (जेसी-629198के) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार भीम बहादुर खड्का (जेसी-629121 एफ) —01 अक्टूबर, 99।

नायब सूबेदार हिम बहादुर खड्का (जेसी-629132 एल) —01 अक्टूबर, 99।

जम्मू और कश्मीर राईफल

सूबेदार मेजर लिपिक (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार लिपिक शाम लाल शर्मा (जेसी-6219784 एल) जैक राईफल —03 जुलाई, 2000।

सूबेदार लिपिक गिरधारी लाल नरवाल (जेसी-578193 ए) जैक राईफल —01 दिसम्बर, 2000।

सूबेदार लिपिक (जी० डी०) के रैंक में

नायक सूबेदार लिपिक विगम्वर सिंह राणा (जेसी-578506 एन) जैक राईफल —03 जुलाई, 2000।

नायक सूबेदार लिपिक राजेन्द्र सिंह पटियाल (जेसी-578507 डब्ल्यू) जैक राईफल —01 सितम्बर, 2000।

नायक सूबेदार लिपिक मणि राम (जेसी-578537 एम) जैक राईफल —01 सितम्बर, 2000।

नायक सूबेदार लिपिक ज्ञान चन्द (जेसी-578539 आई) जैक राईफल —01 दिसम्बर, 2000।

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार मेधा लिपिक के रैंक में

सूबेदार 1401 एल अल्लुम मिह (जेसी-2040520एल)---
01 फरवरी 2001।

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार अतुल मिह (जेसी-183428 एल)---01
अगस्त 2000।

सूबेदार मोहिन्द मिह (जेसी-169163 एल)---25
दिसम्बर 2000।

सूबेदार अनूप मिह (जेसी-205111 एल)---01 जनवरी
2001।

सूबेदार अरुण प्रकाश दुबे (जेसी-208066 पी) ---
01 जनवरी 2001।

सूबेदार राज राव अरुण (जेसी-189736 एल)---
01 मार्च 2001।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक दधीची राय (जेसी-478318 एल)
---01 फरवरी 2001।

नायब सूबेदार लिपिक अयराग मिह (जेसी-478326 एल)
---01 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार लिपिक गिर राज मिह (जेसी-478355
एल)---01 फरवरी 2001।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम हरि वर्मा (जेसी-478431 एल)
01 जून 2000।

नायब सूबेदार नरेश चन्द (जेसी-478075 एल)
01 अगस्त 2000।

नायब सूबेदार श्रीपाल सिंह (जेसी-478511 के)
01 सितम्बर 2000।

नायब सूबेदार हजारी लाल (जेसी-478452 एल)
01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार अय प्रकाश (जेसी-478504 एल)
01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार पुरन सिंह (जेसी-478596 एल)
01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-478257 एल)
01 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार बाबू लाल गुर्जर (जेसी-478628 एल)
29 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार (जेसी-183336 एल)
01 फरवरी 2001।

नायब सूबेदार (जेसी-183433 एल)
01 फरवरी 2001।

दिवान, अवर सचिव

थल सेवा विभाग/एमजी ओ/ईएमई कार्मिक

सं० 374, दिनांक 30 मई, 2001—राष्ट्रपति महर्षि
निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

हवलदार से नायब सूबेदार कलक (जीडी)
के रैंक में

हाथी मिह (14549340एल अब जेसी-755419एल)
---1 फरवरी, 2001।

मानी गोपाल देव (14549631एल अब जेसी-755422
एल)---01 फरवरी, 2001।

जय चन्द (14549656एल अब जेसी-755620एल)
---01 फरवरी, 2001।

सतपाल (14548969के अब जेसी-0755417एल)---
01 जनवरी, 2001।

सुसन्ता कुमार दाम (14549290एल अब जेसी-
755421पी)---01 फरवरी, 2001।

राम पाल (14549648वाई अब जेसी-755423एल)
---12 फरवरी, 2001/01 फरवरी, 2001*।

जगदीप (14549663एल अब जेसी-755624वाई)---
01 मार्च, 2001।

महावीर मिह (14549681एल अब जेसी-755627
एल)---01 मार्च, 2001।

हवलदार से नायब सूबेदार एम के टैक्नीकल
के रैंक में

केशव दल (14543017एल अब जेसी-755349के)---
01 जनवरी, 2001।

अलक देव चौधरी (14543180 ए अब जेसी-
755426एल)---01 फरवरी, 2001।

सम्पत मिह राठी (14539575के अब जेसी-
755345एल)---01 दिसम्बर, 2000 / 01 नवम्बर
2000*।

सुप्रता कुमार शर्मा (14541203एल अब जेसी-
755416के)---01 दिसम्बर, 2000।

संवत्सीन धोंग (14543025वाई अब जेसी-755418 पी)—12 फरवरी, 2001/01 जनवरी, 2001* ।

कुलेन्द्र सिन्हा (11541179ए अब जेसी-755425 एम)—01 फरवरी, 2001 ।

के० विनोद (11543121एन अब जेसी-755628पी)—26 फरवरी, 2001/01 जनवरी, 2001* ।

माई नाथ (11543129ए अब जेसी-755351एफ)—17 जनवरी, 2001/01 जनवरी, 2001* ।

हवलदार से नाथ सुबेदार (आरमोरर)
के रैंक में

महेश चन् (14548666एफ अब जेसी-755294एन)—27 जनवरी 2001/01 नवम्बर, 2000* ।

एस० फ्लासी चर्मा (14538903ए अब जेसी-755295एन)—10 फरवरी, 2001/01 नवम्बर, 2000* ।

के० मोना (14525550एम अब जेसी-755367 एम)—01 दिसम्बर, 2000/07 अक्टूबर, 2000* ।

राजेश्वर सिंह (14539203वाई अब जेसी-755369 एक्स)—01 दिसम्बर, 2000 ।

बाबूजी सिंह पी० (14538422एन अब जेसी-755368पी)—01 नवम्बर, 2000 ।

हवलदार से नाथ सुबेदार वी एम (एम वी)
के रैंक में

राम शन् (14524033एच अब जेसी-755292ए)—01 अक्टूबर, 2000 ।

हवलदार से नाथ सुबेदार इलैक्ट्रीशियन (एम वी)
के रैंक में

राम प्रवेश सिंह (14523721पी अब जेसी-755298 एफ)—01 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार से नाथ सुबेदार टी सी एन (जी पी ई)
के रैंक में

गैफवड रू पाण्डेय (14528200वाई अब जेसी-755436 एन)—01 फरवरी, 2001/01 जनवरी, 2001* ।

हवलदार से नाथ सुबेदार वैक्टर के रैंक में

बिकल्पा मौरा (14522412ए अब जेसी-755437 ए)—06 फरवरी, 2001/01 दिसम्बर, 2000* ।

हवलदार से नाथ सुबेदार गपलिस्टर के रैंक में

बहादुर सिंह (14525104ए अब जेसी-755371 पी)—01 फरवरी 2001/01 दिसम्बर, 2000* ।

राजेश्वर दश (14526467एफ अब जेसी-755439 एन)—01 जनवरी, 2001 ।

हवलदार से नाथ सुबेदार सिन्ध मैकर
के रैंक में

प्रेम लाल वर्मा (14527666एफ अब जेसी-755322 एफ)—08 जनवरी, 2001/11 दिसम्बर, 2000* ।

हवलदार से नाथ सुबेदार रेफ्रिजरेटर
मैकेनिक के रैंक में

बामा राजू जेयम राजू (14585699एम अब जेसी-755438एच)—01 जनवरी, 2001 ।

*पिछली तारीख में श्रेष्ठता दी जाती है ।

सुबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सुबेदार गुलशन कुलश्रे राज (जेसी-184158ए)—01 दिसम्बर, 2000 ।

सुबेदार बिरधिलाल सुभन (जेसी-182319वाई)—19 अक्टूबर, 2000/01 दिसम्बर, 2000* ।

सुबेदार सुब्बा सिंह (जेसी-182395एन)—01 दिसम्बर 2000 ।

सुबेदार दम्बाजी लाल (जेसी-184175ए)—06 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000* ।

सुबेदार अश्विनीचरण सी० (जेसी-182315एच)—01 दिसम्बर, 2000 ।

सुबेदार राम कुमार (जेसी-181621एन)—13 नवम्बर 2000/01 दिसम्बर, 2000* ।

सुबेदार गिर दत्त सिंह (जेसी-182325एम)—16 अक्टूबर, 2000/01 अक्टूबर, 2000* ।

सुबेदार शिव तारा सिंह भदौरिया (जेसी-181118 एन)—23 अक्टूबर 2000/01 दिसम्बर, 2000* ।

सुबेदार कृष्ण शन् (जेसी-181462वाई)—26 दिसम्बर 2000/1 मार्च 2000* ।

सुबेदार अश्विनी हुषैन अम्बारी (जेसी-189289पी)—08 जनवरी, 2001/01 दिसम्बर, 2000* ।

सुबेदार गन्दाजी (जेसी-182409ए)—30 दिसम्बर 2000/01 दिसम्बर 2000* ।

सुबेदार परमदेव सिंह सिन्हा (जेसी-181624वाई)—02 जनवरी 2001/01 अक्टूबर, 2000* ।

सूबेदार मेजर (क्लर्क) (जी डी)
के रैंक में

सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-218758एक्स)—03
नवम्बर, 2000/01 अक्टूबर, 2000।

सूबेदार के० के० बोराह (जेसी-215090एन)—01
दिसम्बर, 2000।

सूबेदार मेजर (एस के टेक्नीकल)
के रैंक में

सूबेदार एन रमन (जेसी-217219पी)—09 दिसम्बर
2000/01 अक्टूबर, 2000।

सूबेदार मेजर (आरप्रोसरा) के रैंक में

सूबेदार दयाम बिहारी सिंह (जेसी-747243एफ)—01
दिसम्बर 2000।

सूबेदार दयानन्द राय (जेसी-747554डब्ल्यू)—01 जनवरी
2001।

सूबेदार (टेक्नीकल) के रैंक में

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-750025पी)—01
अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार भूपेन्द्र वीर सिंह (जेसी-749999 एफ)
—01 अक्टूबर 2000।

नायब सूबेदार जय प्रकाश यादव (जेसी-750061ए)
—23 दिसम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार विजयन पिल्लै के (जेसी-750072एम)
—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार राम धनी (जेसी-750043एक्स)—18
नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार शेर सिंह वर्मा (जेसी-749895ए)—03
दिसम्बर, 2000/01 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार श्री विठ्ठल रतजाजी मोथा (जेसी-
749489ए)—01 नवम्बर 2000/01 अक्टूबर 2000।

नायब सूबेदार जोनार्धन कुमार पोडल (जेसी-
750064एन)—01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र मोहन्ती (जेसी-750085के)
—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार मो० अली ए० (जेसी-750073पी)—
01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार जगलाल प्रसाद (जेसी-750047एन)
—16 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000।

3-124 GI/2001

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार राठौर (जेसी-749925
एच)—01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार प्रेम पाल (जेसी-750060एक्स)—01
नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार गोरेलाल (जेसी-750075ए)—04
दिसम्बर, 2000/01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार मोहनदास एम० जी० (जेसी-750314
के)—13 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार विजय कुमार गुरुंग (जेसी-751161
एक्स)—29 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार दुर्गा पद्म हजरा (जेसी-750059 एच)
—06 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार राम प्रसाद तिवारी (जेसी-749490
पी)—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार हरी सूर्या प्रकाश राय (जेसी-750080
एल)—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश नागर (जेसी-749739
डब्ल्यू)—01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार काररी गोगाल नायडु (जेसी-749833
ए)—01 जून, 2000।

नायब सूबेदार विलीप कुमार दाम (जेसी-749972
के)—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार लाला राम पाल (जेसी-750036एफ)
—05 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार रमेशन एम० पी० (जेसी-750039पी)
—02 नवम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार सूरज प्रकाश (जेसी-750033एन)—
30 अक्टूबर, 2000/01 अक्टूबर, 2000।

नायब सूबेदार राज कुमार खण्डवाल (जेसी-750032
एल)—16 नवम्बर, 2000/01 अक्टूबर 2000।

नायब सूबेदार दान सिंह (जेसी-750071के)—
01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार हक्के जयसिंह राम भायू (जेसी-749558
एल)—01 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार वरगेश के० एम० (जेसी-750078एन)
—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार प्रवाकर पयकारया (जेसी-749485के)
—01 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-750019एफ)—
—18 अक्टूबर, 2000/01 अक्टूबर 2000।

नायब सूबेदार रविन्द्र नाथ मिश्र (जेसी-749393 एक्स)—01 अक्टूबर, 2000/01 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार राम नरेश सिंह (जेसी-749957पी)—19 अक्टूबर, 2000/01 अक्टूबर, 2000।*

नायब सूबेदार बेंकटेश एस० (जेसी-749988पी)—18 अक्टूबर 2000/01 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार जगदीश राजा के० (जे सी-749571पी)—01 अक्टूबर 2000।

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जे सी-749990 एम)—01 अक्टूबर 2000।

नायब सूबेदार अगस्टा मोररीश जी (जे सी-750029एल)—01 अक्टूबर 2000।

नायब सूबेदार भगवान प्रसाद ठाकुर (जे सी-750342 डब्ल्यू)—01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जे सी-750112 एच)—01 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार गुप्तेश्वर गोख (जे सी-750111ए)—07 जनवरी 2001/01 जनवरी 2001।*

नायब सूबेदार विन्नेश सिंह (जे सी-750044 ए)—27 दिसम्बर 2000/01 नवम्बर 2000।*

नायब सूबेदार रतनवीर सिंह (जे सी-750092 ए)—07 जनवरी, 2001/01 दिसम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार योगेश सिंह (जे सी-750187ए)—01 जनरी, 2001।

नायब सूबेदार पद्मानन्द झा (जे सी-750090 पी)—01 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार तेपुगवे हनुमन्त सिद्धप्पा (जे सी-750088ए)—1 जनवरी 2001/01 दिसम्बर 2000।*

नायब सूबेदार गनपत सिंह (जे सी-750095 एन)—01 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार आदर्श कुमार शर्मा (जे सी-750091एक्स)—01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार गणेश शंकर अवस्थी (जे सी-750108ए)—01 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार डोगुथारथी मुसलेवर राव (जेसी-750014 एच)—01 अक्टूबर 2000।

नायब सूबेदार भंवार सिंह (जे सी-750244 डब्ल्यू)—05 नवम्बर 2000/01 नवम्बर 2000।*

नायब सूबेदार सत्यप्रकाश मयसेना (जे सी-750070 एफ)—01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र (जे सी-749561 एल)—15 दिसम्बर 2000/01 नवम्बर 2000।*

सूबेदार आरटिजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार चन्द्रपाल सिंह (जे सी-752102 एक्स)—01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार केसा राम (जे सी-752230 पी)—27 नवम्बर 2000/01 नवम्बर 2000।*

नायब सूबेदार जगमोहन सिंह (जे सी-752101 पी)—01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार गवहदम धरमा राम (जे सी-751961 डब्ल्यू)—01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जे सी-752097 एक्स)—01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे सी-752105 एल)—15 नवम्बर 2000/01 नवम्बर 2000।*

नायब सूबेदार शंकर कुमार सैनिक (जे सी-751873 ए)—18 दिसम्बर 2000/01 सितम्बर 2000।*

नायब सूबेदार रापेतवर केशव नरायण (जे सी-751877 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 2000।

नायब सूबेदार चन्द्र शेखर (जे सी-751876 एम)—01 सितम्बर 2000।

नायब सूबेदार देवेश सिंह (जे सी-751958 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 2000।

नायब सूबेदार कदम दगटु (जे सी-752234 एल)—01 जनवरी 2001

नायब सूबेदार यशवन्त सिंह (जे सी-752100 एम)—01 जनवरी 2001।

सूबेदार आरटिजन (एम ई) के रैंक में

नायब सूबेदार गोविन्द चन्द्र शण्डा (जे सी-751345 डब्ल्यू)—09 नवम्बर 2000/01 नवम्बर 2000।*

नायब सूबेदार शिव कुमार (जे सी-751676 एक्स)—01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार अशोक कुमार शर्मा (जे सी-751675पी)—01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार राम तीरथ त्रिपाठी (जे सी-751690के)—01 जनवरी 2001।

सूबेदार म्युजिशियन के रैंक में

नायब सूबेदार एम० सत्या नारायण (जेसी-753453 बाई)—01 अगस्त 2000।

सूबेदार टेक्नीकल (ए वी एन) के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेश चन्दादाव (जे सी-753756 एन)—13 दिसम्बर 2000/01 दिसम्बर 2000।*

नायब सूबेदार उमेश कुमार सिंह (जे सी-753742 एन)---
01 दिसम्बर 2000

नायब सूबेदार राधे श्याम सिंह (जे सी-753740 एन)---
14 नवम्बर 2000/01 नवम्बर 2000*

नायब सूबेदार संग्राम सिंह (जे सी-753739 एन)---
10 नवम्बर 2000/01 अक्तूबर 2000*

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार जंग सिंह (जे सी-751328 डब्ल्यू)---
01 नवम्बर 2000/01 जुलाई 2000*

नायब सूबेदार जगवीश सिंह (जे सी-751525 बाई)---
18 दिसम्बर 2000/01 दिसम्बर 2000*

नायब सूबेदार प्रभात कुमार शुक्ला (जे सी-751533
एक्स)---01 दिसम्बर 2000

नायब सूबेदार पंचानन राय (जे सी-751527 के)---
01 दिसम्बर 2000

नायब सूबेदार जोसे सी० टी० (जे सी-751532 पी)---
01 दिसम्बर 2000

नायब सूबेदार कनवर बहादुर सिंह (जे सी-751364 एफ)---
18 अक्तूबर 2000/01 अगस्त 2000*

नायब सूबेदार दीपक सिंह चौहान (जे सी-751530 के)---
01 दिसम्बर 2000

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र मनसोतरा (जेसी-751373 एन)
13 अक्तूबर 2000/01 अक्तूबर 2000*

नायब सूबेदार जानवी शंकर (जेसी-751358 एन)---
01 अगस्त 2000

नायब सूबेदार अवधेश सिंह (जे सी-751542 बाई)---
01 जनवरी 2001

नायब सूबेदार उमा शंकर राम (जे सी-751538 डब्ल्यू)---
01 जनवरी 2001

नायब सूबेदार सुनिल कुमार ई पी (जे सी-751521 एन)---
01 दिसम्बर 2000

नायब सूबेदार रविन्द्र गाल सिंह (जे सी-751529 पी)---
07 दिसम्बर 2000/01 दिसम्बर 2000*

नायब सूबेदार अविनाश टिग्गा (जे सी-751526 एफ)---
01 दिसम्बर 2000

नायब सूबेदार केवल शर्मा (जे सी-751537 एन)---
01 जनवरी 2001

सूबेदार एस के टैक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह हुड्डा (जे सी-751201 एम)
---08 नवम्बर 2000/01 नवम्बर 2000*

नायब सूबेदार बलराज सिंह (जेसी-751203 बाई)---
01 नवम्बर 2000

नायब सूबेदार चन्द्र भूषण दुवे (जेसी-751296 बाई)---
01 दिसम्बर 2000

नायब सूबेदार अशोक कुमार गुप्ता (जे० सी०-751292
एन)---1 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार पवित्रा कुमार बोरगोहेन (जे० सी०-
750888 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार सुखदेव शर्मा (जे० सी०-751350
एफ)---1 जनवरी 2001

नायब सूबेदार के० सुन्दरा पांडीयन (जे० सी०-
751293 एल)---11 जनवरी, 2001/01 नवम्बर,
2000*।

नायब सूबेदार रोहिणी कुमार बाजरा (जे० सी०-
751297 एफ)---24 दिसम्बर, 2000/1 दिसम्बर,
2000*।

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जे० सी०-751419 ए)
---13 दिसम्बर, 2000/1 दिसम्बर, 2000*।

सूबेदार रिकवरी मैक० के रैंक में

नायब सूबेदार पवीयरन के० एस० (जे० सी०-750879
पी)---1 नवम्बर, 2000।

सूबेदार ड्राईवर (एम० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार शशीधरन पिल्ले एन० (जे० सी०-
751458 बाई)---1 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार अमल कुमार बोस (जे० सी०-751462
एफ)---1 अक्तूबर, 2000।

सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जे० सी०-752353
एफ)---1 सितम्बर, 2000।

नायब सूबेदार धरमपाल (जे० सी०-752363 एल)
---1 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार सरमवीर सिंह (जे० सी०-752394
एल)---1 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार शाम सुन्दर साह (जे० सी०-752393
एन)---1 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार मधुसूदन नायर एस० (जे० सी०-
752362 एन)---27 नवम्बर 2000/1 नवम्बर, 2000*।

नायब सूबेदार राम नारायण केसरी (जे० सी०-752396
डब्ल्यू)---1 दिसम्बर, 2000।

नायब सूबेदार सरदार सिंह रावत (जे० सी०-752392 ए)—8 जनवरी, 2001/1 नवम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार विल बहादुर सरकी (जे० सी०-742397 वाई)—01 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार अमिलाल कातवा (जे० सी०-752395 एन)—01 दिसम्बर, 2000।

*(पिछली तारीख से वरिष्ठता दी जाती है)।

नियमित सेना

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन सपन मजुमदार (सं० 6923869 डब्ल्यू अब जे० सी०-725035 एन)—1 सितम्बर, 2000।

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन हरे कृष्णा दास (सं० 6924385 एच अब जे० सी०-725036 डब्ल्यू)—13 दिसम्बर, 2000।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन बाबल रमेश निवृत्ति (सं० 6924332 के अब जे० सी०-725037 वाई)—20 दिसम्बर, 2000।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क एस० प्रोविजन बिरेन चन्द्र बारा (सं० 6913637 के अब जे० सी०-725038 एफ)—1 अक्टूबर, 2000।

हवलदार क्लर्क एस० कोट सिवराधू आर० (सं० 6923862 एम अब जे० सी०-725039 के)—6 दिसम्बर, 2000।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क जी० डी० आमवार सिंह (सं० 6914129 ए अब जे० सी०-725040 वाई)—26 दिसम्बर, 2000।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1998 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क जी० डी० एस० जोषी (सं० 6925887 एक्स अब जे० सी०-725041 एफ)—1 जनवरी, 2001।

हवलदार क्लर्क जी० डी० गोपाल चन्द्र सरकार (सं० 6925890 एक्स अब जे० सी०-725042 के)—1 जनवरी, 2001।

हवलदार क्लर्क जी० डी० भागीरथ ठाकुर (सं० 6925891 ए अब जे० सी०-725043 एम)—1 जनवरी, 2001।

हवलदार क्लर्क जी० डी० बिहारी लाल कौल (सं० 6925893 एल अब जे० सी०-725044 पी)—1 जनवरी, 2001।

हवलदार क्लर्क जी० डी० मदन मोहन (सं० 6925896 वाई अब जे० सी०-725045 एक्स)—05 जनवरी, 2001।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क जी० डी० मोहम्मद रमझान मिर (सं० 6925897 एफ अब जे० सी०-725046 ए)—01 जनवरी 2001।

हवलदार क्लर्क जी० डी० बी० इकम्बर राजु (सं० 6925527 एफ अब जे० सी० 725047 एच)—01 नवम्बर 2000।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी०, लक्ष्मी गंधी जी (सं० 6926724 एक्स अब जे० सी० 725048 एल)—01 जून 2000।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०, चम्बर भान (सं० 6916940 डब्ल्यू अब जे० सी० 725049 एन)—05 जनवरी 2001।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी०, जग महेंद्र सिंह (सं० 6919208 वाई अब जे० सी० 725050 एच)—14 दिसम्बर 2000।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० मुञ्जियार सिंह (सं० 6919199 एच० अब जे० सी०-725051 एल०)—16 दिसम्बर, 2000।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० विरेन्द्र सिंह (सं० 6917338 एच० अब जे० सी०-725052 एम०)—11 दिसम्बर, 2000।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 2000 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० गोपाल सिंह (सं० 6919217 ए अब जे० सी०-725053 डब्ल्यू०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० जग पाल सिंह पुन्वीर (सं० 6910218 एच० अब जे० सी० 725054 वाई०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० करण सिंह (सं० 6910220 ए० अब जे० सी०—725055 एफ०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० देस राज (सं० 6910223 एम० अब जे० सी०—725056 के०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार एस० टी० एम० टी० राम चन्दा (सं० 6919229 एफ० अब जे० सी० 725057 एम०)—12 जनवरी, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में सेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० हरी कृष्णा तिवारी (सं० 6919233 एक्स० अब जे० सी०—725058 पी०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० नेत राम (सं० 6919254 एन० अब जे० सी०—725059 एक्स०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० शुभ राम जाट (सं० 6919203 ए० अब जे० सी०—725060 एम०)—11 दिसम्बर, 2000*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 2000 से दी जायेगी।)

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० देव प्रकाश (सं० 6919228 एम० अब जे० सी०—725061 पी०)—10 जनवरी, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 2001 दी जायेगी।)

हवलदार इाइवर एम० टी० बलबीर सिंह (सं० 6910737 के० अब जे० सी०—725062 एक्स०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार ई० आर० (यूनिट) सूबेदार राम (सं० 691-4972 ए० अब जे० सी०—725063 ए०)—22 दिसम्बर, 2000*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 2000 से दी जायेगी।)

हवलदार एस० एच० जी० डी० गंगाधरण यू० के० (सं० 6910329 वाई० अब जे० सी०—725064 एच०)—08 जनवरी, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 2000 से दी जायेगी।)

हवलदार एस० एच० जी० डी० रमेश चन्दा पावी (सं० 6910638 एफ० अब जे० सी०—725065 एल०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार क्लर्क जी० डी० आर० राजेन्द्रन (सं० 6925886 पी० अब जे० सी०—725066 एन०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० प्रहलाथ कुमार रायपुरिया (सं० 6919222 एल० अब जे० सी०—725067 डब्ल्यू०)—08 दिसम्बर, 2000*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 2000 से दी जायेगी।)

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० राधा कृष्णा (सं० 6919231 एम० अब जे० सी०—725068 वाई०)—16 जनवरी, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० हरी भान सिंह (सं० 6919227 के० अब जे० सी०—725069 एफ०)—15 जनवरी, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार एस० एच० जी० डी० भगवान सिंह (सं० 6910376 डब्ल्यू० अब जे० सी०—725070 डब्ल्यू०)—12 जनवरी, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी।)

हवलदार एस० एच० जी० डी० के० योगैया (सं० 6910602 एच० अब जे० सी०—725071 वाई०)—13 जनवरी, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार अमूनिशन तकनिशियन पारू पावी श्री निवास राव (सं० 6924283 एम० अब जे० सी०—725072 एफ०)—14 दिसम्बर, 2000*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 2000 से दी जायेगी।)

हवलदार अमूनिशन तकनिशियन प्रभाकर अधिकारी (सं० 6924460 एफ० अब जे० सी०—725073 के०)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार अमूनिशन तकनिशियन अरब महमूद ऊमर साहू (सं० 6924563 ए० अब जे० सी०—725074 एम०)—01 फरवरी, 2001।

हवलदार क्लर्क जी० डी० आर० सेल्वा राज (सं० 6915132 एम० अब जे० सी०-725075 पो०)—12 दिसम्बर, 2000* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 2000 से दी जायेगी ।

हवलदार क्लर्क जी डी ओम प्रकाश (6925550पी अब जे० सी०-725076 एक्स)—16-11-2000* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जायेगी ।

हवलदार क्लर्क जी डी सम्पासा आनन्दा राव (6925906 एक्स अब जेसी-725077ए)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क जी डी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (6925915 वाई अब जेसी-725078एच)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क जी डी शिव ओम नागाव्या (6925935 एम अब जेसी-725079एल)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क जी डी चन्द्र कान्त अवस्थी (6925939 एच अब जेसी-725080ए)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क जी डी विधिन कुमार (6925958एन अब जेसी-725081एच)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क एस० कन्दोल सुरेन्द्र प्रसाद माहू (6914904 एम अब जेसी-725082एल)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल अब्दुल हाफीज (6913509 एम अब जेसी-725083एन)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन टी अशोकन (6910855 एक्स अब जेसी-725084 डब्ल्यू)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क जी डी ओ० एन० पाण्डे (6915281ए अब जेसी-725085वाई)—05-02-2001* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 2001 से दी जायेगी ।

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल यदुनाथ सिंह (6915338 के अब जेसी-725086एफ)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क जी डी अन्वर अली मलिक (6914808 एक्स अब जेसी-725087के)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन अर्जुन महतो (6915694 के अब जेसी-725088एम)—01-02-2001 ।

हवलदार एस के टी एम टी सुभाष चन्द्र दुहा (6919131 एफ अब जेसी-725089पी)—02-01-2001* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी ।

हवलदार एस के टी एम टी उर्मेश सिंह (6919200 एम अब जेसी-725090के)—27-01-2001* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जायेगी ।

हवलदार एस के टी जी एण्ड सी तानाजि सोपान व्हनाले (6919248ए अब जेसी-725091एम)—01-01-2001 ।

हवलदार एस के टी जी एस एण्ड सी राकेश कुमार (6919259एम अब जेसी-725092पी)—01-02-2001 ।

हवलदार एस के टी अम्युनिशन सोने सिंह (6919288एफ अब जेसी-725093एक्स)—01-02-2001 ।

हवलदार एस के टी अम्युनिशन लाल सिंह कुशाहा (6919289के अब जेसी-725094ए)—01-02-2001 ।

हवलदार एस के टी अम्युनिशन अनुमन्ता सिंह (6919294 पी अब जेसी-725095एच)—01-02-2001 ।

हवलदार एस के टी जी एस एण्ड सी मान सिंह (6919295 एक्स अब जेसी-725096एल)—01-02-2001 ।

हवलदार एस के टी अम्युनिशन मोलके बबन सोनू (6919308के अब जेसी-725097एन)—01-02-2001 ।

हवलदार एस एच टैक्नीकल सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (6909251ए अब जेसी-725098डब्ल्यू)—24-01-2001* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 2000 से दी जायेगी ।

हवलदार एस एच जी डी महावीर सिंह (6910759 एच अब जेसी-725099वाई)—30-01-2001* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 2000 से दी जायेगी ।

हवलदार एस एच जी डी बाबू जी (6910918पी अब जेसी-725100एच)—01-02-2001 ।

हवलदार ओ एम एच ई रवीन्द्र नाथ पाण्डे (6910579 ए अब जेसी-725101एल)—01-02-2001 ।

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन सभी एल वी० (6924197एफ अब जेसी-725102एन)—22-02-2001* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी ।

हवलदार एस कन्दोल बाबूलाल (6914956एच अब जेसी-725103डब्ल्यू)—01-02-2001 ।

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल हरी चन्द (6915127एफ अब जेसी-725104वाई)—12-02-2001* ।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 2001 से दी जायेगी ।

हवलदार क्लर्क एस० प्रवीजन सेलवम एम (सं० 6915583 एम अब जे०सी०-725105एफ)---01 फरवरी 2001।

हवलदार क्लर्क एस० कन्दोल देवी लाल (सं० 6913988वाई अब जे०सी०-725106के)---01 फरवरी 2001।

हवलदार क्लर्क एस० कन्दोल रामानन्द मोर्या (सं० 6915406 एम अब जे०सी०-725107एम)---01 फरवरी 2001।

हवलदार क्लर्क एस० कन्दोल जीत बहादुर ठकुना (सं० 6914312 एच अब जे०सी०-725108पी)---01 फरवरी 2001।

हवलदार क्लर्क एस० प्रवीजन सैमुहीन (सं० 6915716 एक्स अब जे०सी०-725109एक्स)---01 मार्च 2001।

हवलदार क्लर्क एस० कन्दोल बिनोद शर्मा (सं० 6915729 डब्ल्यू अब जे०सी०-725110एम)---01 मार्च 2001।

हवलदार क्लर्क एस० प्रवीजन भगवान दास (सं० 6915712 एफ अब जे०सी०-725111पी)---01 मार्च 2001।

हवलदार क्लर्क एस० प्रवीजन राज कुमार मुक्ता (सं० 6915723एन अब जे०सी०-725112एक्स)---01 मार्च 2001।

हवलदार एस० के० टी० अमुनिशन भानु प्रताप सिंह यादव -(सं० 6919271एन अब जे०सी०-725113ए)---01 फरवरी 2001।

हवलदार इ० आर० (यूनिट) हुकूम सिंह (सं० 6915397 डब्ल्यू अब जे०सी०-725114एच)---26 मार्च 2001।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाएगी)।

हवलदार एस० एच० (जीडी) कामेश्वर सिंह (सं० 6910673 के अब जे०सी०-725115 एच) 01 फरवरी 2001।

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन राधा चरण घोष (सं० 5924439वाई अब जे०सी०-725116एन) 16 जनवरी 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन केफन मलबन्द्रा बाबूराय (सं० 6924579 एल अब जे० सी०-725117 डब्ल्यू)---7 मार्च, 2001।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन सांवत दिलिप जगन्नाथ (सं० 6924635 वाई अब जे० सी०-725118वाई)---6 मार्च, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन नवल किशोर कुशवाह (सं० 6924751 एफ अब जे० सी०-725119 एफ)---9 मार्च, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन कृष्ण कुमार पटेल (सं० 6924752 के अब जे० सी०-725120 डब्ल्यू)---1 मार्च, 2001।

हवलदार क्लर्क जी० डी० अशोक कुमार (सं० 6925938 ए अब जे०सी०-725121वाई)---07 मार्च 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क जी० डी० पी० सी० सारंगी (सं० 6915271 डब्ल्यू अब जे० सी०-725122 एफ)---13 फरवरी, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क जी० डी० मोहनन मुथैया विट्टल (सं० 6915000 वाई अब जे० सी०-725123 के)---20 मार्च, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क एस० कन्दोल प्रदीप दास (सं० 6915710 डब्ल्यू अब जे० सी०-725124 एम)---1 मार्च, 2001।

हवलदार क्लर्क एस० कन्दोल के० मुथू रामन (सं० 6915711 वाई अब जे० सी०-725125 पी)---7 मार्च, 2001*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क एस० कन्दोल हंस राज गुजर (सं० 6915721 एच अब जे० सी०-725126 एक्स)---1 मार्च 2001।

हवलदार कर्क एस० प्रोजेक्शन सत्यपाल मलिक (सं० 6915747 एक्स अब जे० सी०-725127 ए) — 1 मार्च, 2001 ।

हवलदार एस० के० टी० अमुनिशन रामजी सिंह (सं० 6919273 वाई अब जे० सी०-725128 ए) — 1 फरवरी, 2001 ।

हवलदार एस० के० टी० अमुनिशन श्रीपाल सिंह (सं० 6919316 एक्स अब जे० सी०-725129 ए) — 1 मार्च, 2001 ।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० जगदीश प्रसाद गुर्जर (सं० 6917827 एन अब जे० सी०-725130 ए) — 1 मार्च, 2001 ।

हवलदार एस० के० टी० अमुनिशन कांबले सजय किशन राव (सं० 6919322 डब्ल्यू अब जे० सी०-725131 ए) — 1 मार्च, 2001 ।

हवलदार एस० के० टी० जी० जी० एस० एण्ड सी० राधा कृष्णा (सं० 6919328 एक्स अब जे० सी०-725132 ए) — 07-03-2001* ।

(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 2001 से दी जायेगी)

हवलदार एस० के० टी० अमुनिशन सुरेन्द्र सिंह गिल (सं० 6919339 के अब जे० सी०-725133 एन) — 1 मार्च, 2001 ।

हवलदार एस० एच० टेकनिकल इकबाल मोहम्मद (सं० 6909477 एक्स अब जे० सी०-725134 डब्ल्यू) — 1 मार्च, 2001 ।

सेना आयुध कोर

सूबेदार धर्म गुरु (पंडित)

पै०/ए० सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) अमर नन्द झा (जे० सी०-164878 ए) — 1 जनवरी, 1996* ।

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर, 1994 से दी जायेगी) ।

पै०/ए० सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) सुभाष चन्द्र पाण्डे (जे० सी०-164879 ए) — 1 मई, 1996 ।

पै०/ए० सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) लोक बन्धू उपाध्याय (जे० सी०-165602 डब्ल्यू) — 1 जनवरी, 1997 ।

पै०/ए० सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) शंभु प्रसाद गोडियाल (जे० सी०-165603 वाई) — 1 जनवरी, 1997 ।

पै०/ए० सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) कृष्ण कुमार द्विवेदी (जे० सी०-165604 ए) — 1 जनवरी, 1997 ।

पै०/ए० सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) जनार्दन मिश्रा (जे० सी०-165605 के) — 16 अगस्त, 1997 ।*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1997 से दी जायेगी) ।

पै०/ए० सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) रामजी मिश्रा (जेसी०-665606 एम) — 01-01-1997 ।

पै०/ए० सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) अशोक कुमार त्रिपाठी (जेसी०-171250 ए) — 01-02-1997 ।

पै०/ए० सूबेदार धर्म गुरु (पंडित) दीना नाथ तिवारी (जेसी०-75000 एफ) — 01-06-1999 ।

सेना आयुध कोर

सूबेदार मेजर धर्म गुरु (पंडित)

पै०/ए० सूबेदार मेजर धर्म गुरु (पंडित) रामजी मिश्रा (जेसी०-66921 ए) — 01-08-1997 ।

पै०/ए० सूबेदार मेजर धर्म गुरु (पंडित) दिनेश प्रसाद पाण्डे (जेसी०-66922 एच) — 01-08-1997 ।

पै०/ए० सूबेदार मेजर धर्म गुरु (पंडित) हर्ष वेध (जेसी 66813 डब्ल्यू) — 01-09-1997 ।

पै०/ए० सूबेदार मेजर धर्म गुरु (पंडित) केसव पाण्डे (जेसी०-66916 पी) — 01-01-1998 ।

पै०/ए० सूबेदार मेजर धर्म गुरु (पंडित) शेष दत्त तिवारी (जेसी० 66917 एक्स) — 01-02-1998 ।

पै०/ए० सूबेदार मेजर धर्म गुरु (पंडित) नरेन्द्र भूषण शुक्ला (जेसी०-74586 डब्ल्यू) — 01-07-1999 ।

सेना आयुध कोर

सूबेदार मेजर (संगीतकार)

पै०/ए० सूबेदार मेजर (संगीतकार) लाल सिंह (जेसी०-722389 ए) — 01-09-2000 ।

टी० सी० जैन
उप सचिव

सं० 375, दिनांक 25 मई 2001—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पथोन्नतियां करते हैं ।

नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर्स

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार प्रेम सिंह (नं० 8025709 एल अब जे० सी०-328212 एल) — 12-02-2001 ।

नायब सूबेदार के रैंक में सेवानिवृत्ति और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना जेष्ठता 22 फरवरी 2000 से दी जाती है।

हवलदार दिनेश डोबल (नं० 1462066एन अब जेसी-328313एन) 06-03-2001।

हवलदार मालवीर सिंह (नं० 1463536पी अब जेसी-328314इएन) 22-02-2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में सेवानिवृत्ति और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना जेष्ठता 01 जनवरी 2001 से दी जाती है।)

हवलदार नन्द कुमार राय (नं० 1460651पी अब जेसी-318315आई) 05-03-2001।

हवलदार भवान सिंह पाण्डा (नं० 1462190के अब जेसी-328316एफ) 24-02-2001।

हवलदार राम प्रसाद राय (नं० 1462199आई अब जेसी-328317के) 19-02-2001।

हवलदार राम गोपाल सिंह (नं० 1462231एच अब जेसी-328318एम) 19-02-2001।

हवलदार मलकीत सिंह (नं० 1463200पी अब जेसी-328319पी) 20-02-2001।

हवलदार भरत चन्द्र राय (नं० 1463611एन अब जेसी-328320के) 19-02-2001।

हवलदार मान सिंह (नं० 1463703ए अब जेसी-328321एम) 22-02-2001।

हवलदार निर्मल सिंह (नं० 1462273पी अब जेसी-328322पी) 20-02-2001।

हवलदार गुरविन्दर सिंह (नं० 1462274एकम अब जेसी-328323एकम) 19-02-2001।

हवलदार तपन कुमार माहा (नं० 1462234एन अब जेसी-328324ए) 22-02-2001।

हवलदार बलदेव सिंह (नं० 1462316आई अब जेसी-328325एच) 20-02-2001।

हवलदार श्याम बाबू त्रिषेदी (नं० 1462328एम अब जेसी-328326एम) 20-02-2001।

हवलदार धर्म पाल शर्मा (नं० 1462460एन अब जेसी-328327एन) 21-02-2001।

हवलदार रणम सिंह (नं० 1462494एफ अब जेसी-328328इएन) 22-02-2001।

हवलदार वीरबल सिंह (नं० 1462495के अब जेसी-328329आई) 19-02-2001।

हवलदार कमलेश सिंह (नं० 1462498एकम अब जेसी-328330एन) 24-02-2001।

हवलदार जय प्रकाश सिंह (नं० 1461806ए अब जेसी-328331इएन) 21-02-2001।

हवलदार कुचदीप सिंह (नं० 1462365एफ अब जेसी-328332आई) 22-02-2001।

हवलदार जोगिन्दर सिंह (नं० 1462518ए अब जेसी-328333एफ) 19-02-2001।

हवलदार बशिष्ठ सिंह (नं० 1462753आई अब जेसी-328334के) 20-02-2001।

हवलदार बलकार सिंह (नं० 1464256 एन अब जेसी-328235एम) 20-02-2001।

हवलदार हरिण चन्द्र (नं० 1464227 आई अब जेसी-328336पी) 24-02-2001।

हवलदार अशोक कुमार (नं० 1465074एम अब जेसी-328337एकम) 20-02-2001।

हवलदार जगदीश प्रसाद (नं० 1467073एच अब जेसी-328338ए) 23-02-2001।

हवलदार श्री रंग चौबे (नं० 1403677ए अब जेसी-328339एच) 22-02-2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में सेवानिवृत्ति और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना जेष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाती है।)

हवलदार उमा नन्द (नं० 1461357 इएन अब जेसी-328340एफ) 14-03-2001।

हवलदार नत्थू राम (नं० 1461366 एफ अब जेसी-328341ए) 08-03-2001।

हवलदार सुरेन्द्र प्रकाश (नं० 1462561 एफ अब जेसी-328342एच) 11-03-2001।

हवलदार कुचर सिंह (नं० 1462559 के अब जेसी-328343एन) 08-03-2001।

हवलदार लक्ष्मी सिंह (नं० 1462682 एच अब जेसी-328344एन) 08-03-2001।

हवलदार नन्दा बल्लभ (नं० 1462292 आई अब जेसी-328345इएन) 05-03-2001।

हवलदार फारूक खान (नं० 1459880के अब जेसी-328346आई) 02-03-2001।

हवलदार लक्ष्मी नन्द (नं० 1460358एम अब जेसी-328347एफ) 11-03-2001।

हवलदार जोगिन्दर सिंह (नं० 1466543 इएन अब जेसी-328348के) 08-03-2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में सेवानिवृत्ति और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना जेष्ठता 01 मार्च 2001 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार (बी ग्री) के रैंक में

हवलदार जितेन्द्र कुमार सिंह (नं० 1461637 के अब जे सी-328349 एम) 10-2-2001

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर 2000 से दी जाती है।)

हवलदार पिताम्बर सिंह नेगी (नं० 1462072 डब्ल्यू अब जे सी-328350 एफ) 14-3-2001

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 2001 से दी जाती है।)

हवलदार बीपक कुमार कपा (नं० 1462214 एच अब जे सी-328351 के) 28-2-2001।

हवलदार कुलवन्त सिंह (नं० 1403674 एम अब जे सी 328352 एम) 11-4-2001।

हवलदार एम असस्ता सिन्हा (नं० 1461127 एच अब जे सी-328353 पी) 12-3-2001

हवलदार गंगा सिंह (नं० 1462291 एमन अब जे सी-328354 एक्स) 1-3-2001

हवलदार लंकर दयाल सिंह (नं० 1462516 पी अब जे सी-328355 ए) 9-3-2001

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2001 से दी जाती है।)

हवलदार बसदेव सिंह (नं० 1462563 एम अब जे सी-328356 एच) 17-3-2001

हवलदार गुरभाम सिंह (नं० 1462558 एफ अब जे सी-328357 एल) 8-3-2001

हवलदार आदित्या राम (नं० 1462606 डब्ल्यू अब जे सी 328358 एम) 8-3-2001

हवलदार मारायण सिंह (नं० 1462621 एन अब जे सी-328359 डब्ल्यू) 17-3-2001

हवलदार रमवीर सिंह (नं० 1462632 पी अब जे सी-328360 एल) 13-3-2001

हवलदार बलवीर सिंह (नं० 1464241 एन अब जे सी-328361 एन) 12-3-2001

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2001 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार एस के ग्री के रैंक में

हवलदार एस के टी गंगा प्रसाद रातुरी (नं० 1475622 एम अब जे सी-328362 डब्ल्यू) 3-3-2001

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2001 से दी जाती है।)

हवलदार एसकेटी सुखदेव सिंह (नं० 1475660 एच अब जे सी-328363 बाई) 10-4-2001

हवलदार एसकेटी सतनाम सिंह (नं० 1475674 एच अब जे सी-328364 एफ) 17-3-2001

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2001 से दी जाती है।)

(नायब सूबेदार सब के रैंक में)

हवलदार सब राम दत्त (नं० 1471627 एन अब जे सी-328365 के) 10-6-2000

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 2000 से दी जाती है।)

हवलदार सब रविन्द्र कुमार (नं० 1465376 बाई अब जे सी-328366 एम) 1-12-2000

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2000 से दी जाती है।)

हवलदार सब मट्टर अली (नं० 1475536 डब्ल्यू अब जे सी-328367 पी) 16-3-2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 2001 से दी जाती है।)

हवलदार अरूण कुमार गोन (सं० 1461266 एम अब जे सी-328278 डब्ल्यू) 15 जनवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1999 से दी जाती है।)

हवलदार दुर्गा बहादुर (सं० 1478268 एम अब जे सी-328279 बाई) 15 जनवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1999 से दी जाती है।)

हवलदार गुरदेव चन्द (सं० 1458265 बाई अब जे सी-328280 एन) 15 जनवरी, 2001।

हवलदार मोहन कृष्ण राम (सं० 1403680 ए अब जे सी-328281 डब्ल्यू) 29 जनवरी, 2001।

हवलदार केदार सिंह रावत (सं० 1403768 के अब जे सी-328282 बाई) 13 जनवरी, 2001।

हवलदार जय भगवान (सं० 1461508 के अब जे सी-328283 एफ) 12 जनवरी, 2001।

हवलदार ओम बहादुर थापा (सं० 1403708 पी अब जे सी-328284 के) 16 जनवरी, 2001।

हवलदार इश्वर सिंह (सं० 1461065 एन अब जे० सी०—328286 एम)—8 जनवरी, 2001।

हवलदार अर्धर नायक (सं० 1461448 ए अब जे० सी०—328286 पी)—19 जनवरी, 2001।

हवलदार रतन सिंह (सं० 1461475 के अब जे० सी०—328287 एक्स)—5 फरवरी, 2001।

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं० 1461570 डब्ल्यू) अब जे० सी०—328288 ए)—15 जनवरी, 2001।

हवलदार जसोद सिंह मेहरा (सं० 1461610 एम अब जे० सी०—328289 एच)—3 जनवरी, 2001।

हवलदार बीर सिंह (सं० 1461667 एफ अब जे० सी०—328290 एक्स)—8 जनवरी, 2001।

हवलदार सदा राम (सं० 1461720 एफ अब जे० सी०—328291 एफ)—8 जनवरी, 2001।

हवलदार राम बरन (सं० 1461622 एम अब जे० सी०—328292 एच)—22 जनवरी, 2001।

हवलदार हिलारुस दोपो (सं० 1461831 वाई अब जे० सी०—328293 एल०)—18 जनवरी, 2001।

हवलदार आलोक कुमार पात्रा (सं० 1461828 वाई अब जे० सी०—328294 एन)—23 जनवरी, 2001।

हवलदार नरेन्द्र नाथ महाराना (सं० 1461886 एम अब जे० सी०—328295 डब्ल्यू)—9 जनवरी, 2001।

हवलदार देवी बहादुर गुरुग (सं० 1403708 के अब जे० सी०—328296 वाई)—7 फरवरी, 2001।

हवलदार रवि कुमार (सं० 1403725 पी अब जे० सी०—328297 एफ)—5 जनवरी, 2001।

हवलदार पुर्न धर गोगई (सं० 1461242 एच अब जे० सी०—328298 एम)—8 जनवरी, 2001।

हवलदार रविन्दर सिंह (सं० 1461978 पी अब जे० सी०—328299 एम)—3 जनवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में बेटन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर, 2000 से जाती है)।

हवलदार स्यामल कुमार बिस्वास (सं० 1462056 एम) अब जे० सी०—328300 डब्ल्यू)—12 जनवरी, 2001।

हवलदार लाल सिंह (सं० 1462059 एम अब जे० सी०—328301 वाई)—14 जनवरी, 2001।

हवलदार मोहन लाल (सं० 1462093 एम अब जे० सी०—328302 एफ)—14 जनवरी, 2001।

हवलदार प्रसन्ता कुमार गिटनायक (सं० 1464188 एल अब जे० सी०—328303 के)—13 जनवरी, 2001।

हवलदार जय पाल (सं० 1460686 ए अब जे० सी०—328304 एम)—13 जनवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में बेटन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 2001 से जाती है)।

नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

हवलदार एसकेटी योगेश्वर प्रसाद सिंह (सं० 1471497 डब्ल्यू अब जे० सी०—328305 पी)—23 जनवरी, 2001।

हवलदार एसकेटी महेश पाण्डे (सं० 1473271 के अब जे० सी०—328306 एक्स)—23 जनवरी, 2001।

हवलदार एसकेटी कृष्ण कुमार वर्मा (सं० 1475587 पी अब जे० सी०—328307 ए)—19 जनवरी, 2001।

हवलदार एसकेटी हरभजन सिंह (सं० 1475591 एम अब जे० सी०—328308 एच)—22 जनवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में बेटन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 2001 से जाती है)।

नायब सूबेदार सर्वे के रैंक में

हवलदार सर्वे सरजीत सिंह (सं० 1475071 एन अब जे० सी०—328309 एल)—5 जनवरी, 2001।

हवलदार सर्वे तजवर सिंह (सं० 1475635 ए अब जे० सी०—328310 ए)—1 जनवरी, 2001।

हवलदार सर्वे वेद प्रकाश भट्ट (सं० 1476110 ए अब जे० सी०—328311 एच)—1 जनवरी, 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में बेटन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 2000 से जाती है)।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार नारायण सिंह बोरा (सं० 1460318 एल अब जे० सी०—328241 पी)—23 दिसम्बर 2000।

हवलदार अवधेश राय (सं० 14610 एच अब जे० सी०—328242 एक्स)—29 दिसम्बर 2000।

हवलदार कृतिश नारायण सिंह (सं० 1461423 एन अब जे० सी०—328243 ए)—26 दिसम्बर 2000।

हवलदार मनोज कुमार (सं० 1484719 वाई अब जे० सी०—328244 एच)—3 जनवरी 2001।

हवलदार सत्या राम (सं० 1461629 एल अब जे० सी०—328245 एल)—8 जनवरी 2001।

हवलदार हरवीर सिंह सम्भू (सं० 1461645 एम अब जे० सी०—328246 एन)—1 जनवरी 2001।

हवलदार अगद सिंह (नं० 1461642 पीअव जे० सी०-328247 डब्ल्यू) — 26-12-2000 ।

हवलदार पूरन बारा साहू (नं० 1461665 डब्ल्यूअव जे० सी०-328248 बाई) — 8-1-2001 ।

हवलदार रहमान मियां (नं० 1461699 केअव जे० सी०-328249 एफ) — 26-12-2000 ।

हवलदार मोहन सिंह (नं० 1461700 एनअव जे० सी०-328250 डब्ल्यू) — 3-1-2001 ।

हवलदार रज्जीत सिंह (नं० 1461718 केअव जे० सी०-328251 बाई) — 8-1-2001 ।

हवलदार ओम प्रकाश गुरूग (नं० 1403705 एफअव जे० सी०-328252 एफ) — 9-1-2001 ।

हवलदार सतपाल (नं० 1461725 एअव जे० सी०-328253 के) — 30-12-2000 ।

हवलदार मुखवीर सिंह (नं० 1461737 पीअव जे० सी०-328254 एम) — 6-1-2001 ।

हवलदार माया नाथ गय (नं० 1461793 एनअव जे० सी०-328255 पी) — 29-12-2000 ।

हवलदार चन्दर नारायण (नं० 1461780 डब्ल्यूअव जे० सी०-328256 एम) — 30-12-2000 ।

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (नं० 1461852 पीअव जे० सी०-328257 एक्स) — 30-12-2000 ।

हवलदार लछमन सिंह (नं० 1462790 एमअव जे० सी०-328258 एन) — 8-1-2001 ।

हवलदार सुधीर साधु ससक (नं० 1462858 एचअव जे० सी०-328259 एल) — 8-1-2001 ।

हवलदार तपन कुमार परिजा (नं० 1462883 एफअव जे० सी०-328260 ए) — 8-1-2001 ।

हवलदार रामजी सिंह (नं० 1462925 एचअव जे० सी०-328261 एच) — 29-12-2000 ।

हवलदार सुन्दर सिंह (नं० 1462972 एअव जे० सी०-328262 एल) — 1-2001 ।

हवलदार हरी सिंह (नं० 1463153 एचअव जे० सी०-328263 एन) — 8-1-2001 ।

हवलदार मुकेट सिंह (नं० 1461535 एनअव जे० सी०-328264 डब्ल्यू) — 4-1-2001 ।

हवलदार खुशाल सिंह (नं० 1462033 पीअव जे० सी०-328265 बाई) — 8-1-2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डालने वाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर, 2000 से दी जाती है।)

हवलदार रमेश राम आर्या (नं० 1462060 एफअव जे० सी०-328266 एफ) — 12-1-2001 ।

हवलदार पुष्कर सिंह (नं० 1460106 एअव जे० सी०-328267 के) — 8-1-2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डालने वाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 2001 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार सर्वे सुनील कुमार (नं० 1475021 बाईअव जे० सी०-328268 एम) — 16-10-2000 ।

हवलदार सर्वे बसन्त सिंह (नं० 1471034 एफअव जे० सी०-328269 पी) — 10-11-2000 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डालने वाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 2000 से दी जाती है।)

हवलदार सर्वे राजेन्द्र शर्मा (नं० 1474852 एनअव जे० सी०-328270 के) — 1-12-2000 ।

हवलदार सर्वे राज नारायण कुमारी (नं० 1474887 पीअव जे० सी०-328271 एम) — 1-1-2001 ।

हवलदार सर्वे महिपाल सिंह रावत (नं० 1475623 पीअव जे० सी०-328272 पी) — 1-1-2001 ।

हवलदार सर्वे स्वयं दत्ता (नं० 1478636 एमअव जे० सी०-328273 एक्स) — 4-1-2001 ।

हवलदार सर्वे सुकृष्ण राम (नं० 1473341 एक्सअव जे० सी०-328274 ए) — 8-1-2001 ।

हवलदार सर्वे बबूल बरबोली (नं० 1471259 केअव जे० सी०-328275 एच) — 29-12-2000 ।

हवलदार सर्वे कुलवन्त कुमार (नं० 1474888 पीअव जे० सी०-328276 एल) — 13-1-2001 ।

हवलदार सर्वे मुभाष चन्द्र (नं० 1475879 एलअव जे० सी०-328277 एन) — 4-1-2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ता पर प्रभाव डालने वाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 2000 से दी जाती है।)

मद्रास इंजिनियरी ग्रुप

नायब सूबेदार क्लर्क (ऑफिस) के मूल रैंक में

हवलदार क्लर्क बी भुवनेश्वर (नं० 1379808 बाईअव जेसी-306956 एल) — 19 जून 2000* ।

हवलदार क्लर्क एम निर्मल राज (नं० 1380903 एक्सअव जेसी-306957 एन) — 29 जून 2000* ।

हवलदार क्लर्क नन्द कुमार डि (नं० 1380964 एचअव जेसी-306958 डब्ल्यू) — 18 अगस्त 2000* ।

हवलदार कर्क मूरज के पी (सं० 1381011 वाई अब जेसी-306959 वाई)—17 जुलाई 2000* ।

हवलदार कर्क एम राजधन (सं० 1381045 एम अब जेसी-306960 एन)—19 अगस्त 2000* ।

हवलदार कर्क पी अन्तोनि दास (सं० 1381498 एक्स अब जेसी-306968 ए)—24 अगस्त 2000* ।

हवलदार कर्क रेजि कुमार के वो (सं० 1381639 एक अब जेसी-306970 एक्स)—01 जुलाई 2000 ।

हवलदार कर्क एम लिनीशन (सं० 1381766 डब्ल्यू अब जेसी-306972 एच)—10 जुलाई 2000& ।

हवलदार कर्क के धर्मलता (सं० 1381768 एक अब जेसी-306973 एल)—19 जुलाई 2000 & ।

हवलदार कर्क पुष्परज एम (सं० 1381776 ए अब जेसी-306974 एन)—14 जुलाई 2000& ।

हवलदार कर्क अरिन्द नम्बो एस (सं० 1381701 एच अब जेसी-306975 डब्ल्यू)—30 अगस्त 2000& ।

हवलदार कर्क एण्डले वीर पानिडियन (सं० 1381712 पी अब जेसी-306976 वाई)—01 जुलाई 2000& ।

हवलदार कर्क के मतीश कुमार (सं० 1381864 डब्ल्यू अब जेसी-306969 एन)—03 जुलाई 2000& ।

हवलदार कर्क कुटिट्ट कुण्णन के डी (सं० 1381891 ए अब जेसी-306977 एक)—01 जुलाई 2000& ।

हवलदार कर्क एस मोहन (सं० 1381916 एक अब जेसी-306978 के)—17 अगस्त 2000& ।

हवलदार कर्क उणिण्णन एम (सं० 1381927 एन अब जेसी-306971 ए)—03 जुलाई 2000& ।

हवलदार कर्क पवित्रन पी (सं० 1381944 एम अब जेसी-306979 एम)—17 नवम्बर 2000& ।

हवलदार कर्क चन्द्रन मन्त्रपत्तिकल (सं० 1381947 एक अब जेसी-306980 एक)—06 जुलाई 2000& ।

हवलदार कर्क मधु कुमार सी (सं० 1382053 एक्स अब जेसी-306994 एक)—08 अगस्त 2000@ ।

हवलदार कर्क अमलें सुरेश अग्रता (सं० 1382360 पी अब जेसी-306995 के)—10 अगस्त 2000@ ।

हवलदार कर्क उत्तम दाम (सं० 1382543 एल अब जेसी-306996 एम)—10 अगस्त 2000@ ।

हवलदार कर्क शिवन्तर मन्डल (सं० 1382544 एन अब जेसी-306997 पी)—23 अगस्त 2000@ ।

हवलदार कर्क परेय नारायण शोब (सं० 1382546 वाई अब जेसी-306998 एक्स)—05 अगस्त 2000@ ।

हवलदार कर्क सुप्रकाश सेनगुप्ता (सं० 1382547 एक अब जेसी-306999 ए)—15 सितम्बर 2000@ ।

हवलदार कर्क विपिन कुमार के (सं० 1382557 एल अब जेसी-307000 एक)—25 अगस्त 2000@ ।

हवलदार कर्क विनोद शर्मा (सं० 1382584 पी अब जेसी-307001 के)—05 अगस्त 2000@ ।

हवलदार कर्क सुशील कुमार प्रधान (सं० 1382726 एक अब जेसी-307009 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 2000% ।

हवलदार कर्क रमेश प्रसाद सिंह (सं० 1382671 एच अब जेसी-307010 एल)—02 सितम्बर 2000% ।

हवलदार कर्क सिया राम (सं० 1383181 एक अब जेसी-307011 एल)—01 सितम्बर 2000% ।

हवलदार कर्क हरि हरन के (सं० 1381622 एन अब जेसी-307017 पी)—28 नवम्बर 2000% ।

हवलदार कर्क ए क्रिस्टि विस्कि (सं० 2483461 ए अब जेसी-307018 एक्स) 20 अक्टूबर 2000% ।

हवलदार कर्क पुरन मिह (सं० 1383637 पी अब जेसी-307036 ए)—19 अक्टूबर 2000\$ ।

हवलदार कर्क धियोनाथ नाविक (सं० 1383683 के अब जेसी-307037 एच)—01 अक्टूबर 2000\$ ।

हवलदार कर्क विजय कुमार पाठक (सं० 1383721 पी अब जेसी-307038 एल)—05 अक्टूबर 2000\$ ।

हवलदार कर्क अवध किशोर सिंह (सं० 1383906 डब्ल्यू अब जेसी-307039 एन)—01 अक्टूबर 2000\$ ।

हवलदार कर्क उत्तम कुमार महापात्र (सं० 1383755 एच अब जेसी-307040 एच)—02 अक्टूबर 2000\$ ।

हवलदार कर्क आर शांतिवेश (सं० 1384006 वाई अब जेसी-307042 एन)—01 अक्टूबर 2000\$ ।

हवलदार कर्क अन्धोनी मैककल जे (सं० 1384007 एक अब जेसी-307043 डब्ल्यू)—03 अक्टूबर 2000\$ ।

हवलदार कर्क एस नागराज (सं० 1384009 एम अब जेसी-307044 वाई)—01 नवम्बर 2000£ ।

हवलदार कर्क एस पलनियप्पन (सं० 1384010 एक अब जेसी-307045 एक)—01 नवम्बर 2000£ ।

हवलदार कर्क राजकुमार एस (सं० 1384018 एन अब जेसी-307046 के)—01 नवम्बर 2000£ ।

हवलदार कर्क मुनि ईश्वरन (सं० 1384023 वाई अब जेसी-307047 एम)—01 नवम्बर 2000£ ।

हवलदार कर्क डी गोपाल कुण्णन (सं० 1384062 एक्स अब जेसी-307048 पी)—01 नवम्बर 2000£ ।

हवलदार क्लर्क विकास चन्द्र मण्डल (सं० 1383924
वाई अब जे सी-307049 एमस) — 01 नवम्बर 2000।

* नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जून 2000 से दी जायेगी।

& नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 जुलाई 2000 से दी जायेगी।

@ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जायेगी।

% नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2000 से दी जायेगी।

‡ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी।

£ नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना
प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार (जी डी) चितम्बी मुनिसामी (सं०
1365377 एम अब जे सी-306910 एच) — 18
अप्रैल, 2000।&

हवलदार (जी डी) सदिकुल्ला बेग (सं० 1362194
एल अब जे सी-306913 डब्ल्यू) — 27 सितम्बर,
2000।&

हवलदार (जी डी) सिबिचान के० एस० (सं०
1378505 एमस अब जे सी-306918 पी) — 14
अप्रैल, 2000।&

हवलदार (जी डी) रविन्द्र पाटील (सं० 1366401
के अब जे सी-306936 एमस) — 10 जुलाई, 2000।\$

हवलदार (जी डी) पोन्नपी० अ० (सं० 1366441
एल अब जे सी-306937 ए) — 01 मई, 2000।

हवलदार (जी डी) आर० सुन्दर राजू (सं० 1366846
ए अब जे सी-306961 डब्ल्यू) — 26 जुलाई, 2000।*

हवलदार (जी डी) सिद्देसवार डी० एम० (सं०
1366459 एफ अब जे सी-306966 पी) — 21 अगस्त,
2000।*

हवलदार (जी डी) एम० कृष्णामूर्ति (1367639 डब्ल्यू)
अब जे सी-306984 एमस) — 08 अगस्त 2000।**

हवलदार (जी डी) एम० भिमा राव (1367662 के अब
जे सी-306985 ए) — 01 अगस्त 2000।

हवलदार (जी डी) पदमाला कन्ना राव (1367595 के
अब जे सी-306986 एच) — 16 अगस्त 2000।**

हवलदार (जी डी) परसुरामन आर० (1368406 एफ
अब जे सी-306987 एल) — 08 अगस्त 2000।**

हवलदार (जी डी) कादमबाला बामुदेबा राव (1368346
एच अब जे सी-306988 एन) — 11 अगस्त, 2000।**

हवलदार (जी डी) जी० मुन्नेसन (1368752 एमस अब
जे सी-306989 डब्ल्यू) — 28 अगस्त, 2000।**

हवलदार (जी डी) सुगुन ए० पी० (1369174 एन
अब जे सी-306990 एल) — 01 अगस्त 2000।

हवलदार (जी डी) बायबाषलम (1369792 एम अब
जे सी-306991 एन) — 09 अगस्त 2000।**

हवलदार (जी डी) जोसेफ जॉर्ज (1370264 एम अब जे सी-
306992 डब्ल्यू) — 11 अगस्त 2000।**

हवलदार (जी डी) ए० अमृताराज (1372614 एन अब
जे सी-306993 वाई) — 01 अगस्त 2000।

हवलदार (जी डी) ए० जी० इन्दुबाई (1372618 के
अब जे सी-307003 पी) — 01 सितम्बर 2000।

हवलदार (जी डी) कुमारस्वामी टी० बी० (1372627
एल अब जे सी-307004 एफ) — 01 सितम्बर 2000।

हवलदार (जी डी) ए० एन्थोनी (1376660 ए अब जे सी-
307005 ए) — 01 सितम्बर 2000।

हवलदार (जी डी) पी० श्रीनिवासन (1366560 एफ अब
जे सी-307006 एच) — 04 सितम्बर 2000।***

हवलदार (जी डी) हनगोवन जी० (1367383 वाई अब जे
सी-307007 एल) — 01 सितम्बर 2000।

हवलदार (जी डी) हथी राज टी (1368138 एच अब जे
सी-307008 एन) — 01 सितम्बर 2000।

हवलदार (जी डी) वसन्तन टी० (1368526 ए अब जे
सी-307013 वाई) — 01 सितम्बर 2000।

हवलदार (जी डी) सदासिखन पिलार्ड पी० सी० (1368275
एफ अब जे सी-307014 एफ) — 01 सितम्बर 2000।

हवलदार (जी डी) जॉर्ज टी० पी० (1368376 पी अब जे
सी-307019 ए) — 11 अक्टूबर 2000।%

हवलदार (जी डी) आई० अदिनारायन (1368816 एमस
अब जे सी-307020 पी) — 06 अक्टूबर 2000।%

हवलदार (जी डी) सेकर एस० (1369580 ए अब जे
सी-307022 ए) — 03 अक्टूबर 2000।%

हवलदार (जी डी) एस० सेल्वारज (1369559 एमस
अब जे सी-307023 एच) — 17 अक्टूबर 2000।%

हवलदार (जी डी) आर० वमन्ना कुमार (369942
डब्ल्यू अब जे सी-307024 एल) — 20 अक्टूबर 2000।%

हवलदार (जी डी) एम० सगयाराज (1371041 एच अब
जे सी-307026 डब्ल्यू) — 03 अक्टूबर 2000।%

हवलदार (जी डी) के० गिरिशंकर रेड्डी (1372541 एन
अब जे सी-307027 वाई) — 03 अक्टूबर 2000।%

हवलदार (जी डी) एस० सुबुरामलिंगम (1372643 एच
अब जे सी-307028 एफ) — 05 अक्टूबर 2000।%

हवलदार (जी डी) गजेंसन पी (1366355 ए अब जे सी—307029 के)—19 अक्टूबर 2000।%

हवलदार (जी डी) मुरली धरन पीलई के (1367838 के अब जे सी—307031 एफ)—16 अक्टूबर 2000%।

हवलदार (जी डी) इरिशी केना कर्नार (1368137 ए अब जे सी—307032 के)—18 अक्टूबर 2000%।

हवलदार (जी डी) कुण्णप्पा वन्डनमावर (1368084 एम अब जे सी—307033 एम)—16 नवम्बर 2000%।

हवलदार (जी डी) हनमन्त (1368311 एफ अब जे सी—307034 पी)—06 नवम्बर 2000%।

हवलदार (जी डी) मोहनन जी (1369512 एम अब जे सी—307050 एम)—01 दिसम्बर 2000@।

हवलदार (जी डी) आर वी वी सत्यनारायना (1369725 ए अब जे सी—307051 पी)—02 नवम्बर 2000@।

हवलदार (जी डी) के मागरथी नाम (1369802 के अब जे सी—307052 एक्स)—16 नवम्बर 2000@।

हवलदार (जी डी) जी असकार अली (1369866 पी अब जे सी—307053 ए)—13 नवम्बर 2000@।

हवलदार (जी डी) एम० गोविन्दयु (1370690 एफ अब जे सी—307054 एच)—04 नवम्बर 2000@।

हवलदार (जी डी) जनार्धन टी० अर०! (1371245 पी अब जे सी—307055 एल)—01 नवम्बर 2000।

हवलदार (जी डी) टीकराम कुमार (1371264 पी अब जे सी—307056 एन)—01 नवम्बर 2000।

हवलदार (जी डी) गंगाधरन के (1371983 एक्स अब जे सी—307057 डब्ल्यू)—01 नवम्बर 2000।

ॐ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2000 से दी जाएगी)।

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2000 से दी जाएगी)।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2000 से दी जाएगी)।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाएगी)।

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2000 से दी जाएगी)।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाएगी)।

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाएगी)।

हवलदार (जी डी) पी सुन्दर राज (1367327 ए अब जे सी—306953 एम)—22 जुलाई, 2000।*

हवलदार (जी डी) एस जान पीटर (1368032 डब्ल्यू अब जे सी—307012 डब्ल्यू)—01 सितम्बर, 2000।

हवलदार (जी डी) सग्री पी० जे० (1368371 डब्ल्यू अब जे सी—307015 के)—01 सितम्बर, 2000।

हवलदार (जी डी) चिन्नाप्पा रेड्डी चित्तम (1369369 एल अब जे सी—307021 एक्स)—01 अक्टूबर, 2000।

हवलदार (जी डी) कृष्ण कुमार टी० एस० (1370216 एम अब जे सी—307025 एन)—01 अक्टूबर, 2000।

हवलदार (जी डी) जान कुट्टी के० वी० (1367584 एक्स अब जे सी—307030 वाई)—01 अक्टूबर, 2000।

हवलदार (जी डी) जी० श्रीनिवासा (1369129 एन अब जे सी—307035 एक्स)—05 अक्टूबर, 2000।*

हवलदार (जी डी) नागराजन एम (1373782 वाई अब जे सी—307058 वाई)—01 नवम्बर, 2000।

हवलदार (जी डी) सदानन्दन के० के० (1375251 ए अब जे सी—307059 एफ)—01 नवम्बर, 2000।

हवलदार (जी डी) पी० धनाशेखर (1376121 के अब जे सी—307060 डब्ल्यू)—04 नवम्बर, 2000।**

हवलदार (जी डी) शामला नागराजा एम (1377184 वाई अब जे सी—307061 वाई)—01 नवम्बर, 1000।

हवलदार (जी डी) ए अनन्तलालन (1373745 एल अब जे सी—307063 के)—01 नवम्बर, 2000।

हवलदार (जी डी) वी० राजाराम (1367348 डब्ल्यू अब जे सी—307064 एम)—06 दिसम्बर, 2000।***

हवलदार (जी डी) सी० चिन्नाप्पन (1365280 एफ अब जे सी—307065 पी)—01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार (जी डी) माधवन के० कुटीरमल (1366619 डब्ल्यू अब जे सी—307066 एक्स)—10 दिसम्बर, 2000।***

हवलदार (जी डी) वी० कुमारन (1367562 वाई अब जे सी—307067 ए)—01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार (जी डी) शिवाशंकरा पी० (1369596 एल अब जे सी—307068 एच)—01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार (जी डी) नागराजन जी० (1365603 वाई अब जे सी—307069 एल)—23 दिसम्बर, 2000।***

हवलदार (जी डी) अलेक्स एम० जी० (1366330 एम अब जे सी—307070 एल)—01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार (जी डी) दयानन्दन आई० (1368435 डब्ल्यू अब जे सी—307071 एच)—27 दिसम्बर, 2000।***।

हवलदार (जीडी) पी० आरतम (1368580एन अब जेसी-307072एफ)—04 दिसम्बर, 2000।***

हवलदार (जीडी) एम० श्रीनिवास राव (1369684 एफ अब जेसी-307074इडब्ल्यू)—08 दिसम्बर, 2000।***

हवलदार (जीडी) एम० राजासेखरन (1366224पी अब जेसी-307075वाई)—01 जनवरी, 2001।***

हवलदार (जीडी) राधाकरन पट्टी नहारी चाली (1366495 एम अब जेसी-307076एफ)—04 दिसम्बर, 2000।

हवलदार (जीडी) अब्दुल मुनफ धरवाड़ (1367919 के अब जेसी-307077के)—01 दिसम्बर, 2000।

हवलदार (जीडी) संजीव रेड्डी (1369311 एन अब जेसी-307092वाई)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार (जीडी) रामाप्पा डीलापुर (1371396 इडब्ल्यू अब जेसी-307094के)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार (जीडी) सुन्दर राजन एम० (1371579 के अब जेसी-307095एम)—24 जनवरी, 2001।@

हवलदार (जीडी) घमसिखम एम० (1367835 एम० अब जेसी-307098ए)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार (जीडी) राजन पी० वी० (1369980एम अब जेसी-307099एन)—15 जनवरी, 2001।@

हवलदार (जीडी) जी० वेंकटा रामी रेड्डी (1370981एफ अब जेसी-307100एम)—13 जनवरी, 2001।@

हवलदार (जीडी) रुद्रेशा (1376335ए अब जेसी-307103ए)—02 फरवरी, 2001।@

हवलदार (जीडी) बीरलाम वी० राजू (1376861 वाई अब जेसी-307104एच)—11 जनवरी, 2001।@

हवलदार (जीडी) गोपी पी० (1366906ए अब जेसी-307105एल)—01 जनवरी, 2001।

हवलदार (जीडी) श्रीनिवामन जी० (1372101वाई अब जेसी-307108वाई)—05 फरवरी, 2001।@@

हवलदार (जीडी) ए० सावरामुत्तु (1364928ए अब जेसी-307109एफ)—01 फरवरी, 2001।

हवलदार (जीडी) गोविन्दन पी० (1368288एन अब जेसी-307111वाई)—01 फरवरी, 2001।

हवलदार (जीडी) वन्द्रासेकरा कुरूप पी० (1367173 वाई अब जेसी-307112एफ)—01 फरवरी, 2001।

हवलदार (जीडी) के० रुशन (1369726एच अब जेसी-307113के)—01 फरवरी, 2001।

हवलदार (जीडी) पी० बंगाराजु (1368992ई अब जेसी-307114एम)—01 फरवरी, 2001।

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1997 से दी जाएगी।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 2000 से दी जाएगी।

**नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 2000 से दी जाएगी।

***नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 2000 से दी जाएगी।

@नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 2001 से दी जाएगी।

@@नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 2001 से दी जाएगी।

बम्बई हजीविर ग्रुप

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) आश्विन कुमार शर्मा (सं. 1555778 एफ अब जेसी-348778पी)—29 नवम्बर 2000।

हवलदार (क्लर्क जीडी) ओम प्रकाश गौतमा (सं. 1557108 एफ अब जेसी-348780एम)—08 दिसम्बर 2000।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर से दी जाएगी)।

हवलदार (क्लर्क जीडी) राजेश मिश्रा (सं. 1555067एफ अब जेसी-348785एल)—27 नवम्बर 2000।

हवलदार (क्लर्क जीडी) पटोले शामराव अनेबा (सं. 1556385 एन अब जेसी-348786एल)—29 नवम्बर 2000।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाएगी)।

हवलदार (क्लर्क जीडी) अवधेश मिश्रा (सं. 1558686 इडब्ल्यू अब जेसी-348790इडब्ल्यू)—09 दिसम्बर 2000।

हवलदार (क्लर्क जीडी) मोरेश दासजी महाधे (सं. 1558999 पी अब जेसी-348791वाई)—14 दिसम्बर 2000।

हवलदार (क्लर्क जीडी) रालेश कुमार शर्मा (सं. 1568304 पी अब जेसी-348692एफ)—15 दिसम्बर 2000।

हवलदार (क्लर्क जीडी) धर्मे मिश्रा (सं. 1569390एफ अब जेसी-348793आई)—15 दिसम्बर 2000।

हवलदार (क्लर्क जीडी) जयवीर सिंह (सं 1568300वाहं
अव जेसी-348794एम)—16 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार (क्लर्क जीडी) मेजर सिंह (सं 1557077ए अव
जेसी-348795पी)—18 दिसम्बर 2000 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्ता पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार (क्लर्क जीडी) गाडगे खिलास लक्ष्मण (सं
1555998ए अव जेसी-348797ए)—24 जनवरी 2001 ।

हवलदार (क्लर्क जीडी) गोविंद सिंह बिष्ट (सं 1558270
वाहं अव जेसी-348798एच)—25 जनवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्ता पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर, 2000 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) बलीयस सिंह (सं 1568107एम अव
जेसी-348776के)—02 अक्टूबर 2000 ।

हवलदार (जीडी) राम सिंह (सं 1551291एम अव जेसी-
348777एम)—21 दिसम्बर 2000 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्ता पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार (जीडी) हरी लाल शुकला (सं 1551543एन अव
जेसी-348779एक्स)—30 नवम्बर 2000 ।

हवलदार (जीडी) बिजय कुमार ठाकुर (सं 1550959वाहं
अव जेसी-348781पी)—23 दिसम्बर 2000 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्ता पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार (जीडी) उमराव लाल सैनी (सं 1559871डब्ल्यू
अव जेसी-348782एक्स)—21 नवम्बर 2000 ।

हवलदार (जीडी) सिंदर एसवंत रामचंद्र (सं 1576042वाहं
अव जेसी-348783ए)—24 नवम्बर 2000 ।

हवलदार (जीडी) सुरेंद्र सिंह (सं 1551552पी अव जेसी-
348784एच)—27 नवम्बर 2000 ।

हवलदार (जीडी) राजपाल सिंह (सं 1553433एक्स) अव
जेसी-348787डब्ल्यू)—04 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार (जीडी) बगीचा सिंह (सं 1558975एच अव
जेसी-348798वाहं)—22 दिसम्बर 2000 ।

हवलदार (जीडी) झूलवंत सिंह (सं 1573151ए अव जेसी-
348789एफ)—03 जनवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्ता पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जायेगी) ।
5—124GI/2001

हवलदार (जीडी) मर्या सिंह (सं 1549450एच अव जेसी-
348796एक्स)—26 दिसम्बर 2000 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्ता पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) बलबीर सिंह (जे० सी०—
203091के)—16 जनवरी 2001 ।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) मोहनचंद्र सिंह (जे० सी०—
203092 एम)—11 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) अमरजीत सिंह (जे० सी०—
203084-एन) 02 फरवरी 2001 ।

सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार (जी० डी०) गोपाल नारायण देवग (जे० सी०—
197275 के)—8 अगस्त 2000 ।

सूबेदार (जी० डी०) गुरदेव सिंह (जे० सी०—191624
एम)—13 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार (जी० डी०) चावगी राम (जे० सी०—191635
वाहं)—14 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार (जी० डी०) दिलबाग सिंह (जे० सी०—197282
ए) 19 जनवरी 2001 ।

सूबेदार (जी० डी०) गुरतेज सिंह (जे० सी०—197315
ए)—8 जनवरी 2001 ।

सूबेदार (जी० डी०) करनैल सिंह (जे० सी०—197355
एफ)—11 जनवरी 2001 ।

सूबेदार मेजर (एस० के० टी०) के रैंक में

सूबेदार (एस० के० टी०) परशोतम शर्मा (जे० सी०—
219617 पी)—29 जनवरी 2001

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) बाबू खान (जे० सी०—
347682ए)—27 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) विरेन्द्र सिंह दहिया (जे०
सी०—347890 डब्ल्यू)—16 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) शोभा राम (जे० सी०—
347907 एक्स)—13 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) बलबीर सिंह (जे० सी०—
347904 के)—19 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) राम राज मिश्रा (जे०
सी०—347911 ए)—19 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) मोसल सिंह राणा (जे० सी० 347679 डब्ल्यू)—20 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) पठके रवीन्द्र राजाराम (जे० सी० 347679 ए)—11 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) जोस एम० (जे० सी० 347685 एम)—20 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) मुमताज अहमद (जे० सी० 347686 डब्ल्यू)—22 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) प्रगट सिंह (जे० सी० 347785 बाई)—16 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) गुरू दत्त शर्मा (जे० सी० 347735 एन)—20 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) सलिन सिंह (जे० सी० 347693 एम)—7 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) जगतार सिंह (जे० सी० 347734 एम)—15 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) जगन सिंह (जे० सी० 347695 एम)—19 जनवरी 2001 ।

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी० डी०) जीवन सिंह (जे० सी० 347632 पी)—01 जनवरी 2000 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) ज्ञान सिंह (जे० सी० 347728 एम)—26 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सोहन सिंह (जे० सी० 347748 ए)—23 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) जी० लक्ष्मण जगदीश (जे० सी० 347880 एम)—15 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) गुरुर अहमद खान (जे० सी० 347721 एम)—22 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) महमूद अली खान (जे० सी० 347724 एम)—08 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) रमन सिंह (जे० सी० 347757 एम)—03 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सोहन सिंह (जे० सी० 347759 पी)—24 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) राजीव सिंह (जे० सी० 347810 एम)—16 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) जोगिन्दर सिंह (जे० सी० 347822 एम)—19 जनवरी 2001 ।

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एस के टी) करमजीत सिंह (जे० सी० 347903 एफ)—22 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (एस के टी) रामन लाल कोशिक (जे० सी० 347908 पी)—15 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (एस के टी) राज सिंह (जे० सी० 347945 एम)—22 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) सेधा चतुरसिंह खेत सिंह (सं० 1568256 ए अब जे० सी० 348871 डब्ल्यू)—12 फरवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी ।)

हवलदार (एस के टी) जगत पास (सं० 1568288 एम अब जे० सी० 348920 डब्ल्यू)—23 फरवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार (कलक जी० डी०) के रैंक में

हवलदार (कलक जी० डी०) बाबुलाल श्रीकृष्णा हरी (सं० 1567171 एम अब जे० सी० 348854 डब्ल्यू)—27 जनवरी 2001 ।

हवलदार (कलक जी० डी०) किरपाल सिंह (सं० 1550443 डब्ल्यू अब जे० सी० 348889 एम)—16 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी ।

हवलदार (कलक जी० डी०) महीपाल सिंह रावत (सं० 1568358 डब्ल्यू अब जे० सी० 348814 ए)—06 फरवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2001 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार (जी० डी०) किरपाल सिंह (सं० 1552124 एम अब जे० सी० 348855 बाई)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी० डी०) बसिधर सिंह (सं० 1552418 डब्ल्यू अब जे० सी० 348856 एम)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी० डी०) कलवीर सिंह (सं० 1551610 एम अब जे० सी० 348857 पी)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी० डी०) रजिनी सिंह (सं० 1552263 एम अब जे० सी० 348858 एम)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी० डी०) हरजीत सिंह (सं० 1552340 डब्ल्यू अब जे० सी० 348859 पी)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) मोहम्मद अमीन (सं. 1552082 एक अब जंसी-348860 को)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) प्रीतपाल सिंह (सं. 1550545 एम अब जंसी-348861 एम)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) परमजीत सिंह (सं. 1551784 एन अब जंसी-348862 पी)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) रघुनाथन नाथर थो (सं. 1551227 पी अब जंसी-348863 एक्स)—05 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) सरजन सिंह (सं. 1551314 एम अब जंसी-348864 ए)—06 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) पवार मनोहर महादेव (सं. 1548963 एम अब जंसी-348865 एम)—06 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) अनील कुमार शर्मा (सं. 1566772 डब्ल्यू अब जंसी-348866 एल)—08 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) समीर खान (सं. 1553505 डब्ल्यू अब जंसी-348867 एन)—09 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) दयाशंकर चौबे (सं. 1549453 एन अब जंसी-348868 डब्ल्यू)—10 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) मास्ती दातु देवरकर (सं. 1548258 के अब जंसी-348860 बाई)—10 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) बलवीर सिंह (सं. 4552987 के अब जंसी-348870 एन)—10 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) राजेंद्र सिंह (सं. 1552751 पी अब जंसी-348872 बाई)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) बलबारा सिंह (सं. 1552755 एल अब जंसी-348873 एफ)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) अशोक कुमार (सं. 1551921 एक अब जंसी-348874 को)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) निर्मल सिंह (सं. 1552120 एम अब जंसी-348875 एम)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) बरबारा सिंह (सं. 1550119 बाई अब जंसी-348876 पी)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) सलूके प्रकाश शिवाजी (सं. 1552455 के अब जंसी-348877 एक्स)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) गूलभार सिंह (सं. 1551192 के अब जंसी-348878 ए)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) बिलबाग सिंह (सं. 1550710 एम अब जंसी-348879 एम)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) मजेंद्र सिंह (सं. 1550067 एन अब जंसी-348880 एक्स)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) गालोड बाणीराम शीतलकराव (सं. 1550730 ए अब जंसी-348881 ए)—12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) इकबाल सिंह (सं. 1553015 एम अब जंसी-348882 एम)—13 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) सेवा सिंह (सं. 1551112 एक अब जंसी-348883 एल)—13 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) गंसे काला श्यामराव (सं. 1553127 एम अब जंसी-348884 एम)—13 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) लक्ष्मण सिंह (सं. 1548789 एक अब जंसी-348885 डब्ल्यू)—13 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) इन्द्रजीत सिंह (सं. 1551606 एल अब जंसी-348886 बाई)—15 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) विधी चंद (सं. 1550349 एम अब जंसी-348887 पी)—15 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) ध्यान सिंह (सं. 1552930 पी अब जंसी-348888 को)—15 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) राजपाल सिंह (सं. 1552045 एन अब जंसी-348890 एक)—16 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) पाठर सुभाष एकनाथ (सं. 1552500 एल अब जंसी-348891 को)—16 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) सीया राम (सं. 1551758 एम अब जंसी-348892 एम)—16 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) गुरदेव सिंह (सं. 1551649 ए अब जंसी-348893 पी)—16 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) कमलाकर रामचन्द्र कश्यप (सं. 1551362 एम अब जंसी-348894 एक्स)—16 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) बाबग सुभाष अजा (सं. 1551346 एल अब जंसी-348895 ए)—17 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) राजेंद्र सिंह (सं. 1549452 एल अब जंसी-348896 एम)—17 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) बाधक बरबरथ पंडुरंग (सं. 1552272 एम अब जंसी-348897 एल)—19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) फकीर सिंह (सं. 1553794 डब्ल्यू अब जंसी-348898 एम)—19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) बलबारा सिंह (सं. 1549461 एम अब जंसी-348899 डब्ल्यू)—19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) गुरजित सिंह (सं. 1552539 एक्स अब जंसी-348900 ए)—19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) गजेश अमरनाथ चण्डीकर (सं. 1551224 एक अब जंसी-348901 एम)—19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) बख्श सिंह कलशवाहा (सं. 1550242 एक्स
अब जंसी-348902 एल) —19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) जलाजबदीन खान (सं. 1550791 एक्स
अब जंसी-348903 एल) —19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) जगन्नीश प्रसाद (सं. 1552202 एल अब
जंसी-348904 डब्ल्यू) —19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) लखविंदर सिंह (सं. 1549761 एल अब
जंसी-348905 बाई) —19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) लक्ष्मीत सिंह गिल (सं. 1552294 एल
अब जंसी-348906 एल) —29 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) सुदाम शंकर बगं (सं. 1551723 डब्ल्यू अब
जंसी-348907 को) —21 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) तेजपाल सिंह (सं. 1550400 एल अब
जंसी-348908 एम) —22 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) रघुपान सिंह (सं. 1551241एल अब जंसी-
348909पी) —24 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) सच्चा सिंह (सं. 1552413एक्स अब जंसी-
348910के) —26 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) मोती लाल (सं. 1550863डब्ल्यू अब जंसी-
348911एम) —28 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) सुरेश (सं. 1551592डब्ल्यू अब जंसी-
348912पी) —02 मार्च 2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्तों पर प्रभाव डाल
बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार (जीडी) नमसूदीन (सं. 1552723एल अब जंसी-
348913एक्स) —02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) हीरा सिंह (सं. 1553004डब्ल्यू अब जंसी-
348915एल) —12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) प्रीतम सिंह (सं. 1552360ए अब जंसी-
348916एल) —12 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) पद्म सम्पत गह्राजी (सं. 1552843एल
जंसी-348917एल) —17 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) प्रीतपाल सिंह (सं. 1553173एक्स अब
जंसी-348918डब्ल्यू) —19 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जीडी) कांकाधार सूर्यकांत लक्ष्मण (सं.
1552958पी अब जंसी-348918बाई) —19 फरवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्तों पर प्रभाव डाल
बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2001 से दी जायेगी) ।

हवलदार (जीडी) अब्दुल गफर (सं. 1554715एल अब
जंसी-348921डब्ल्यू) —1 मार्च 2001

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्तों पर प्रभाव डाल
बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) फौरन सिंह (सं. 1567637पी अब
348812के) —31 जनवरी 2001 ।

हवलदार (एस के टी) इमरान अहमद (सं. 1567882एक्स
अब जंसी-348837डब्ल्यू) —06 फरवरी 2001 ।

हवलदार (एस के टी) राजदीर यादव (सं. 1567857बाई
अब जंसी-348840डब्ल्यू) —07 फरवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्तों पर प्रभाव डाल
बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) तारा शंभ (सं. 8025763बाई अब जंसी-
348801एक्स) —09 जनवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वृत्त और भत्तों पर प्रभाव डाल
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार (जी डी) जिले दीन (सं. 1551364एल अब जंसी-
348803एल) —17 जनवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) सुखदेव सिंह (सं. 1550627पी अब जंसी-
348804एल) —27 जनवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) निक्कम भरत रामचंद्र (सं. 1552166पी
अब जंसी-348805एल) —27 जनवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) मदन सिंह (सं. 1551187बाई अब जंसी-
348806डब्ल्यू) —27 जनवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) राम शंकर (सं. 1575488एल अब जंसी-
348807बाई) —27 जनवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) शमशेर सिंह दुग्गल (सं. 1552231के
अब जंसी-348808एल) —27 जनवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) शाहीर हुसैन (सं. 1553071एल अब
जंसी-348813एम) —01 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) विविंदर सिंह (सं. 1551894एल अब
जंसी-348814पी) —01 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) सोम दास (सं. 1552239डब्ल्यू अब जंसी-
348815एक्स) —02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) जाधव अशोक यशवंत (सं. 1551937एम
अब जंसी-348816एल) —02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) गुरनाम सिंह (सं. 1551320डब्ल्यू अक्षर जंसी-348817एच)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) अजीत सिंह (सं. 1551251एल अक्षर जंसी-348818एल)—02 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) भंकर लाल मेन (सं. 1552126एन अक्षर जंसी-348819एन)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) भाग सिंह (सं. 1551119एल अक्षर जंसी-348820एच)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) मोहिते माधव वेंकट (सं. 1551899एफ अक्षर जंसी-348821एल)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) महावीर सिंह (सं. 1552106ए अक्षर जंसी-348822एल)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) नरेंद्र सिंह (सं. 1551216एच अक्षर जंसी-348823डब्ल्यू)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) गजबंदीन (सं. 7771648एन अक्षर जंसी-348824वाइ)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) हरी राम (सं. 1549936एल अक्षर जंसी-348825एफ)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) नहार सिंह (सं. 1551663एम अक्षर जंसी-348826के)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) सुरज सिंह (सं. 1551462एन अक्षर जंसी-348827एम)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) निर्मल सिंह (सं. 1551111वाइ अक्षर जंसी-348828णे)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) गोपाल तिवारी (सं. 1551333एन अक्षर जंसी-348829एक्स)—03 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) निरंजन सिंह (सं. 1551425ए अक्षर जंसी-348830एम)—05 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) बहादुर सिंह (सं. 1551588एन अक्षर जंसी-348831पी)—05 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) रणजीत सिंह (सं. 1551485पी अक्षर जंसी-348833ए)—05 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) सिंगारा सिंह (सं. 1551945एल अक्षर जंसी-348833 ए)—05 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) केवल सिंह (सं. 1551789एम अक्षर जंसी-348834एच)—05 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) रंजित सिंह (सं. 1550757एक्स अक्षर जंसी-348835एल)—05 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) हरजीत सिंह (सं. 1551128एम अक्षर जंसी-348838वाइ)—06 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) रूप सिंह (सं. 1551280ए अक्षर जंसी-348839एफ)—06 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) गुरमेल सिंह (सं. 1552341वाइ अक्षर जंसी-348841वाइ)—07 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) चंद्रकांत सुखदेव सूर्यवंशी (सं. 1551129 पी अक्षर जंसी-348842एफ)—07 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) राक्षे (सं. 1551718एल अक्षर जंसी-348843के)—07 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) असवंत सिंह (सं. 1550536एल अक्षर जंसी-348844एम)—08 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) असमादल खान (सं. 1551544डब्ल्यू अक्षर जंसी-348845पी)—08 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) राम प्रकाश (सं. 1551139वाइ अक्षर जंसी-348848एच)—10 फरवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) हुनोफ अहमद (सं. 1552087ए अक्षर जंसी-348849एल)—13 फरवरी 2001 ।

(नायक सूबेदार के रैंक में बतन और भस्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार (जी डी) सिंगारा सिंह (सं. 1552919डब्ल्यू अक्षर जंसी-348850ए)—27 जनवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) गुरवीर सिंह (सं. 1552412पी अक्षर जंसी-348851एच)—27 जनवरी 2001 ।

हवलदार (जी डी) मोहम्मद रजाक (सं. 1552874एफ अक्षर जंसी-348853एन)—07 फरवरी 2001 ।

(नायक सूबेदार के रैंक में बतन और भस्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2001 से दी जायेगी) ।

नायक सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी डी) काशीर मसीह (सं. 1554947एफ अक्षर जंसी-348799एल)—30 नवम्बर 2000 ।

हवलदार (क्लर्क जी डी) पाटील राजेंद्र माधवराव (सं. 1554570एच अक्षर जंसी-348800पी)—29 दिसम्बर 2000 ।

(नायक सूबेदार के रैंक में बतन और भस्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार (क्लर्क जी डी) अमरजीत सिंह (सं. 1559472एम अक्षर जंसी-348802ए)—30 जनवरी 2001 ।

(नायक सूबेदार के रैंक में बतन और भस्ती पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार (क्लर्क जी डी) द्वारका प्रसाद (सं. 1551332एल अक्षर जंसी-348809के)—30 जनवरी 2001 ।

हवलदार (क्लर्क जी डी) कप्तान सिंह (सं. 1568153एफ अथ जंसी-348810वाहं)—30 जनवरी 2001 ।

हवलदार (क्लर्क जी डी) रघोनाथ पाल सिंह चौधरी (सं. 1555431एल अथ जंसी-348811एफ)—31 जनवरी 2001 ।

हवलदार (क्लर्क जी डी) दयानंद (सं. 1555617पी अथ जंसी-348836एल)—06 फरवरी 2001 ।

हवलदार (क्लर्क जी डी) वासुदेवन एल (सं. 1555719एल अथ जंसी-348846एक्स)—10 फरवरी 2001 ।

हवलदार (क्लर्क जी डी) राम बरन आजाद (सं. 1567186 एल अथ जंसी-348847ए)—10 फरवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार को रैंक में बतान और भत्तों पर प्रभाव डाल बिना ज्यूरता 21 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी) ।

हवलदार (क्लर्क जी डी) महा सिंह (सं. 1550954ए अथ जंसी-348852एल)—06 फरवरी 2001 ।

(नायब सूबेदार को रैंक में बतान और भत्तों पर प्रभाव डाल बिना ज्यूरता 01 जनवरी 2001 से दी जायेगी) ।

एम. डी. एस. मिजिंदी कोडर

नायब सूबेदार को रैंक में

हवलदार गुरभन सिंह (1456927 एक्स अथ जंसी-327455 वाहं)—12 नवम्बर 1998 ।

हवलदार बहादुर सिंह बिस्ट (1459109 एफ अथ जंसी-327456 एफ)—28 दिसम्बर 1998 ।

हवलदार गुरुदेव सिंह (1545824 एल अथ जंसी-327457 को)—29 दिसम्बर 1998 ।

हवलदार नव किशोर (1459207 एफ अथ जंसी-327458 एम)—10 नवम्बर 1998 ।

हवलदार राम निवास (1476247 वाहं अथ जंसी-327459 पी)—21 मार्च 1999 ।

हवलदार तीरथ राम शर्मा (1463732 पी अथ जंसी-327460 को)—15 मार्च 1999 ।

हवलदार एस अलन (1554488 एल अथ जंसी-327515 ए)—13 अप्रैल 1999 ।

हवलदार सेवा सिंह (1468611 एक्स अथ जंसी-327461 एल)—23 मार्च 1999 ।

हवलदार कल्याण सिंह आरिमा (1468787 एल अथ जंसी-327462 पी)—22 अप्रैल 1999 ।

हवलदार दशरथ सिंह (1468784 पी अथ जंसी-327463 एक्स)—15 मार्च 1999 ।

हवलदार ओध सिंह महारा (1557828 डब्ल्यू अथ जंसी-327516 एल)—17 मार्च 1999 ।

हवलदार ओध प्रकाश (1559737 एल अथ जंसी-327464 ए)—19 मार्च 1999 ।

हवलदार जगतार सिंह (1547415 वाहं अथ जंसी-327465 एल)—19 मार्च 1999 ।

हवलदार कायर सिंह रायध (1469210पी अथ जंसी-327466एल)—19 मार्च 1999 ।

हवलदार आदिल खान मुस्तफा खान (1567172 ए अथ जंसी-327467 एल)—19 मार्च 1999 ।

हवलदार रमेश कुमार मलिक (1468016 एल अथ जंसी-327468 डब्ल्यू)—19 अप्रैल 1999 ।

हवलदार धर्म पाल सिंह (1469505 एल अथ जंसी-327469 वाहं)—12 अप्रैल 1999 ।

हवलदार एम जैकब सन्धन (1380936 एक्स अथ जंसी-327470 एल)—18 मार्च 1999 ।

हवलदार फिशन लाल चौधरी (1469937 ए अथ जंसी-327517 एल)—04 जून 1999 ।

हवलदार जय नाथ प्रताप सिंह (1470086 एल अथ जंसी-327471 डब्ल्यू)—17 मार्च 1999 ।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (1470502 को अथ जंसी-327472 वाहं)—20 मार्च 1999 ।

हवलदार परमजोत सिंह (1552578डब्ल्यू अथ जंसी-327518 एल)—27 मई 1999 ।

हवलदार प्रसन्ना कुमार सर्वान (1474434 एम अथ जंसी-327473 एफ)—20 मार्च 1999 ।

हवलदार मुंगसे सन्दीप बिट्टल (1570787 डब्ल्यू अथ जंसी-327474 को)—15 मार्च 1999 ।

हवलदार विनोद कुमार (1557182डब्ल्यू अथ जंसी-327475 एम)—15 मार्च 1999 ।

हवलदार बिजु किशोर (1572227 एल अथ जंसी-327476 पी)—19 मार्च 1999 ।

हवलदार जगदीश सिंह (1382504 एम अथ जंसी-327477 एक्स)—23 अप्रैल 1999 ।

हवलदार सुब्रता बिस्वास (1382542 एल अथ जंसी-327478 ए)—20 मार्च 1999 ।

हवलदार डी मणिकरतन (1383432 ए अथ जंसी-327525 एम)—22 मार्च 1999 ।

हवलदार शैलेश सिंह (15308299 को अथ जंसी-327479 एल)—15 अप्रैल 1999 ।

हवलदार लक्ष्मणदास देहूरा (1477933 वाई अक जंसी-327480 एक्स)—08 अप्रैल 1999 ।

हवलदार प्रभाधन मौर्या (1573871 एक अक जंसी-327481 ए)—28 अप्रैल 1999 ।

हवलदार वसुधारी खेत (1573875 एक्स अक जंसी-327482 एक्स)—31 मार्च 1999 ।

हवलदार जगत किशोर (1473379 एक अक जंसी-327483 एल)—17 मार्च 1999 ।

हवलदार भजन मोहन बारले (1474739 वाई अक जंसी-327484 एन)—16 मार्च 1999 ।

हवलदार विरेंद्र कुमार शर्मा (1552044 एन अक जंसी-327519 डब्ल्यू)—04 मई 1999 ।

हवलदार किशोर पाल शर्मा (1558007 एन अक जंसी-327584 वाई)—29 अप्रैल 1999 ।

हवलदार शिव राव (1567412 एन अक जंसी-327485 एल)—26 अप्रैल 1999 ।

हवलदार रजनाराय (1469753 एक अक जंसी-327520 एन)—13 जुलाई 1999 ।

हवलदार हरनाराय शिंदे (1569237 एक अक जंसी-327521 डब्ल्यू)—05 जून 1999 ।

हवलदार लक्ष्मणदास सिंध (1482255 एन अक जंसी-327486 वाई)—28 अप्रैल 1999 ।

हवलदार प्रेम शिंदे (1572368 एन अक जंसी-327522 वाई)—19 जून 1999 ।

हवलदार भरत धक (1568776 एन अक जंसी-327575 एक्स)—17 सितम्बर 1999 ।

हवलदार सिसू रामा बोसह (15300309 पी अक जंसी-327576 ए)—21 सितम्बर 1999 ।

हवलदार सतेंद्र प्रताप सिंह (1462220 डब्ल्यू अक जंसी-327586 को)—24 नवम्बर 1999 ।

हवलदार धनराज एक के (1483515 ए अक जंसी-327591 पी)—24 जनवरी 2000 ।

हवलदार काया मल (1468491 के अक जंसी-327516 डब्ल्यू)—27 मार्च 2000 ।

हवलदार राय स्वर्ण शर्मा (1474301 एक अक जंसी-327617 वाई)—11 अप्रैल 2000 ।

हवलदार रतनराज कुमार (1473561 एक अक जंसी-327618 एल)—29 मार्च 2000 ।

हवलदार गुरुदास चन्द्र शर्मा (15301019 एन अक जंसी-327619 को)—31 मार्च 2000 ।

हवलदार बंगल देवीदास महादेव (1576066 एक अक जंसी-327620 वाई)—01 अप्रैल 2000 ।

हवलदार देवेन्द्र सिंह नेगी (1462408 एन अक जंसी-327488 को)—18 जनवरी 1999 ।

हवलदार सूर्यन्दर सिंह (1546814 डब्ल्यू अक जंसी-327489 एम)—07 अप्रैल 1999 ।

हवलदार माता मारी बी बी गोहन राव (1368940 वाई अक जंसी-327490 एल)—15 मार्च 1999 ।

हवलदार बंयन्त सिंह गिल (1553896एक्स अक जंसी-327491 को)—06 अप्रैल 1999 ।

हवलदार रमेश चन्द्र अचक (1471761को अक जंसी-327492 एम)—12 मार्च 1999 ।

हवलदार जंकर सिंह रातौला (1458853एम् अक जंसी-327493पी)—10 मार्च 1999 ।

हवलदार राम कुमार (1458995के अक जंसी-327494 एक्स)—15 मार्च 1999 ।

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (1459364एन अक जंसी-327495 ए)—16 मार्च 1999 ।

हवलदार पारिजात गंगोली (1459272एक अक जंसी-327496एक्स)—16 मार्च 1999 ।

हवलदार आर ब्राह्मदेव (1362086एक अक जंसी-327497 एल)—03 मार्च 1999 ।

हवलदार कपूरशामी एन (1362266एक्स अक जंसी-327498 एन)—16 मार्च 1999 ।

हवलदार पुरुषोत्तमन जो (1549228वाई अक जंसी-327499डब्ल्यू)—13 मार्च 1999 ।

हवलदार रीत अम्बा आनन्दा (1548496डब्ल्यू अक जंसी-327500डब्ल्यू)—16 मार्च 1999 ।

हवलदार मेवा सिंह (1548713एक अक जंसी-327501 एल)—11 मार्च 1999 ।

हवलदार गंगा सहाई (1460776एक अक जंसी-327502 एल)—12 मार्च 1999 ।

हवलदार जय नारायणन जलदास (1459001के अक जंसी-327589एक्स)—03 जनवरी 2000 ।

हवलदार जे के गोविंद राव (1555317एम् अक जंसी-327621एल)—26 जुलाई 2000 ।

हवलदार मूरलीधर (1472376के अक जंसी-327444एम्)—03 दिसम्बर 1998 ।

हवलदार जी सन्धा कुमार (1375365एल अक जंसी-327445पी)—07 दिसम्बर 1998 ।

हवलदार एफ स्वामीनाथन (1371962एफ अब जंसी-327446एफस)—21 दिसम्बर 1998 ।

हवलदार व्यास सिंह (1471741एल अब जंसी-327447ए)—04 जनवरी 1999 ।

हवलदार लक्ष्मण सिंह राणा (1471731एफ अब जंसी-327503एन)—08 जनवरी 1999 ।

हवलदार सुरेश कुमार एम (1472118एफ अब जंसी-327448एफ)—16 दिसम्बर 1998 ।

हवलदार बैकान्था तालुकवार (1463729पी अब जंसी-327585एफ)—26 जनवरी 1999 ।

हवलदार हरिन्द्र दास एम (1473808के अब जंसी-327504डब्ल्यू)—27 जनवरी 1999 ।

हवलदार जसमर सिंह (1473981एफ अब जंसी-327449एल)—30 दिसम्बर 1998 ।

हवलदार अकतार सिंह (1474120एक्स अब जंसी-328450ए)—16 दिसम्बर 1998 ।

हवलदार डी निरन्जन (1383475पी अब जंसी-327505वाइ)—22 जनवरी 1999 ।

हवलदार एस पलानी कुमार (1374407ए अब जंसी-327492एल)—14 जनवरी 1999 ।

हवलदार पाटिल मधुकर पन्डुरंग (1569988एफ अब जंसी-327506एफ)—08 फरवरी 1999 ।

हवलदार वी जे मोहन रेड्डी (1370752डब्ल्यू अब जंसी-327507के)—08 फरवरी 1999 ।

हवलदार रणार्ह बी पी (1378545एक्स अब जंसी-327508एफ)—03 फरवरी 1999 ।

हवलदार कलवानन जी (1372569एम अब जंसी-327523एफ)—28 मई 1999 ।

हवलदार मस्त राम ठाकुर (1571623एन अब जंसी-327524के)—27 मई 1999 ।

हवलदार परानी दास के (1375341एफ अब जंसी-327590एम)—01 दिसम्बर 1999 ।

हवलदार वैद्य भगवान शंकर (1556003वाइ अब जंसी-327626ए)—13 जून 2000 ।

हवलदार अहमद अनसारी (1554782एन अब जंसी-327627एफ)—13 जून 2000 ।

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (1568735एफ अब जंसी-327628एल)—16 जून 2000 ।

हवलदार टी सिध्दार्थनाथन (1379148एम अब जंसी-327629एन)—22 जून 2000 ।

हवलदार मोहन ए बी (1373513एम अब जंसी-327690एफ)—16 जून 2000 ।

हवलदार बासुदेवन कामेल के के (1372171एम अब जंसी-327631एल)—12 जून 2000 ।

हवलदार राजगीपालन बी (1373102एन अब जंसी-327632एन)—18 जुलाई 2000 ।

हवलदार अशोकन एम के (1374581एम अब जंसी-327633डब्ल्यू)—10 जून 2000 ।

हवलदार सुभाष चन्द्र (1471133के अब जंसी-327634वाइ)—13 जून 2000 ।

हवलदार राधे सिंह (1463867ए अब जंसी-327635एफ)—13 जून 2000 ।

हवलदार हरिदास सी (1378122एल अब जंसी-327636के)—16 जून 2000 ।

हवलदार आर बक्शा सिंह (15300685पी अब जंसी-327637एम)—14 जून 2000 ।

हवलदार अजीथ कुमार जे (1568513एम अब जंसी-327587एम)—18 दिसम्बर 1999 ।

हवलदार प्रदीप कुमार दास (1474299डब्ल्यू अब जंसी-327563एफ)—04 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार नवि गोपाल नाथ (1474137एल अब जंसी-327579एन)—08 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार जयबीर चन्द्र जोषी (1472936एफ अब जंसी-327564एल)—06 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार राम नाथ शर्मा (4175104एम अब जंसी-327565एन)—06 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार बिजु भूषण सिंह रावत (1475124ए अब जंसी-327566डब्ल्यू)—06 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार राम पाल सिंह (1471788डब्ल्यू अब जंसी-327580एफ)—15 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार राम विनाय पाठक (1471850एक्स अब जंसी-327567वाइ)—05 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार सारेन्द्र पाल सिंह (1475251पी अब जंसी-327568एफ)—08 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार ग्नीर सिंह (1475395एक्स अब जंसी-327569के)—04 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार नरेंद्र कुमार नाथक (1475497एन अब जंसी-327570एक्स)—11 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार गुरुदेव सिंह (1475564एन अब जंसी-327571एफ)—08 अक्टूबर 1999 ।

हवलदार ह. पी. (1475612एफ और जंजी-327581एफ)—16 अक्टूबर 1999।

हवलदार (1475612एफ और जंजी-327581एफ)—06 अक्टूबर 1999।

हवलदार (1476275एफ और जंजी-327581एफ)—18 अक्टूबर 1999।

हवलदार र. पी. (1476339एफ और जंजी-327573एफ)—11 अक्टूबर 1999।

हवलदार र. पी. (1473237एफ और जंजी-327574एफ)—12 अक्टूबर 1999।

हवलदार हरी रां (1471776एफ और जंजी-327583एफ)—10 अक्टूबर 1999।

हवलदार जितेंद्र रां (1471509एफ और जंजी-327588एफ)—19 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1465702एफ और जंजी-32759एफ)—27 अक्टूबर 2000।

हवलदार धर्मा रां (1374009एफ और जंजी-327593एफ)—27 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1477469एफ और जंजी-327594एफ)—27 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1468617एफ और जंजी-327595एफ)—26 जून 2000।

हवलदार (1470546एफ और जंजी-327596एफ)—27 जून 2000।

हवलदार (1471118एफ और जंजी-327622एफ)—10 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1471520एफ और जंजी-327597एफ)—27 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1471498एफ और जंजी-327598एफ)—02 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1471190एफ और जंजी-327599एफ)—23 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1471544एफ और जंजी-327600एफ)—01 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1471820एफ और जंजी-327601एफ)—26 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1471820एफ और जंजी-327602एफ)—26 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1471820एफ और जंजी-327603एफ)—02 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1568363एफ और जंजी-327604एफ)—05 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1471307एफ और जंजी-327605एफ)—03 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1475042एफ और जंजी-327606एफ)—04 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1475239एफ और जंजी-327605एफ)—20 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1474579एफ और जंजी-327606एफ)—03 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1474897एफ और जंजी-327607एफ)—29 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1475348एफ और जंजी-327608एफ)—01 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1475377एफ और जंजी-327609एफ)—29 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1475492एफ और जंजी-327610एफ)—30 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1475566एफ और जंजी-327611एफ)—03 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1476270एफ और जंजी-327612एफ)—30 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1476257एफ और जंजी-327613एफ)—30 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1476339एफ और जंजी-327614एफ)—28 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1476310एफ और जंजी-327615एफ)—03 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1464380एफ और जंजी-327625एफ)—05 अक्टूबर 2000।

हवलदार (1471510एफ और जंजी-327671एफ)—22 अक्टूबर 2000।

(नाथन सचदार के रैंक में वृद्ध और अग्रिम पर प्रभाव वाले दिनांक 01 सितंबर 97, 01 अक्टूबर 1998, 04 अक्टूबर 1998, 01 सितंबर 1999, 04 सितंबर 1999, 05 सितंबर 1999, 12 दिसंबर 1998, 26 अक्टूबर 1999, 11 अक्टूबर 1999, 22 अक्टूबर 1999, 01 अक्टूबर 1999, 11 अक्टूबर 1999, 19 दिसंबर 1999, 11 अक्टूबर 2000 और 26 अक्टूबर 2000 में दी जायेगी)।

हवलदार (1470001एफ और जंजी-327660एफ)—29-09-2000।

हवलदार शिव नाथ (1558029एफ अर जेम्सी-327664 डब्ल्यू)—30-09-2000 ।

हवलदार नरेश कुमार (1468386एफ अर जेम्सी-327665 वाई)—18-09-2000 ।

हवलदार विनोद सिंह (1468015एफ अर जेम्सी-327672 पी)—27-09-2000 ।

हवलदार महेश सिंह (1461911एफ अर जेम्सी-327666एफ)—23-09-2000 ।

हवलदार सन्तोष सिंह (1550367पी अर जेम्सी-327667के)—27-09-2000 ।

हवलदार अविन्द्र मोहन शर्मा (1461014ए अर जेम्सी-327673एफ)—08-11-2000 ।

हवलदार सुरेश शर्मा के (1274829एफ अर जेम्सी-327668 एम)—26-09-2000 ।

हवलदार प्रवीर शर्मा (1483874एफ अर जेम्सी-327671एफ)—17-10-2000 ।

हवलदार मनीष कुमार शर्मा (1478047एफ अर जेम्सी-327669पी)—28-09-2000 ।

हवलदार सीमा कृता मीठी (15302031के अर जेम्सी-327670के)—27-09-2000 ।

हवलदार विष्णुधर शर्मा (1579238वाई अर जेम्सी-327683एफ)—01-01-2001 ।

हवलदार लक्ष्मण शर्मा (1579251एफ अर जेम्सी-327684 के)—01-01-2001 ।

हवलदार सधान्य कुमार शर्मा (1579789एफ अर जेम्सी-327690एफ)—06-01-2001 ।

हवलदार ज्योति पट्टाण (15306107एफ अर जेम्सी-327685 एम)—01-01-2001 ।

हवलदार रमन शर्मा (1550453एफ अर जेम्सी-327638पी)—04-10-2000 ।

हवलदार अरुण कुमार (1550173एफ अर जेम्सी-327639 एफ)—30-09-2000 ।

हवलदार लल्लु सिंह (1580999पी अर जेम्सी-327640 एम)—29-09-2000 ।

हवलदार मनीष सिंह (1473209एफ अर जेम्सी-327675 एफ)—30-09-2000 ।

हवलदार एम राजेंद्र (1264438के अर जेम्सी-327641पी)—29-09-2000 ।

हवलदार बलराम सिंह (1458057के अर जेम्सी-327642 एफ)—05-10-2000 ।

हवलदार निमल्लुकार पान्थुरा पुतापुता (1555912एफ अर जेम्सी-327643एफ)—29-09-2000 ।

हवलदार इन्दर सिंह (1578406वाई अर जेम्सी-327676 एल)—09-10-2000 ।

हवलदार वाके शिवाजी शर्मा (1579498एफ अर जेम्सी-327677एफ)—24-10-2000 ।

हवलदार महाश्वर सिंह (1460926 एफ अर जेम्सी-327644 एफ)—25-09-2000 ।

हवलदार राजेश्वर शर्मा (1550410एफ अर जेम्सी-32764 ; एल)—27-09-2000 ।

हवलदार लाल भागवत द्विवेदी (1551140 एफ अर जेम्सी-327646 एल)—28-09-2000 ।

हवलदार विरेंद्र सिंह (1461588 एफ अर जेम्सी-327647 डब्ल्यू)—27-09-2000 ।

हवलदार नारायण कुमार पण्डे (1530603डब्ल्यू अर जेम्सी-327648 वाई)—28-09-2000 ।

हवलदार बलराज शर्मा (1368546एफ अर जेम्सी-327649 एफ)—29-09-2000 ।

हवलदार महालिनम शर्मा (1369536 डब्ल्यू अर जेम्सी-327678 डब्ल्यू)—30-09-2000 ।

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (1461843 एफ अर जेम्सी-327650 डब्ल्यू)—28-09-2000 ।

हवलदार पाटिलशिवकांत शर्मा (1554851 वाई अर जेम्सी-327651 वाई)—30-09-2000 ।

हवलदार गुरुदत्त सिंह (1550135डब्ल्यू अर जेम्सी-327652 एफ)—09-10-2000 ।

हवलदार नारायण सिंह (1551028 एफ अर जेम्सी-327653 एल)—28-09-2000 ।

हवलदार लीलावती सन्तोष पाण्डेकर शर्मा (1551454 पी अर जेम्सी-327654 एम)—28-09-2000 ।

हवलदार पोद्दार जयराम शर्मा (1551507 एफ अर जेम्सी-327655 पी)—29-09-2000 ।

हवलदार शम्भु सिंह (1551978 डब्ल्यू अर जेम्सी-327679 वाई)—20-10-2000 ।

हवलदार उदयश्री सिंह (1553745 एफ अर जेम्सी-327656 एल)—29-09-2000 ।

हवलदार शम्भु शर्मा सिंह (1461041 के अर जेम्सी-327657 एल)—28-09-2000 ।

हवलदार दास विद्याशिव नामदेव (1552226 वाई अर जेम्सी-327658 एल)—27-09-2000 ।

हवलदार करान्ठे दत्तात्रेय अन्ता (1555066 पी अब जेसी-327659 एल) — 25-09-2000 ।

हवलदार मोहम्मद शादाब (1556599 के अब जेसी-327660 ए) — 05-10-2000 ।

हवलदार गार्जर नाना भाऊ पोपट (1557572 वाई अब जेसी-327661 एच) — 29-09-2000 ।

हवलदार सखारन अली (1559604 पी अब जेसी-327662 एल) — 28-09-2000 ।

हवलदार देव कृष्ण शर्मा (1461565 एल अब जेसी-327680 एन) — 29-02-2000 ।

हवलदार मिर्जा सफदार अली शरीफ (1366360 एल अब जेसी-327681 डब्ल्यू) — 01-11-2000 ।

हवलदार बाल कृष्ण क्षत्री (1567346 एक्स अब जेसी-327682 वाई) — 13-11-2000 ।

हवलदार बबन दावर कन्डलिया (1570866 एल अब जेसी-327688 ए) — 23-11-2000 ।

हवलदार मोहन सिंह रावत (1458546 पी अब जेसी-327686 पी) — 08-12-2000 ।

हवलदार विरेन्द्रा पाल (1475545 पी अब जेसी-327687 एक्स) — 12-12-2000 ।

हवलदार दलेर सिंह (1475670 एम अब जेसी-327689 एच) — 09-01-2001 ।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना, ज्येष्ठता 11 नवम्बर 2000, 26 मई 2000 और 25 अक्टूबर 2000 से दी जाएगी ।

रथीन्द्र कुमार आश्री, उप सचिव

संख्या 376, दिनांक 28 मई 2001—राष्ट्रपति पदार्पण निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं—

नियमित सेना छात्रा

नौगखाना रेजिमेंट

मबस्टेडिब सूबेदार मेजर (आरटी जी) के पद में

सूबेदार जगराम सिंह (जे० सी०-70739 एक्स) — 01 जून, 98 ।

सूबेदार सचिदानन्द दशेदी (जे० सी०-72560 एच) — 01 जून, 98 ।

सूबेदार वामादेवन के० (जे० सी०-72561 एल) — 14 अप्रैल, 99/*01 मार्च, 99 ।

सूबेदार कमलेश चन्दर (जे० सी०-72853 एम) — 01 मार्च, 99 ।

सूबेदार ललित किशोर तिवारी (जे० सी०-73065 डब्ल्यू) — 01 मार्च, 99 ।

सूबेदार शिव चरण प्रसाद तिवारी (जे० सी०-73851 पी) — 01 मार्च, 99 ।

सूबेदार राज कुमार मिश्रा (जे० सी०-73852 एक्स) — 01 मार्च, 99 ।

सूबेदार बल्लभन नादर एम० (जे० सी०-74145 ए) — 20 मई, 99/*01 अप्रैल, 99 ।

सूबेदार गयाधर प्रसाद चौधरी (जे० सी०-74280 एन) 24 अक्टूबर, 99/*01 अक्टूबर, 99 ।

सूबेदार राम शंकर चौबे (जेसी-75430 एल) — 01 अक्टूबर 1999 ।

सूबेदार गवी राधवन (जेसी-76556 एक्स) — 03 अप्रैल 2000 1/*01 अप्रैल 2000 ।

सूबेदार चन्द्रबल्लभ शर्मा (जे सी-78063 पी) — 01 अगस्त 2000 ।*

सूबेदार अखिलेश तिवारी (जेस -78214 एच) — 01 अक्टूबर 2000 ।

ब्रिस्टेडिब सूबेदार मेजर (आरटी जी) के पद में

सूबेदार हिमन सिंह सिधू (जेसी-75492 एल) — 01 मार्च 2000 ।

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

आ० सतवंदी, अवर सचिव

संख्या 377, दिनांक 6 मई 2001—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा फौज

नायब सूबेदार (जे डी) के रैंक में

*हवलदार (1041331-एम अब जे० सी० 841053 एन) — 4 जनवरी, 2001 ।

*हवलदार चन्द्रशेखरन (10450330 पी अब जे० सी० 841059 डब्ल्यू) — 12 फरवरी, 2001 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता — 01 जनवरी, 2000) ।

**हवलदार दिनेश्वर सिंह (14658991 डब्ल्यू अब जे० सी०-841060 एल) — 13 फरवरी 2001 ।

**हवलदार मनोहर ताल (8323663 डब्ल्यू अब जे० सी०-841061 एल) — 19 जनवरी, 2001 ।

**हवलदार अजीत कुमार शर्मा (10242477-के अब जेसी-841062-डब्ल्यू) 27 जनवरी 2001 ।

**हवलदार रामलखन (8017438-के अब जेसी-841063-वाई) 17 जनवरी 2001 ।

**नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता — 01 नवम्बर 2000 ।

***हवलदार के बी वरधीस (2559421-पी अब जेसी 851064-एफ) 16 फरवरी 2001 ।

***हवलदार धरम राज द्विवेदी (1248428 के अब जेसी-841065-के) 29 जनवरी 2001 ।

***हवलदार जसादर नागप्पा (10419950-पी अब जेसी-841066-एम) 06 फरवरी 2001 ।

***(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता — 01 फरवरी 2001) ।

**** हवलदार हनुमन्त वैभवारी (10430859-ए अव जेसी-841067-पी) 17 फरवरी 2001।

**** नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता-01 जनवरी 2001।

***** हवलदार काल्लापरी (8013301-ए अव जेसी-841068-एफ) 20 फरवरी 2001।

***** हवलदार पी ए जीयफ (11107746-एफ अव जेसी-841069-ए)-07 मार्च 2001।

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता-01 फरवरी 2001)।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

***** हवलदार लिपिक रणिल सिंह (14213790-आई अव जे० सी०-841070-पी) 09 मार्च, 2001।

***** हवलदार लिपिक मनबीर सिंह (1449353-एव अव जे० सी०-841072-ए) 15 मार्च, 2001।

***** हवलदार लिपिक गजराज सिंह (8823627-एव अव जे० सी०-841071-एफ) 02 मार्च, 2001।

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता-13 जनवरी 2001)।

आर० एम० चौधरी
अवर सचिव

सं० 378, दिनांक 30 मार्च 2001 - राष्ट्रीय निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करने हेतु।

नियमित सेवा

अटा सेवा कर्मचारी

लेफ्टिनेंट से कप्तान

(इसमें एम० ई० एम०)

संख्या० एम० --

148 जेनोरे देमाई, ए० ओ० सी०

151 आर० तिपाठी, ए० ओ० सी०

153 रीता कुमारी, ए० ओ० सी०

154 एन० मस्तान, जैंग

156 अश्वेश दुआ, ए० ओ० सी०

157 सुनीता राता, जैंग

159 उमिला लैन, ए० एम० सी०

160 मिनी जोहान, ए० ई० सी०

162 एन० प्रसाद, जैंग

163 गोनी जीमफ, जैंग

164 पी० जी० तोरानी, ए० एम० सी०

166 सन्तोष कुमारी, ए० ई० सी० -09 मार्च 2001

149 मोनिका, इंजीनियर्स

155 एस० अम्बाल, ई० एम० ई०

165 सोनिया आनन्द, ई० एम० ई०

167 बी० अरुणमोहनी, इंजीनियर्स --09 मार्च 99

186 सुनीता अस्थाना, सिरस--24 अगस्त 99

202 एम० मार्कम, इंजीनियर्स

206 एन० दमल, ई० एम० ई०

211 आर० महारिषी, इंज नियर्स

212 एम० गर्मा, इंजीनियर्स 1 मार्च 2000

226 एम० भगवत, ई० एम० ई०

234 एन० लम्हू, ई० एम० ई०

238 पी० जे० प्रादन्था, इंज नियर्स

245 वार्ड० एम० महला, ई० एम०

248 टी० पी० प्रिया, इंजीनियर्स

255 ए० शैमला, ई० एम० ई० -05 फरवरी 2000

265 एम० विरधी, सिरस

275 जया रानी, इंज नियर्स -11 मार्च 2001

सत्या देव राय,

एम० ए० ए० आर०, एम० एम० 3 सी०

सं० 379, दिनांक 25 मार्च 2001 -- राष्ट्रीय सेवा अनुदेश 15/79 तथा उनमें किए गए संशोधन के अन्तर्गत राष्ट्रपति महर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करने हेतु --

नियमित सेवा

सैनिक दल अधिकारी आर०

(अल्पकालीन स्थायी कर्मचारी)

फ्लाइंग लेफ्टिनेंट से अर्द्ध माई, एन० एम० से

सचिकुमार एन (ई० एम०-1 911-ए) (दा० सं० 244735) 11-01-2000।

आर० वेंकटेश्वरी,

सिग्रेडियर

डी जे डी एम

सं० 380, दिनांक 29 मार्च, 2001 -- राष्ट्रीय निम्नलिखित पदोन्नति करने हेतु --

नियमित सेवा

स्थायी कर्मचारी

लेफ्टिनेंट कप्तान से कप्तान के मूल रकम

जे० एन० त्रिवाणा एन एम 44503-30202, आई, 01 जनवरी 1999।

जे० एम० वल्ल, आई सी-33303 आई, 01 जनवरी 1999
आर एन पांडे 44503-30202, एम० सी 01 जनवरी 1999
के० भट्टाचार्य आई सी-36495, आई 01 जनवरी 1999
पी० वी पांडे, आई पी-33519 आई 01 जनवरी 1999
बी० बी० अल्फांसो, आई सी-3670, ई० एम० ई०, 01 जनवरी 1999।

क० क० रावगोपा, आई सी-36021 आई, 01 जनवरी 1999
ए० एम राणाडे, आई सी-36094 आई 1/ जनवरी 1999
से लेफ्टिनेंट कप्तान 01 जनवरी 99 से अन्तःस्थापना का बिना प्रभावित किए।

गिरीश धवन आईसी-30740, मिशनल 01 जनवरी 1999
ए के सरकार आईसी-30806, एओसी 01 जनवरी 1999
एल एस मूर्ती आईसी-31300, ईएमसी 01 जनवरी 1999

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

जी० के० दा० (आईसी 31053) इंजीनियर 30 नवम्बर 1993।

स्वर्ण सिंह (आईसी 36577) इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

जी रवि कुमार (आईसी 37734) ई एम ई 01 जून 1998

एन बी प्रधान (आईसी 37174) मेकेनाइज्ड इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

बी सी कटोच (आईसी 37175) आर्म्ड कार 01 जून 1998

आर सी नि (आईसी 37177) मैन इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

आर एस सिद्धू (आईसी 37178) मैन इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

यू के चिंवर (आईसी 37179) इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

एस बनर्जी (आईसी 37181) आर्म्ड कार 01 जून 1998

के जे सिंह (आईसी 37183) ए ओ सी 01 जून 1998

सुरेश कुमार (आईसी 37184) इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

के पी एस राणा (आईसी 37187) इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

सतीश कुमार (आईसी 37188) आर्टी 01 जून 1998

बी एस साम्बपाल (आईसी 37189) इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

आर एस गार्ग (आईसी 37190) ए एस सी 01 जून 1998

एन अश्विनी (आईसी 37193) इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

गुप्ती सिंह (आईसी 37194) ए एस सी 01 जून 1998

कुलवीर सिंह (आईसी 37195) ए एस सी 01 जून 1998

ए डी पलान्डे (आईसी 37196) इन्फेन्ट्री 01 जून 1998

बी बी अत्रे (आईसी 37200) आर्म्ड कार 01 जून 1998

पी० एम० जेखावत (आईसी 37201) ए०एम०सी०

01 जून 1998।

के० सी० गंगा (आईसी 37202) इन्फेन्ट्री 01 जून

1998।

बी० के० टी० (आईसी 37203) इन्फेन्ट्री 01 जून

1998।

गंगा प्रसाद सिंह (आईसी 35235) ए०एम०सी०

01 जून 1998।

बी० कुमार (आईसी 35274) इन्फेन्ट्री 01 जून

1998।

एस० डो० रेडकर (आईसी 35278) इन्फेन्ट्री 01

जून 1998।

एस० एम० निन्हा

सी० एम० ओ०

डी० ए० एम० एम०-8ए

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 331, दिनांक 28 मई, 2001 राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी 'बी' को उनके नाम के मामले दर्शाए गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी सेवा में तकनीकी अधिकारी 'सी' के रूप में

चेतनमान सं० 0, 100-310-1, 211-1-1

नाम	स्थिति	दिनांक
श्री/श्रीमती/कु/टी/ए		
एम बी बारव	आर डी (उ), गुने	01-09-2000
करमपाल सिंह पात्र	वही	वही
एवी दीयोस्थले	वही	वही
ए के चटोपाध्याय	वही	वही
बी पी कुल देवठा	वही	वही
एम ए दुग्ग	वही	वही
त्रिज मोहन	वही	वही
कृष्णा कोहली	वही	वही
श्रीनिवास स्नि	वही	वही
प्रभाकर एन ई.	वही	वही
शेषाद्रि एम	वही	वही
सुन्दर मूर्ति एम	वही	वही
नरकार पी जी	वही	वही
वरगीम जार्ज	वही	वही
विजयन बी	वही	वही

निम्नलिखित तकनीकी अधिकारी 'ए' को उनके नाम के मामले दर्शाए गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी सेवा में 02 वर्ष का पर्याप्त विषय तकनीकी अधिकारी 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में चेतनमान सं० 80, 100-275-13500 पर

नाम	स्थिति	दिनांक
श्री/श्रीमती/कु/टी/ए		
एम एन गाकगड	आर डी (उ) गुने	01-09-2000
फेरो रोकी	वही	वही
बी जे शिन्दे	वही	वही
ए जी काबले	वही	वही
बी एस मोरे	वही	वही
आर एन उपाध्याय	वही	वही
बी एन बोराडे	वही	वही
जे आई काबले	वही	वही
बी बी अवाती	वही	वही
बी बी पवार	वही	वही
बी टी मेटे	वही	वही
एस एम कुलकर्णी	वही	वही
मविता चावला	वही	वही
श्याम किशोर सिंह	वही	वही
एम एस पी सिंह	वही	वही
सी बी भधुरा	वही	वही
एस सुकुमान	वही	वही
आर सी परीत	वही	वही
आर एस मिश्र	वही	वही
इक्वाल सिंह	वही	वही
नंतोष दास	वही	वही
महेश चन्द्र	वही	वही
हरिन्द्र नाथ	वही	वही
पूरण चन्द्र	वही	वही

निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी, हाथक को उनके नाम के मने वर्गीये गए दिनांक से रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी सेवा में तकनीकी अधिकारी "ए" (या "सी" राजपत्रित) के रूप में वेतनमान रु० 7450-225-11500 पर ---

नाम	स्थापना	दिनांक
श्री/श्रीमती/कुमारी/डा०		
सी एल वागमारे	आर डी ड (ड) पृने	1-9-2000
एस एस बगुल	-वही-	-वही-
वी एच मनी	-वही-	-वही-
ए जे गेक्वाड	-वही-	-वही-
बी एस महोलकर	-वही-	-वही-
चन्दन बोम	-वही-	-वही-
बी आर हिरवे	-वही-	-वही-
ए एम मुद्दलियार	-वही-	-वही-
बी एन अहीरे	-वही-	-वही-
आर आर पोलकमदार	-वही-	-वही-
आर जी गोहल	-वही-	-वही-
सी एम अघाले	-वही-	-वही-

जे के बडाला, समुक्त निदेशक (कार्मिक)

अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 382, दिनांक 25 मई 2001—निर्धारित अर्थात् 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निम्नलिखित अधिकारी, प्रत्येक के सामने दिनांक 25 मई 2001 को परकार से सेवा में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री एन वी श्रीरामाव, महा निदेशक अघि - 23-02-2001
(01-03-2001 से पेंशन स्थापना से स्थानांतरित)

श्री जी डी बत्रा, महा निदेशक अघि - 31-03-2001
(01-04-2001 से पेंशन स्थापना से स्थानांतरित)

श्री आई सी गोवर, महा निदेशक अघि - 30-04-2001
(01-05-2001 से पेंशन स्थापना से स्थानांतरित)

श्री पी सी शर्मा, महा निदेशक अघि - 30-04-2001
(01-05-2001 से पेंशन स्थापना से स्थानांतरित)

सन्तान दातृगुप्ता,

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा०)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं० 383, दिनांक 28 मई, 2001—राजेंद्र कुमार वैज्ञानिक 'सी' रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय, रु० आर० एवं आई० पी० आर० निदेशालय, नई दिल्ली का दिनांक 30-04-2001 (अपराजित) को स्वीकृत सेवा निवृत्ति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया है और वह दिनांक 01-05-2001 (पर्वीन्द्र) से पेंशन स्थापना से स्थानांतरित कर दिया गया है।

जे० के० खडवाल, समुक्त अधिकारी
(कार्मिक)

(धल सेना विभाग)

गद्विपत्र

सं० 334, तारीख 25 मई 01—07 अक्टूबर 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 841, तारीख 06 सितम्बर 2000 में शर्षक 'नियमित सेना' उपशर्षक 'कोर आफ इन्जिनियर्स' और मद्राम इन्जिनियर्स ग्रुप के अन्तर्गत नायब सूबेदार एम के टी डी रैक में के नीचे :-

* हवलदार एम के टी सि मन्गला सेवक (सं० 1376787 एच अब जेसी-306827 एल) 01 दिसम्बर 1999 के स्थान पर हवलदार एम के टी सि मन्गला सेवक (सं० 1376787 एच) अब जेसी-306827 एल) 01 अक्टूबर 1999 पढा जाए।

* नायब सूबेदार के रैक में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1999 से दी जायेगी।

07 अक्टूबर 2000 के भारत के राजपत्र सं० 41 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 481, तारीख 06 सितम्बर 2000 में शर्षक "नियमित सेना" उपशर्षक "कोर आफ इन्जिनियर्स" और बम्बई इन्जिनियर्स ग्रुप के अन्तर्गत।

सूबेदार कर्क (जी डी) महेंद्रपाल सिंह (जेसी-199991 एल) 01 जून 2000।

नायब सूबेदार (जी डी) नाथूराम मोरे (जे सी-347796 एल) 01 जून 2000।

सूबेदार मेजर (कर्क जी डी) के रैक में

पहले सूबेदार (कर्क जी डी) अन्नार सिंह (जे सी-199992 डब्ल्यू) 01 जून 2000।

अब सूबेदार (कर्क जी डी) अन्नार सिंह (जे सी-199992 डब्ल्यू) 01 जून 2000।

सूबेदार (जी डी) के रैक में

पहले नायब सूबेदार (जी डी) पदार रवीन्द्र भखाराम (जे सी-347737 आई) जुलाई 2000।

अब नायब सूबेदार (जी डी) पदार रवीन्द्र भखाराम (जे सी-327737 आई) 01 जुलाई 2000।

7 अक्टूबर 2000 के भारत के राजपत्र सं० 41 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 481, तारीख 6 सितम्बर 2000 में शर्षक "नियमित सेना" उपशर्षक "कोर आफ इन्जिनियर्स" और बम्बई इन्जिनियर्स ग्रुप के अन्तर्गत।

पहले सूबेदार मेजर (कर्क जी डी) के रैक में

अब सूबेदार मेजर (जी डी) के रैक में

पहले सूबेदार (डी) के रैक में

अब सूबेदार (जी डी) के रैक में

रवीन्द्र कुमार ओझा
उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi the 10th May 2001

No. 366 —The President is pleased to appoint of the following Assistants of CSS Cadre of Ministry of Defence as Section Officers on ad-hoc basis in this Division w.e.f. the date shown against their name.

Sl. No.. Name (S/Shri/Smt.), w.e.f.

1. Man Mohan Sharma—19-02-2001

2 V. K. Aggrawal—19-03-2001

NAVIN SOI

Dy. Financial Adviser(E)

OFFICE OF THE JOINT SECRETARY (TRG) AND
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER

No. 367, dated 25 May 2001—The President is pleased to appoint the undermentioned Assistant Civilian Staff Officer (Group 'B' Gazetted) in a substantive capacity in the Armed Forces Headquarters Civil Service with effect from the date shown against his name :-

Name (S/Shri) Date of Birth. Office, Date from which appointed in a substantive capacity

Pradeep Kumar 18-05-69 Air HQ, 23-12-2000

BC Bosh 21-12-69 DGNCC, 24-12-2000

Ajeet Singh Yadav 05-02-67 MS, 28-12-2000

Jitendra Kumar 24-12-69 AG, 28-12-2000

Hemantha Kumar Hem 02-11-68 DRDO, 23-12-2000

Harish Mohan 15-03-68 CAO, 23-12-2000

I. B. ARORA

Dy. Chief Administrative Officer (P-1)

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS BRANCH

No. 368, dated 29th May 2001—The President is pleased to make the following appointment :

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Sadihu Singh (JC-754515A), 30 May 1999.

Nityanand Mishra (JC-754517L), 31 Jul 1999.

Ved Prakash Tiwari (JC-754518N), 31 Jul 1999.

Bhuvan Chandra Pandey (JC-755288K), 22 Jul 2000.

T. C. JAIN

Dy. Secy.

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGN.

No. 369, dated 28th May 2001—The President is pleased to make the following appointments :-

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES

The undermentioned individual (s) to be temporary Scientist 'B' (Gazetted Group 'A') on probation for a period of two years in the Establishment and with effect from the dates shown against their names in the pay scale of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/- (pre-revised pay scale).

Name, Estt., Date

JV Satyanarayana Research Centre Imarat, Hyderabad, 03-8-96.

" The undermentioned individual (s) to be temporary Scientist 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the scale of Rs. 8600-275-13500 :-

Name, Estt., Date

Shri Srikanth M GTRE, Bangalore. 17-02-2000.

Shri Gunasekaran G NMRL, Mumbai, 15-06-1998.

Shri B Ramakrishna Rao NMRL, Mumbai, 01-10-1999.

Having qualified in the Limited Departmental Examination, 1999 held in terms of Rule 8 (a) of the DRDS Rules 1979, the undermentioned individual (s) to be Scientist (s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research & Development Service on probation for a period of two years with effect from the dates shown against their name in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/- :-

Name & Present Grade, Estt Lab, Date

Shri NK Gupta To-A Lastec, Delhi, 31-12-1999.

J. K. KHADWAL

Jt. Dir. (Pers.)

NAVY BRANCH

No. 370 dated 24th May 2001—The President is pleased to make the following appointment in the Engineering Branch of the Indian Navy under Direct Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1822/DES/2028/DO(P)/D(N-II) dated 30th September, 1998 from the date shown against his name :-

To be Sub Lt (on probation)

Direct Entry Scheme (Engineering Branch)

Name, Personal Number, Type of Commission & Date of Commission

Sub Lt Pankaj Srivastava (41982-N), SSC, 31-08-97.

KUMAR PARITOSH

Commander

DDMPR (R&R-II)

For Chief of the Naval Staff

(AIR BRANCH)

No. 371, dated 25th May 2001—The President is pleased to grant Branch Commission to the undermentioned of No. 14 TBCC, under the Provision of para of AFI 30/74 as amended vide AFI 6/81 10/81 and 4/82.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Ex-Airmen Cadet to be Flying Officer with two years

Ante date for purpose of pay only

659286 W O SD Singh (25057) w.e.f. 24 April 98.

S. V. KUTE

Sqn Ldr

ADPO-3(D)

(FINANCE DIVISION)

No. 372, dated 16th May 2001—The President is pleased to continue the regular pay of the following Grade 'C' Stenographers born on the 1st day of the month of Defence as Private Secretaries to the President of the Finance Division for a further period commencing from the date of their name as until further orders whichever is earlier.

Name (S/Shri/Smt.) From To

Suman Tangle 01-01-2001—30-06-2001.

Rajbir Singh 01-01-2001—30-06-2001.

NAVIN SOR

Dy. Financial Adviser (F)

ARMY BRANCH

No. 373, dated 24th May 2001—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

THE PUNJAB REGIMENT

(To be Subedar Major Clerks)

Sub Cik Joginder Singh (JC-428088Y), 01 Apr 2000.

Sub Cik Paramjit Singh Pannu (JC-428002P), 07 Jun 2000.

(To be Subedar Major)

Sub Gurnam Singh (JC-180836X), 01 Jun 2000.

Sub Nasib Singh (JC-212834F), 01 Aug 2000.

Sub Jagdish Chand (JC-195827A), 01 Aug 2000.

Sub Satnam Singh (JC-174911A), 01 Sep 2000.

Sub Pargat Singh (JC-203628X), 01 Oct 2000.

Sub Dilbag Singh (JC-178440P), 01 Nov 2000.

Sub Jaspal Singh (JC-192522H), 01 Nov 2000.

Sub Darbara Singh (JC-428127M), 01 Jan 2001.

Sub Amrik Singh (JC-192856X), 01 Feb 2001.

(To be Subedar Clerks)

Nb Sub Cik Kashmit Singh Pathania (JC-428510L), 10 Mar 2000.

Nb Sub Cik Subh Eran (JC-428512W), 01 Apr 2000.

Nb Sub Cik Sucha Singh (JC-428521X), 07 Jun 2000.

Nb Sub Cik Surinder Kumar (JC-428522A), 01 Aug 2000.

Nb Sub Cik Yash Pal Kapoor (JC-428523H), 01 Aug 2000.

Nb Sub Cik Parmar Chand Sharma (JC-428524L), 01 Oct 2000.

Nb Sub Cik Mehar Singh Rana (JC-428525N), 01 Oct 2000.

Nb Sub Cik Prem Chand Sharma (JC-428537H), 01 Dec 2000.

(To be Subedar)

Nb Sub Surjit Singh (JC-428498P), 22 Dec 1999.

Nb Sub Yash Paul Singh (JC-428214A), 22 Dec 1999.

Nb Sub Harpal Singh (JC-428753W), 22 Dec 1999.

Nb Sub Gursantokh Singh (JC-428564M), 22 Dec 1999.

Nb Sub Gurdev Singh (JC-428667L), 01 Apr 2000.

Nb Sub Joginder Singh (JC-428283W), 28 Apr 2000.

Nb Sub Charan Singh (JC-428533M), 21 May 2000.

Nb Sub Karamjit Singh (JC-428334X), 01 Jun 2000.

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-428690Y), 01 Jun 2000.

Nb Sub Narinder Singh (JC-428356X), 01 Aug 2000.

Nb Sub Kashmir Singh (JC-428474L), 01 Aug 2000.

Nb Sub Joginder Singh (JC-428535X), 01 Aug 2000.

Nb Sub Ram Chand Verma (JC-428636L), 01 Aug 2000.

Nb Sub Gharu Ram (JC-428522L), 23 Aug 2000.

Nb Sub Kulbir Singh (JC-428335N), 01 Sep 2000.

Nb Sub Ashok Kumar (JC-428544Y), 01 Sep 2000.

Nb Sub Sulakhan Singh (JC-428530Y), 01 Sep 2000.

Nb Sub Dhian Singh (JC-428553A), 01 Sep 2000.

Nb Sub Chint Ram (JC-428582P), 01 Sep 2000.

Nb Sub Boota Ram (JC-428585H), 01 Sep 2000.

Nb Sub Manohar Lal (JC-428608Y), 01 Sep 2000.

Nb Sub Shakti Singh (JC-428635H), 01 Sep 2000.

Nb Sub Lal Singh Chib (JC-428692K), 24 Sep 2000.

Nb Sub Gurtej Singh (JC-428391A), 01 Oct 2000.

Nb Sub Gurmait Singh (JC-428451K), 01 Oct 2000.

Nb Sub Gurmait Singh Sidhu (JC-428513Y), 01 Oct 2000.

Nb Sub Palwinder Singh (JC-428598A), 01 Oct 2000.

Nb Sub Randhir Singh (JC-428697H), 01 Dec 2000.

Nb Sub Tarlok Singh (JC-428551P), 01 Dec 2000.

Nb Sub Swinder Singh (JC-428415Y), 01 Jan 2001.

Nb Sub Darshan Singh (JC-428418M), 01 Jan 2001.

Nb Sub Jaldhir Singh (JC-428578M), 01 Jan 2001.

Infantry

The Madras Regiment

To be Sub

Nb Sub M Venkatesan (JC-438033H), 1st Oct 1998.

Nb Sub Raja K (JC-438048L), 1st July 1999.

Nb Sub K Pachaiappan (JC-438050H), 1st Jul 1999.

Nb Sub A Asokan (JC-438121Y), 1st Aug 1999.

Nb Sub M Pavadai Samy (JC-438123K), 1st Sep 1999.

Nb Sub Shivanand Ullegaddi (JC-438125P), 1st Sep 1999.

Nb Sub P Bhargavan Pillai (JC-438127A), 1st Jan 2000.

Nb Sub Subbu Raj PA (JC-438138M), 1st Jan 2000.

Nb Sub M Mohan (JC-438161A), 1st Jan 2000.

Nb Sub N Basheer (JC-438222M), 1st Jan 2000.

Nb Sub Ganesan T (JC-438241X), 1st Jan 2000.

Nb Sub S Natarajan (JC-438250Y), 1st Jan 2000.

Nb Sub P Adiyapathnam (JC-438251F), 1st Jan 2000.

Nb Sub C Annadurai (JC-438252K), 1st Jan 2000.

Nb Sub Kervan G (JC-438253M), 1st Jan 2000.

Nb Sub Ramanna Tolamotti (JC-438254P), 20th Jan 2000.

Nb Sub Hoshai Singh (JC-468470X), 26 Jul 2000.
 Nb Sub Bijender Singh (JC-468533P), 01 Aug 2000.
 Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-468534X), 01 Aug 2000.
 Nb Sub Rakam Pal Singh (JC-468554L), 12 Sep 2000.

The Bihar Regiment

To be Subedar Major (GD)

Subedar Sri Chuan Tarai (JC-183068M), 13th September 1999.

Subedar Krishna Chandra Jaguri (JC-204169W), 19th January 2000.

Subedar Puran Chand Champia (JC-178069L), 19th January 2000.

Subedar Sahadeo Oraon (JC-179436Y), 19th January 2000.

Subedar Narayana Jena (JC-176396X), 18th February 2000.

Subedar Parasnath Ram (JC-188404X), 10th March 2000.

Subedar Philip Kongari (JC-163704N), 10th March 2000.

Subedar Kailash Chandra Rout (JC-184441N), 10th March 2000.

Subedar Shri Ram Yadava (JC-196596P), 23rd May 2000.

Subedar Tarcisius Kerketta (JC-221039K), 23rd May 2000.

Subedar Gobinda Chandra Das (JC-222768Y), 23rd May 2000.

Subedar Magistar Singh, SM (JC-188402M), 23rd May 2000.

Subedar Chaitanya Rout (JC-202063L), 1st June 2000.

8 GR

To be Sub Maj

Sub Prem Bahadur Thapa (JC-180817A), 01st May 2000.

Sub Lok Bahadur Gurung (JC-185574W), 01st Jul 2000.

Sub Prem Bahadur Gurung (JC-178333N), 01st Oct 2000.

Sub Suk Bahadur Gurung (JC-180819Y), 01st Oct 2000.

To be Sub

Nb Sub Tik Ras Pun (JC-623198N), 01st Jan 2000.

Nb Sub Ganesh Bahadur Thapa (JC-623210K), 01st Feb 2000.

Nb Sub Nim Bahadur Magar (JC-623188K), 01st Jun 2000.

Nb Sub Omkar Gurung (JC-623189M), 01st Jul 2000.

Nb Sub Anil Kumar Thapa (JC-623190F), 01st Aug 2000.

Nb Sub Indra Man Gurung (JC-623219Y), 01st Aug 2000.

Nb Sub Gika Ran Rana (JC-623215H), 01st Sep 2000.

Nb Sub Prem Bahadur Roka (JC-623216L), 01st Sep 2000.

Nb Sub Surya Bahadur Gurung (JC-623191K), 01st Sep 2000.

Nb Sub Yam Bahadur Gurung (JC-623235W), 01st Oct 2000.

Nb Sub Man Bahadur Gurung (JC-623244X), 01st Nov 2000.

To be Sub (Cik)

Nb Sub (Cik) Sukhdev Kumar Thapa (JC-623129X), 01st Oct 2000.

Nb Sub (Cik) Ram Darash Yadav (JC-623217N), 01st Dec 2000.

The Kumaon Regiment

To be Subedar

Nb Sub Kundan Singh (JC-538316Y), 23 Dec 2000.

Nb Sub Ved Pal Singh (JC-538607Y), 18 Jan 2000.

Nb Sub Narayan Singh (JC-538282W), 31 Oct 2000.

Nb Sub Lakhmi Chand (JC-538494F), 14 Nov 2000.

Nb Sub Mahabir Singh (JC-538495K), 14 Nov 2000.

Nb Sub Trilok Singh (JC-538369X), 01 Jul 2000.

Nb Sub Dan Singh (JC-538417M), 13 Sep 2000.

Nb Sub Nandan Singh (JC-538419X), 14 Oct 2000.

Nb Sub Prahlad Singh (JC-538580P), 02 Nov 2000.

Nb Sub Prem Giri (JC-538370M), 11 Nov 2000.

Nb Sub Bhim Singh (JC-538486H), 01 Dec 2000.

Nb Sub Manohar Lal Yadav (JC-538558F), 26 Feb 2001.

Nb Sub Prakash Singh (JC-538491N), 18 Aug 2000.

To be Subedar Clerk

Nb Sub Cik Urba Datt (JC-538542W), 23 Oct 2000.

Nb Sub Cik Narain Singh Deopa (JC-538545K), 05 Jul 2000.

Nb Sub Cik Ravi Shankar Joshi (JC-538546M), 22 Aug 2000.

Nb Sub Cik Indra Singh (JC-538547P), 01 Aug 2000.

Nb Sub Cik Rajinder Prashad (JC-538550P), 01 Sep 2000.

Nb Sub Cik Manohar Datt (JC-538568L), 19 Sep 2000.

Nb Sub Cik Bhag Singh Mehra (JC-538569N), 01 Jun 2001.

The Naga Regiment

Nb Sub T Athram (JC-590039N), 28 Oct 2000.

Nb Sub Khasi Sangtam (JC-590045F), 08 Dec 2000.

Nb Sub Hevito Sema (JC-590025N), 12 Nov 2000.

Nb Sub C Chingman (JC-590041L), 01 Feb 2001.

The Sikh Regiment

To be Subedars

Nb Sub Surjeet Singh (JC-498340K), 02 Jan 2000.

Nb Sub Satnam Singh (JC-498242K), 30 Jan 2000.

Nb Sub Balkar Singh (JC-498298W), 01 Feb 2000.

Nb Sub Gurdial Singh (JC-498290K), 01 Feb 2000.

Nb Sub Mehair Sing (JC-498306K), 01 Feb 2000.

Nb Sub Jasmail Singh (JC-498366Y), 01 Feb 2000.

Nb Sub Avinas Singh (JC-498403F), 01 Feb 2000.

Nb Sub Balwinder Singh (JC-498463W), 01 Feb 2000.

Nb Sub Lakhbir Singh (JC-498466K), 01 Feb 2000.

Nb Sub Baldev Singh (JC-498257M), 01 Mar 2000.

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-498277A), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Tarsem Singh (JC-498301L), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Satpal Singh (JC-498311P), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Gurmej Singh (JC-498307F), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Sardul Singh (JC-498324M), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Sukhdev Singh (JC-498343W), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Karnail Singh (JC-498365W), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Baldev Singh (JC-498404K), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Kulmeet Singh (JC-498422M), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Jaswant Singh (JC-498409L), 01 Mar 2000.
 Nb Sub Kupal Singh (JC-498352Y), 06 Mar 2000.
 Nb Sub Seva Singh (JC-498281A), 01 Apr 2000.
 Nb Sub Raj Singh (JC-498288M), 01 Apr 2000.
 Nb Sub Jaswinder Singh (JC-498310M), 01 Apr 2000.
 Nb Sub Hardev Singh (JC-498331F), 01 Apr 2000.
 Nb Sub Gulzar Singh (JC-498490A), 01 Apr 2000.
 Nb Sub Dalip Singh (JC-498371L), 09 Apr 2000.
 Nb Sub Manjit Singh (JC-498315L), 05 May 2000.
 Nb Sub Sukhdev Singh (JC-498282L), 01 Jun 2000.
 Nb Sub Kartar Singh (JC-498326X), 01 Jun 2000.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-498387P), 01 Jun 2000.
 Nb Sub Satpal Singh (JC-498399K), 01 Jun 2000.
 Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-498180P), 06 Jun 2000.
 Nb Sub Amarjit Singh (JC-498209M), 01 Jul 2000.
 Nb Sub Sulakhan Singh (JC-498364N), 01 Jul 2000.
 Nb Sub Surjit Singh (JC-498423P), 01 Jul 2000.
 Nb Sub Daljit Singh (JC-498471P), 01 Jul 2000.
 Nb Sub Didar Singh (JC-498583P), 01 Jul 2000.
 Nb Sub Lal Singh (JC-498363L), 15 Jul 2000.
 Nb Sub Lakhvir Singh (JC-498147X), 01 Aug 2000.
 Nb Sub Gurnam Singh (JC-498349Y), 01 Aug 2000.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-498418K), 01 Aug 2000.
 Nb Sub Tarlochan Singh (JC-498363P), 01 Aug 2000.
 Nb Sub Sher Singh (JC-498441X), 08 Aug 2000.
 Nb Sub Shuker Singh (JC-498276X), 10 Aug 2000.
 Nb Sub Harbhajan Singh (JC-498484M), 10 Aug 2000.
 Nb Sub Devinder Singh (JC-498384X), 20 Aug 2000.
 Nb Sub Sampuran Singh (JC-498299Y), 01 Sep 2000.
 Nb Sub Gurmail Singh (JC-498353F), 01 Sep 2000.
 Nb Sub Gurbachan Singh (JC-498369M), 01 Sep 2000.
 Nb Sub Kamal Singh (JC-498370F), 01 Sep 2000.
 Nb Sub Gurdev Singh (JC-498436H), 01 Sep 2000.
 Nb Sub Surjit Singh (JC-498472X), 01 Sep 2000.
 Nb Sub Amarjit Singh (JC-498401W), 03 Sep 2000.
 Nb Sub Agogarh Singh (JC-498405M), 03 Sep 2000.
 Nb Sub Anand Sarup Singh (JC-498288X), 09 Sep 2000.
 Nb Sub Harchand Singh (JC-498598X), 11 Sep 2000.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-498657Y), 11 Sep 2000.
 Nb Sub Sukhdev Singh (JC-498267W), 01 Oct 2000.

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-498453M), 01 Oct 2000.
 Nb Sub Manohar Singh (JC-498271L), 22 Oct 2000.
 Nb Sub Nimal Singh (JC-4987251P), 13 Nov 2000.
 Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-498278H), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Hardeep Singh (JC-498504F), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Bhajan Singh (JC-398512N), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Daljit Singh (JC-498244P), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Sarup Singh (JC-498110W), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Sajjan Singh (498283N), (1 Jan 2000).
 Nb Sub Amrik Singh (JC-498284W), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Nirajan Singh (JC-498424X), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Sunder Singh (JC-212624F), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Balvinder Singh (JC-498192Y), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Narinder Singh (JC-498184I), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Makhn Singh (JC-212625L), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Uttam Singh (JC-498111Y), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Jaswant Singh (JC-498227P), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Baljinder Singh (JC-498184N), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Jaswant Singh (498112F), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Jaswinder Singh (JC-498204A), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Jaswant Singh (JC-498318Y), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-498425H), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Dilbag Singh (JC-498122L), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Trilochan Singh (JC-498153W), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Gurdeep Singh (JC-498264H), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Harbans Singh (JC-498106M), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Iqbal Singh (C-498198L), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Amrik Singh (JC-498116X), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Dalip Singh (JC-498236N), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Jiwan Singh (JC-498296L), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Anup Singh (JC-498129P), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Surinder Singh (JC-498424A), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Karnail Singh (JC-498237V), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-498384F), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Joginder Singh (JC-498070A), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Satvir Singh (JC-498186W), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-498294P), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Labh Singh (JC-498427L), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Jasbir Singh (JC-498015K), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Bal Singh (JC-498206Y), (1 Jan 2000).
 Nb Sub Ajit Singh (JC-498238F), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Anup Singh (JC-498253W), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Swinder Singh (JC-498455C), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Baldev Singh (JC-498239F), 02 Jan 2000.
 Nb Sub Avtar Singh (JC-498367K), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Harbhajan Singh (JC-498241F), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Surinder Singh (JC-498232A), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Sukhwant Singh (JC-498253K), 01 Jan 2000.

To be Subedar Major

Nb Sub Sub Singh (JC 160917W) 01 Feb 1998

To be Subedars

Nb Sub Jiswant Singh (JC 220204X) 21 Aug 1997

Nb Sub Bachan Singh (JC 201043L), 01 Jan 1998

Nb Sub Harbhajan Singh (JC 2165521), 01 Jan 1998

Nb Sub S Dombro (JC 201939M) 01 Jan 1998

Nb Sub Ajit Singh (JC 220193W) 01 Mar 1998

Nb Sub Amrik Singh (JC-198112Y) 01 Jun 1999

Nb Sub Swaran Singh (JC-220750K), 01 Jun 1999

Nb Sub Niranjan Singh (JC-498260M), 01 Jul 1999

Nb Sub Bhat Singh (JC 198101H) 01 Jan 2000

Nb Sub Sucha Singh (JC 498105I) 01 Jan 2000

Nb Sub Jagu Singh (JC 498115P) 01 Jan 2000

Nb Sub Kailash Singh (JC 225523P) 01 Jun 2000

Nb Sub Heer Singh (JC 228261I) 01 Jan 2000

Nb Sub Tej Singh (JC 215829W), 01 Jan 2000

Nb Sub Gurbachan Singh (JC 498312W) 01 Jan 2000

Nb Sub Baor Singh (JC 498109I) 01 Jan 2000

Nb Sub Laksh Singh (JC 198154N) 01 Jan 2000

Nb Sub Preet Singh (JC 198173Y) 01 Jan 2000

Nb Sub Motan Singh (JC 498303W), 01 Jan 2000

Nb Sub Lailok Singh (JC 498138I) 01 Jan 2000

Nb Sub Manzil Singh (JC 498139K) 01 Jan 2000

Nb Sub Kashim Singh (JC 498190Y) 01 Jan 2000

Nb Sub Jitendra Singh (JC-498215A) 01 Jan 2000

Nb Sub Budh Singh (JC-498235N) 01 Jan 2000

Nb Sub Anub Singh (JC 498169W) 01 Jan 2000

Nb Sub Bakht Singh (JC 498074W) 01 Jan 2000

Nb Sub Jagjit Singh (JC-498386M), 01 Jan 2000

Nb Sub Gurmeet Singh (JC 498388X), 01 Jan 2000

Nb Sub Baldev Singh (JC-498392A), 01 Jan 2000

Nb Sub Amar Singh (JC 498243M), 01 Jan 2000

Nb Sub Surjit Singh (JC 498293X), 01 Jan 2000

To be Subedar Major Clerk

Nb Sub Clk Amarjit Singh (JC-181853K) 01 Mar 1998

To be Subedar Clerk

Nb Sub Clk Kesham Singh (JC-220996Y) 01 Dec 1997

Nb Sub Clk Shiv Kumar (JC-498337K), 01 May 2000

Nb Sub Clk Raj Bahadur Dhaka (JC 498339P), 01 Aug 2000

Nb Sub Clk Ganesh Kumar (JC 498347N), 01 Oct 2000

Nb Sub Clk Jagmohan (JC 498354K), 01 Oct 2000

Nb Sub Clk Nand Lal (JC 498356P), 01 Nov 2000.

Nb Sub Clk Ranpat Singh (JC 48360X), 01 Dec 2000

TAK II

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub (Clk) Madan Lal Choudhary (JC 592321X), 01 Dec 2000

Nb Sub (Clk) Lachman Singh (JC 592322Y) 01 Mar 2001

Nb Sub (Clk) Devinder Chander Singh (JC 592323H), 01 Apr 2001

Nb Sub (Clk) Jeebh Raj Thakur (JC 592324I) 01 Apr 2001

Nb Sub (Clk) Kuldip Singh Bhatia (JC 592325J) 01 Apr 2001

Nb Sub (Clk) Balwinder Singh (JC 592326K) 01 Apr 2001

To be Substantive Subedar Major (GrD)

Sub Bhai Singh (JC 592327L) 01 Apr 2001

Sub Madan Lal (JC-1/592328M) 01 Apr 2001

Sub Preet Singh (JC 163354D) 01 Apr 2001

Sub Rattan Lal (JC 163355E) 01 Apr 2001

Sub Sat Pal (JC 1/264946) 01 Apr 2001

Sub Sat Pal (JC 212776K) 01 Apr 2001

Sub Abdul Subhan (JC 1/277777L) 01 Apr 2001

Sub Jeebh Raj (JC 1/277778M) 01 Apr 2001

To be Substantive Subedar Major (GrD)

Nb Sub Ram Lal (JC 592329N) 01 Apr 2001

Nb Sub Anand Singh (JC 592330O) 01 Apr 2001

To be Substantive Subedar Major (GrD)

Sub Rishi Singh (JC 163550M) 01 Apr 2001

Sub Tulik Raj (JC 163551N) 01 Apr 2001

Sub Mohd Khidai (JC 163552O) 01 Apr 2001

Sub Chano Ram (JC 173553P) 01 Apr 2001

Sub Surinder Singh (JC 190725I) 01 Mar 2000

Sub Rattan Singh SM (JC-163554K) 01 Apr 2001

Sub Palak Ram (JC 203555Y) 01 Apr 2001

Sub D. B. Singh (JC 198567I) 01 Apr 2000

Sub Nand Singh (JC 198568H) 01 Apr 2000

Sub Bilwant Singh Vrc (JC 203556Y) 01 Sep 2000

Sub Swarn Lal (JC 205722A) 01 Sep 2000

Sub Romesh Chander (JC 199211I) 01 Nov 2000

Sub Anil Ram (JC 193911P) 01 Nov 2000

Sub Surjan Singh Kotsal (JC 197721X) 01 Nov 2000

To be Substantive Subedar Major (Clerk) (GrD)

Sub (Clk) Mohd Yousof Hameed (JC 19097X) 15 Jan 2000

Sub (Clk) Gaur Chand Sharma (JC 211368M) 15 Mar 2000

Sub (Clk) Jagdish Chandra Sharma (JC 224307N) 01 Apr 2001

Sub (Clk) Ali Mohammad Khan (JC 221306L) 01 Apr 2001

To be Sub Maj

Sub Anurudh Singh (JC-183428X), 1st Aug 2000.
 Sub Mohinder Singh (JC-169163N), 25th Dec 2000.
 Sub Anop Singh (JC-205111I), 1st Jan 2001.
 Sub Brahm Prakash Dubey (JC-208066P), 1st Jan 2001.
 Sub Shish Ram Awana (JC-180736M), 1st Mar 2001.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Dadhichi Rai (JC-478318X), 1st Jan 2001.
 Nb Sub Clk Jai Ram Singh (JC-478326W), 1st Jan 2001.
 Nb Sub Clk Gir Raj Singh (JC-478355I), 1st Feb 2001.

To be Sub

Nb Sub Ram Hari Verma (JC-478431M), 1st Jun 2000.
 Nb Sub Suresh Chand (JC-478075X), 1st Aug 2000.
 Nb Sub Shri Pal Singh (JC-478511K), 1st Sep 2000.
 Nb Sub Hazari Lal (JC-478452H), 1st Nov 2000.
 Nb Sub Jaya Prakash (JC-478501N), 1st Nov 2000.
 Nb Sub Puran Singh (JC-478596L), 1st Nov 2000.
 Nb Sub Suresh Kumar (JC-478257L), 1st Jan 2001.
 Nb Sub Babu Lal Gurjar (JC-478628H), 29th Jan 2001.
 Nb Sub Brij Kishor (JC-478336A), 1st Feb 2001.
 Nb Sub Rakesh Kumar Singh (JC-478483H), 1st Feb 2001.

LIVAKAR
 Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS & MECHANICAL ENGR
BRANCH

No. 374, dated 30th May 2001.—The President is pleased to make the following promotion:—

HAV TO BE NB SUB CLK (GD)

Hathi Singh (14549340L now JC-755419X), 01 Feb 2001.
 Nani Gopal Deb (14549631I now JC-755422X), 01 Feb 2001.
 Jai Chand (14549656X now JC-755620H), 01 Feb 2001.
 Satpal (14548969K now JC-755417M), 01 Jan 2001.
 Susanta Kumar Das (14549290L now JC-755421P), 01 Feb 2001.
 Ram Pal (14549648Y now JC-755423A), 12 Feb 2001/01 Feb 2000.
 Jagdeep (14549663N now JC-755624Y), 01 Mar 2001.
 Mahavir Singh (14549681W now JC-755627M), 01 Mar 2001.

HAV TO BE NB SUB SKT

Keshav Dutt (14544017A now JC-755349E), 01 Jan 2001.

Alak Deb Choudhury (14543180A now JC-755426N), 01 Feb 2001.

Sampat Singh Rathore (14539575K now JC-755345N), 01 Dec 2000/01 Nov 2000.*

Subrata Kumar Nayak (14541203J now JC-755416K), 01 Dec 2000.

Sebastian Thomas (14543025Y now JC-755418P), 12 Feb 2001/01 Jan 2001.*

Kulendra Singha (14543179I now JC-755425I), 01 Feb 2001.

K Vinod (14543121N now JC-755628P), 26 Feb 2001/01 Jan 2001.

Sai Nath (14543129A now JC-755351F), 17 Jan 2001/01 Jan 2001.*

HAV TO BE NB SUB ARMOR

Mahesh Chandra (14538666I now JC-755294L), 27 Jan 2001/01 Nov 2000.*

S Palani Chamy (14538903A now JC-755295N), 10 Feb 2001/01 Nov 2000.*

K Soman (14525550M now JC-755367M), 01 Nov 2000/07 Oct 2000.*

Rajendra Singh (14539203Y now JC-755369X), 01 Dec 2000.

Babuji PP (14538422N now JC-755368P), 01 Nov 2000.

HAV TO BE NB SUB (MV)

Ram Sain (14524033H now JC-755292A), 01 Dec 2000.

HAV TO BE NB SUB ELECT (MV)

Ram Praveesh Singh (14523721P now JC-755293A), 01 Nov 2000.

HAV TO BE NB SUB PCM (GCE)

Gaikwad Raghu Pandurang (14548290Y now JC-755436X), 07 Feb 2001/01 Jan 2001.*

HAV TO BE NB SUB WELDER

Bikalpa Maitra (14522412A now JC-755437A), 01 Feb 2001/01 Dec 2000.*

HAV TO BE NB SUB UPHOL

Bahadur Singh (14526104X now JC-755371P), 01 Feb/01 Dec 2000.*

Baleshwar Dayal (14526467F now JC-755439L), 01 Jan 2001.

HAV TO BE NB SUB L/MAKER

Prem Lal Verma (14527666F now JC-755322M), 08 Jan 2001/11 Dec 2000.*

HAV TO BE NB SUB REFG/MECH

Vema Raju Sesham Raju (14585099X now JC-755438H), 01 Jan 2001.

To be Sub Maj Technical

Sub Susai Kulandai Raj (JC-184188A), 01 Dec 2000.

Sub Birdhilar Suman (JC-182319Y), 19 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Sub Sucha Singh (JC-182395L), 01 Dec 2000.

Sub Darbari Lal (JC-184175A), 06 Nov 2000/01 Nov 2000.*

Sub Chandra Sekharia (JC-182315H), 01 Dec 2000
 Sub Kaly Kumar (JC-181621H), 13 Nov 2000/01 Sep 2000.*
 Sub Subodh Kumar Singh (JC-182325M), 16 Oct 2000/01 Oct 2000.
 Sub Shiv Pratap Singh Bhadouria (JC-181118N), 23 Oct 2000/01 Sep 2000.*
 Sub Shail Lal (JC-181462Y), 26 Dec 2000/01 Mar 2000.*
 Sub Subbal Hussain Ansari (JC-189289P), 08 Jan 2001/01 Dec 2000.
 Sub Sunappa (JC-182409A), 30 Dec 2000/01 Dec 2000.
 Sub Shaddev Singh Bisht (JC-181621Y), 02 Jan 2001/01 Oct 2000.

To be Sub Maj Ck (GD)

Sub Subpal Singh (JC-218758X), 03 Nov 2000/01 Oct 2000.*
 Sub Sub Bora (JC-215090N), 01 Dec 2000.

To be Sub Maj SKT

Sub Sub Raman (JC-217219P), 09 Dec 2000/01 Oct 2000.*

To be Sub Maj ARMR

Sub Subyam Bihari Singh (JC-747243H), 01 Dec 2000.
 Sub Subdayanand Rai (JC-747554W), 01 Jan 2001.

To be Subedar Technical

Nb Sub Balbir Singh (JC-750025P), 01 Oct 2000.
 Nb Sub Bhupendra Vir Singh (JC-749999F), 01 Oct 2000.
 Nb Sub Jai Prakash Yadav (JC-750061A), 23 Dec 2000/01 Nov 2000.*
 Nb Sub Vijayan Pillai K (JC-750072M), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Ram Dhami (JC-750043X), 18 Nov 2000/01 Nov 2000.*
 Nb Sub Sher Singh Verma (JC-749895A), 03 Dec 2000/01 Aug 2000.*
 Nb Sub Shri Vithal Runjayi Mothe (JC-749489A), 01 Nov 2000/01 Oct 2000.*
 Nb Sub Jonardhan Kumar Paul (JC-750064N), 01 Nov 2000.
 Nb Sub Kailash Ch Mohanty (JC-750085K), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Muhammed Ali A (JC-750073P), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Jaglal Prasad (JC-750047N), 16 Nov 2000/01 Nov 2000.*
 Nb Sub Pradip Kumar Rathore (JC-749925H), 01 Nov 2000.
 Nb Sub Prem Pal (JC-750060X), 01 Nov 2000.
 Nb Sub Gorelal (JC-750075A), 04 Dec 2000/01 Dec 2000.*
 Nb Sub Mohandas MG (JC-750314K), 13 Nov 2000/01 Nov 2000.*
 Nb Sub Vijay Kumar Gurung (JC-751161X), 29 Nov 2000/01 Nov 2000.*
 Nb Sub Durga Pado Hazra (JC-750059H), 06 Nov 2000/01 Nov 2000.*
 Nb Sub Ram Prasad Tiwari (JC-749490P), 01 Dec 2000.

Nb Sub Lakshmi Prakash Rao (JC-750080L), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Om Prakash Nagar (JC-719739W), 01 Nov 2000.
 Nb Sub Kumar Gopal Mishra (JC-749833A), 01 Jan 2000.
 Nb Sub Dilip Kumar Das (JC-749912K), 01 Sep 2000.
 Nb Sub Tala Ram Pal (JC-750036F), 05 Nov 2000/01 Nov 2000.*
 Nb Sub Rameshwar MP (JC-750030P), 02 Nov 2000/01 Nov 2000.
 Nb Sub Suraj Prakash (JC-750033N), 30 Oct 2000/01 Oct 2000.*
 Nb Sub Raj Kumar Khandwal (JC-750032L), 16 Nov 2000/01 Oct 2000.*
 Nb Sub Dan Singh (JC-750071K), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Hakke Jaising Ram Bhau (JC-749558L), 01 Nov 2000.*
 Nb Sub Vaighave KM (JC-750078N), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Pravakar Patkaraya (JC-749485K), 01 Sep 2000.
 Nb Sub Kulwant Singh (JC-750019F), 18 Oct 2000/01 Oct 2000.*
 Nb Sub Rabindra Nath Mini (JC-749393X), 01 Oct 2000/01 Aug 2000.*
 Nb Sub Ram Naresh Singh (JC-749957P), 19 Oct 2000/01 Oct 2000.*
 Nb Sub Venkatesh S (JC-749958P), 18 Oct 2000/01 Sep 2000.*
 Nb Sub Jagdish Raja K (JC-749571P), 01 Oct 2000.
 Nb Sub Mahabir Singh (JC-749990M), 01 Oct 2000.
 Nb Sub Augusta Morris G (JC-750029L), 01 Oct 2000.
 Nb Sub Bhagwan Prasad Thakur (JC-7503442W), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Harendra Singh (JC-750112H), 01 Jan 2001.
 Nb Sub Guptaeshwar Gond (JC-750111A), 07 Jan 2001/01 Jan 2001.*
 Nb Sub Vinendra Singh (JC-750044A), 27 Dec 2000/01 Nov 2000.*
 Nb Sub Ranvir Singh (JC-750092A), 07 Jan 2001/01 Dec 2000.*
 Nb Sub Yogendra Singh (JC-750187A), 01 Jan 2001.
 Nb Sub Padmanand Jha (JC-750090P), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Tepugade Hanumant Siddappa (JC-750088A), 01 Jan 2001/01 Dec 2000.*
 Nb Sub Ganpat Singh (JC-750095N), 01 Jan 2001.
 Nb Sub Adarsh Kumar Sharma (JC-750091X), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Ganesh Shankar Awasthi (JC-750108A), 01 Jan 2001.
 Nb Sub Doguparthi Musalewara Rao (JC-750104H), 01 Oct 2000.
 Nb Sub Bhanwar Singh (JC-750244W), 05 Nov 2000/01 Nov 2000.*
 Nb Sub Satya Prakash Saxena (JC-750070F), 01 Dec 2000.
 Nb Sub Kailash Chandra (JC-749561H), 15 Dec 2000/01 Nov 2000.*
 To be Subedar Artzn (EC)
 Nb Sub Chandipal Singh (JC-752102X), 01 Nov 2000.
 Nb Sub Keshu Ram (JC-752230P), 27 Nov 2000/01 Nov 2000.*

Nb Sub J Singh (JC 752101P), 01 Nov 2000
Nb Sub J Singh (JC 752101P), 01 Nov 2000

Nb Sub J Singh (JC 752097X), 01 Dec 2000

Nb Sub A Singh (JC 752101H), 18 Nov 2000/01 Nov 2000 *

Nb Sub S Singh (JC 751873A), 18 Dec 2000/01 Sep 2000 *

Nb Sub R Singh (JC 751877W), 01 Sep 2000

Nb Sub Ch Singh (JC 751876N), 01 Sep 2000

Nb Sub D Singh (JC 751933W), 01 Sep 2000

Nb Sub K Singh (JC 752234L), 01 Jan 2001

Nb Sub J Singh (JC 752101P), 01 Jan 2001

To be Subedar Artzn (NE)

Nb Sub G Singh (JC 751315W), 09 Nov 2000/01 Nov 2000

Nb Sub Sh Singh (JC 751477Y), 01 Dec 2000

Nb Sub A Singh (JC 751675P), 01 Nov 2000

Nb Sub T Singh (JC 751690K), 01 Jan 2001

To be Subedar Msn

Nb Sub M Singh (JC 753353Y), 01 Aug 2000

To be Subedar Tech AVN

Nb Sub S Singh (JC 753756N), 13 Dec 2000/01 Dec 2000 *

Nb Sub U Singh (JC 753742N), 01 Dec 2000

Nb Sub R Singh (JC 753740H), 14 Nov 2000/01 Nov 2000 *

Nb Sub S Singh (JC 753729N), 10 Nov 2000 01 Oct 2000 *

To be Subedar Ck (GP)

Nb Sub J Singh (JC 751328W), 01 Nov 2000 01 Jul 2000 *

Nb Sub J Singh (JC 751525Y), 18 Dec 2000/01 Dec 2000 *

Nb Sub P Singh (JC 751533X), 01 Dec 2000

Nb Sub P Singh (JC 751527), 01 Dec 2000

Nb Sub Jo Singh (JC 751532P), 01 Dec 2000

Nb Sub K Singh (JC 751364F), 18 Oct 2000/01 Aug 2000

Nb Sub D Singh (JC 751530K), 01 Dec 2000

Nb Sub S Singh (JC 751373H), 18 Oct 2000/01 Dec 2000 *

Nb Sub T Singh (JC 751378N), 01 Aug 2000

Nb Sub A Singh (JC 751542Y), 01 Jan 2001

Nb Sub U Singh (JC 751533W), 01 Jan 2001

Nb Sub S Singh (JC 751521H), 01 Dec 2001

Nb Sub R Singh (JC 751529P), 07 Dec 2000/01 Dec 2000

Nb Sub A Singh (JC 751526F), 01 Dec 2000

Nb Sub A Singh (JC 751537N), 01 Jan 2001

To be Subedar SKT

Nb Sub A Singh (JC 751201M), 08 Nov 2000 01 Nov 2000

Nb Sub B Singh (JC 751203Y), 01 Nov 2000

Nb Sub C Singh (JC 751296Y), 01 Dec 2000

Nb Sub A Singh (JC 751292H), 01 Nov 2000

Nb Sub D Singh (JC 750888W), 01 Sep 2000

Nb Sub E Singh (JC 751350F), 01 Jan 2001

Nb Sub F Singh (JC 751293I), 11 Jan 2001/01 Dec 2000

Nb Sub G Singh (JC 751297F), 24 Dec 2000/01 Dec 2000

Nb Sub H Singh (JC 751419A), 13 Dec 2000/01 Dec 2000

To be Subedar Rec Mecn

Nb Sub I Singh (JC 750879P), 01 Nov 2000

To be Subedar Dvi (MT)

Nb Sub J Singh (JC 751458Y), 01 Sep 2000

Nb Sub K Singh (JC 751462F), 01 Oct 2000

To be Subedar Armr

Nb Sub L Singh (JC 752353F), 01 Sep 2000

Nb Sub M Singh (JC 752363L), 01 Nov 2000

Nb Sub N Singh (JC 752394I), 01 Dec 2000

Nb Sub O Singh (JC 752393H), 01 Dec 2000

Nb Sub P Singh (JC 752362H), 27 Nov 2000/01 Nov 2000 *

Nb Sub Q Singh (JC 752396W), 01 Dec 2000

Nb Sub R Singh (JC 752392A), 08 Jan 2001/01 Nov 2000 *

Nb Sub S Singh (JC 752397Y), 01 Jan 2001

Nb Sub T Singh (JC 752395N), 01 Dec 2000

(G'd ant ante seniority)

REGULAR ARMY

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Nb Subedar

H v Amn Tech Einar Mazumdar (6923869W now JC-725025N), 01 Oct 2000

H v Amn Tech Einar Mazumdar (6924385H now JC-725026W), 13 Dec 2000 *

(G'd ant ante seniority) 01 Dec 2000 without effect on pay and allowances

H v Amn Tech Einar Mazumdar (6924332K now JC-725027Y), 01 Dec 2000 *

(G'd ant ante seniority) 01 Nov 2000 without effect on pay and allowances

H v Amn Tech Einar Mazumdar (6913637K now JC-725028Z), 01 Dec 2000

Hav Clk S Cont Sivaruthru R (6923862M now JC-725039 K), 06-12-2000.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav Clk GD Gaurbi Singh (6914129A now JC-725040Y), 21-12-2000.*

*(Gtd No tional seniority wef 01 Oct 1998 without effect on pay & allces)

Hav Clk GD S Iothi (6925887X now JC-725041F), 01-01-2001.

Hav Clk GD Gopal Chandra Sarkar (6925890X now JC-725042K), 01-01-2001.

Hav Clk GD Bhaginat Thakur (6925891A now JC-725043M), 01-01-2001.

Hav Clk GD Behav Lal Koul (6925893L now JC-725044 P), 01-01-2001.

Hav Clk GI Madan Mohan (6925896Y now JC-725045 X), 05-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

Hav Clk GD Mohd Ramzan Mir (6925897F now JC-725046A), 01-12-2001.

Hav Clk GD B Ekambara Raju (6925527F now JC-725047 H), 01-11-2000.

Hav SKT MT Laxmi Pathy G (6926724X now JC-725048 I), 01-06-2000.

Hav SKT GS&C Chander Bhan (6916940W now JC-725049N), 05-11-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Jag Mahander Singh (6919208Y now JC-725050H), 14-12-2000.*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Mukhtiar Singh (6919199H now JC-725051 I), 16-12-2000.*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Birendra Singh (6917338H now JC-725052 N), 1-12-2000.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Gopal Singh (6919217A now JC-725053W), 01-01-2001.

Hav SKT MT Jag Pal Singh Pundir (6919218H now JC-725054Y), 01-11-2001.

Hav SKT MT Karan Singh (6919220A now JC-725055F), 01-01-2001.

Hav SKT MT Desh Raj (6919223N now JC-725056K), 01-01-2001.

Hav SKT MT Ram Chandra (6919229F now JC-725057 M), 12-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Hari Krishna Tiwari (6919233X now JC-725058P), 01-01-2001.

Hav SKT GS&C Net Ram (6919254N now JC-725059X), 01-01-2001.

Hav SKT MT Shubb Ram Jat (6919203A now JC-725060 M), 11-12-2000.*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

8—124 GI/2001

Hav SKT MT Desh Prakash (6919228M now JC-725061P), 10-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

Hav DV& MT Balon Singh (6910737K now JC-725062A), 01-01-2001.

Hav ER LT Subadar Ram (6914972A now JC-725063A), 22-12-2000.

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces).

Hav SH GD Gangadharan UK (6910329Y now JC-725064H), 08-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces).

Hav SH GD Ramesh Chandra Padhy (6910638F now JC-725065I), 01-01-2001.

Hav CLK GD R Rajendran (6925886P now JC-725066N), 01-01-2001.

Hav SKT MT Prahad Kumar Raipuria (6919212L now JC-725067W), 08-12-2000.*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Radha Krishna (6919231M now JC-725068 Y), 16-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Hari Bhan Singh (6919227K now JC-725069 F), 15-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

Hav SH GD Bhagwan Singh (6910376W now JC-725070 W), 12-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav SH GD K Yegaiiah (6910602H now JC-725071Y), 13-01-2001.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

Hav AMN Tech Paru Padi Srinivas Rao (6924213M now JC-725072F), 14-12-2000.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav AMN Tech Prabhakar Adhikari (692446JF now JC-725073K), 01-01-2001.

Hav AMN Tech Arab Mehamud Umar Saheb (6924563A now JC-725074M), 01-02-2001.

Hav Clk GD R Selva Raj (6915132M now JC-725075P), 12-12-2000.

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav Clk GD Om Prakash (6925550P now JC-725076X), 16-11-2000.*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

Hav Clk GD Sanpala Ananda Rao (6925906X now JC-725077A), 01-02-2001.

Hav Clk GD Lal Babu Prasad Gupta (6925913Y now JC-725078H), 01-02-2001.

Hav Clk GD Shiv Om Nagachya (6925935M now JC-725079L), 01-02-2001.

Hav Ck GD Chandra Kant Awasthi (6925939H now JC-725080A), 01-02-2001.

Hav Ck GD Bipin Kumar (6925958N now JC-725081H), 01-02-2001.

Hav Ck S Cont Surendra Prasad Sahu (6914904M now JC-725082L), 01-02-2001.

Hav Ck S Cont Abdul Hafiz (6913509M now JC-725083N), 01-02-2001.

Hav Ck S Prov I Ashokan (6910855X now JC-725084W), 01-02-2001.

Hav Ck GD O N Pandey (6915281A now JC-725085Y), 05-02-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces).

Hav Ck S Cont Yadunath Singh (6915338K now JC-725086F), 01-02-2001.

Hav Ck GD Answai Ali Mallick (6914808X now JC-725087K), 01-02-2001.

Hav Ck S Prov Arjun Mahto (6915694K now JC-725088M), 01-02-2001.

Hav SKT MT Subhash Chandra Duhan (6919131F now JC-725089P), 02-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Umendra Singh (6919200M now JC-725090K), 27-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Tanaji Sopan Vhanale (6919248A now JC-725091M), 01-01-2001.

Hav SKT GS&C Rakesh Kumar (6919259M now JC-725092P), 01-02-2001.

Hav SKT AMN Sone Singh (6919288F now JC-725093X), 01-02-2001.

Hav SKT AMN Lal Singh Kushvaha (6919289K now JC-725094A), 01-02-2001.

Hav SKT AMN Anumanta Singh (6919294P now JC-725095H), 01-02-2001.

Hav SKT GS&C Man Singh (6919295X now JC-725096L), 01-02-2001.

Hav SKT AMN Shelke Baban Sonu (6919308K now JC-725097N), 01-02-2001.

Hav SII Tech Surendra Prasad Singh (6909251M now JC-725098W), 24-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

Hav SII GD Mahabir Singh (6910759H now JC-725099Y), 30-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces).

Hav S I GD Bahu G (6910918P now JC-725100H), 01-02-2001.

Hav OMHE Ravindra Nath Pandey (6910579A now JC-725101L), 01-02-2001.

Hav AMN Tech Sunny LV (6924197F now JC-725102N), 22-02-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav Ck S Cont Babulal Ray (6914956H now JC-725103W), 01-02-2001.

Hav Ck S Cons Hari Chand (6915127F now JC-725104Y), 12-02-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces).

Hav Ck S Prov Selvaan M (6915583M now JC-725105L), 01-02-2001.

Hav Ck S Cont Devi Lal (6913988Y now JC-725106K), 01-02-2001.

Hav Ck S Cont Ramanand Maurya (6915406M now JC-725107M), 01-02-2001.

Hav Ck S Cont Jit Bahadur Thakura (6914312H now JC-725108P), 01-02-2001.

Hav Ck S Prov Sameuddin (6915716X now JC-725109X), 01-03-2001.

Hav Ck S Cont Bindesh Sharma (6915729W now JC-725110M), 01-03-2001.

Hav Ck S Prov Bhagwan Dass (6915712F now JC-725111P), 01-03-2001.

Hav Ck S Prov Raj Kumar Shukla (6915723N now JC-725112X), 01-03-2001.

Hav SKT AMN Bhanu Pratap Singh Yadav (6919271N now JC-725113A), 01-02-2001.

Hav ER 'U' Hukum Singh (6915397W now JC-725114H), 26-02-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces).

Hav SH GD Kameshwar Singh (6910673K now JC-725115L), 01-02-2001.

Hav AMN Tech Radha Charan Ghosh (692-439Y now JC-725116N), 16-01-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

Hav AMN Tech Kekan Malchandra Baburao (6924579L now JC-725117W), 07-03-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2001 without effect on pay and allces).

Hav AMN Tech Sawant Dilip Jagannath (6924635Y now JC-725118Y), 06-03-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2001 without effect on pay and allces).

Hav AMN Tech Nawal Kishore Kushwaha (6924751F now JC-725119F), 09-03-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2001 without effect on pay and allces).

Hav AMN Tech Krishna Kumar Patel (6924752K now JC-725120W), 01-03-2001.

Hav Ck GD Ashok Kumar (6925938A now JC-725121Y), 07-03-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces).

Hav Ck GD P C Sarangi (6915271W now JC-725122F), 13-02-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces).

Hav Ck GD Mohanan Muthathian Veettil (6915000Y now JC-725123K), 20-03-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2001 without effect on pay and allces).

Hav Ck S Cont Pradip Datta (6915710W now JC-725124M), 01-03-2001.

Hav Clk S Cont K Muthu Raman (6915711Y now JC-725125P), 07-03-2001.*

(Gtd seniority wef 01 Mar 2001 without effect on pay and allce).

Hav Clk S Cont Hans Raj Guja (6915721H now JC-725126X), 01-03-2001.

Hav Clk S Prov Satyapal Malik (6915747X now JC-725127A), 01-03-2001.

Hav SKT AMN Ramji Singh (6919273Y now JC-725128H), 01-02-2001.

Hav SKT AMN Sreepal Singh (6919316H now JC-725129L), 01-03-2001.

Hav SKT GS&C Jagdish Prasad Gurja (6917827N now JC-725130A), 01-03-2001.

Hav SKT AMN Kamble Sanjay Kishunrao (6919322W now JC-725131H), 01-03-2001.

Hav SKT GS&C Radha Krishna (6919328X now JC-725132L), 07-03-2001.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2001 without effect on pay and allce).

Hav SKT AMN Surender Singh Gill (6919339K now JC-725133N), 01-03-2001.

Hav SH Teet Iqbal Mohamed (6909477X now JC-725134W), 01-03-2001.

ARMY ORDNANCE CORPS

TO BE SUBEDAR RELIGIOUS TEACHER (PANDIT)

Paid Acting Sub RT (Pandit) Amar Nand Jha (JC-164878A), 01-01-1995.*

*(Gtd Notional Seniority wef 31 Dec 1994 without effect on pay and allces).

Paid Acting Sub RT (Pandit) Subhash Chandra Pandey (JC-164879H), 01-05-1996.

Paid Acting Sub RT (Pandit) Lok Bandhu Upadhyay (JC-165602W), 01-01-1997.

Paid Acting Sub RT (Pandit) Shambhu Prasad Godiyal (JC-165603Y), 01-01-1997.

Paid Acting Sub RT (Pandit) Krishna Kumar Dwivedi (JC-165604F), 01-01-1997.

Paid Acting Sub RT (Pandit) Janardhan Mishra (JC-165605K), 16-08-1997.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 1997 without effect on pay and allces).

Paid Acting Sub RT (Pandit) Ramji Mishra (JC-165606M), 01-01-1997.

Paid Acting Sub RT (Pandit) Ashok Kumar Tripathi (JC-171250A), 01-02-1997.

Paid Acting Sub RT (Pandit) Dina Nath Tiwari (JC-75000F), 01-06-1999.

ARMY ORDNANCE CORPS

TO BE SUBEDAR MAJOR RELIGIOUS TEACHER (PANDIT)

Paid Acting Sub Maj RT (Pandit) Ramji Mishra (JC-66921A), 01-08-1997.

Paid Acting Sub Maj RT (Pandit) Dinesh Prasad Paudey (JC-66922H), 01-08-1997.

Paid Acting Sub Maj RT (Pandit) Harash Dev (JC-66813W), 01-09-1997.

Paid Acting Sub Maj RT (Pandit) Kashav Pandey (JC-66916P), 01-01-1998.

Paid Acting Sub Maj RT (Pandit) Shesh Dutt T wari (JC-66917X), 01-02-1998.

Paid Acting Sub Maj RT (Pandit) Narendra Baishan Shukla (JC-74586W), 01-07-1999.

ARMY ORDNANCE CORPS

TO BE SUBEDAR MAJOR (MUSICIAN)

Paid Acting Sub Maj (Musician) Lal Singh (JC-722489F), 01-09-2000.

T. C. JAIN

Dy. Secy

No. 375, dated 25th May 2001 --The President is pleased to make following promotions:—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BENGAL ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav Prem Singh (No. 8025709L now JC-3283121), 12-02-2001.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Dec 2000 without effect on pay and allces).

Hav Dinesh Dobhal (No. 1462066H now JC-328313N), 06-03-2001.*

Hav Manvar Singh (No. 1463536P now JC-328314W), 22-02-2001.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

Hav Nand Kumar Roy (No. 1460651P now JC-328315Y), 05-03-2001.*

Hav Bhawan Singh Panda (No. 1462190K now JC-328316F), 24-02-2001.*

Hav Ram Prasad Rai (No. 1462199Y now JC-328317K), 24-02-2001.*

Hav Ram Gopal Singh (No. 1462231H now JC-328318M), 19-02-2001.*

Hav Malkit Singh (No. 1463200P now JC-3283192), 20-02-2001.*

Hav Bharat Chandra Roy (No. 1463611N now JC-328320K), 19-02-2001.*

Hav Man Singh (No. 1463703A now JC-328321N), 22-02-2001.*

Hav Nirmal Singh (No. 1462273P now JC-328322P), 20-02-2001.*

Hav Gurwinder Singh (No. 1462274X now JC-328323X), 19-02-2001.*

Hav Tapan Kumar Saha (No. 1462254L now JC-328324A), 22-02-2001.*

Hav Baldev Singh (No. 1462316Y now JC-328325H), 20-02-2001.*

Hav Shaym Babu Dwivedi (No. 1462328M now JC-328326L), 20-02-2001.*

Hav Dharam Pal Sharma (No. 1462460N now JC-328327N), 21-02-2001.*

Hav Resham Singh (No. 1462494F now JC-328328W), 22-02-2001.*

Hav Birbal Singh (No. 1462495K now JC-328329Y), 19-02-2001.*

Hav Kamlesh Singh (No. 1462498X now JC-328330N),
24-02-2001.@

Hav J. y Prakash Singh (No. 1461806A now JC-328331W), 21-02-2001.@

Hav Fuldcep Singh (No. 1462365F now JC-328332Y),
22-02-2001.@

Hav J. ginder Singh (No. 1462518A now JC-328333F),
19-02-2001.@

Hav Ashist Singh (No. 1462753Y now JC-328334K),
20-02-2001.@

Hav Falkar Singh (No. 1464256N now JC-328335M),
20-02-2001.@

Hav Farish Chandra (No. 1464227Y now JC-328336P),
24-02-2001.@

Hav Ashok Kumar (No. 1465074M now JC-328337X),
20-02-2001.@

Hav Jagdish Prasad (No. 1467073H now JC-328338A),
23-02-2001.@

Hav Surung Choubey (No. 1403677A now JC-328339H),
22-02-2001.@

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001
without effect on pay and allces).

Hav Uma Nand (No. 1461357W now JC-328340X), 14-03-
2001.£

Hav Pathu Ram (No. 1461366X now JC-328341A), 08-03-
2001.£

Hav Surendra Prakash (No. 1462561F now JC-328342H),
11-03-2001.£

Hav Kunwar Singh (No. 1462559K now JC-328343J),
06-03-2001.£

Hav Nandi Singh (No. 1462682X now JC-328344N),
08-03-2001.£

Hav Nanda Vallabh (No. 1462292Y now JC-328345W),
05-03-2001.£

Hav Farooque Khan (No. 1459886K now JC-328346Y),
02-03-2001.£

Hav Jachhiman Chand (No. 1460358M now JC-328347F),
11-03-2001.£

Hav Joginder Singh (No. 1466543W now JC-328348K),
08-03-2001.£

£ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2001 without effect on pay and allces).

Hav Jitender Kumar Singh (No. 1461637K now JC-328349M),
10-02-2001.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Dec 2000
without effect on pay and allces).

Hav Pitamber Singh Negi (No. 1462072W now JC-328350F),
14-03-2001.£

£ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2001
without effect on pay and allces).

Hav Deepak Kumar Thapa (No. 1462214H now JC-328351K),
28-02-2001.@

Hav Kulwant Singh (No. 1403674M now JC-328352M),
11-04-2001.@

Hav M. Basanta Singha (No. 1461127H now JC-328353P),
12-03-2001.@

Hav Ganga Singh (No. 1462291X now JC-328354X),
01-03-2001.@

Hav Shankar Dayal Singh (No. 1462516P now JC-328355A),
09-03-2001.@

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001
without effect on pay and allces).

Hav Baldev Singh (No. 1462563M now JC-328356H),
17-03-2001.£

Hav Gurnam Singh (No. 1462558F now JC-328357L),
08-03-2001.£

Hav Aditya Ram (No. 1462606W now JC-328358N),
08-03-2001.£

Hav Narayan Singh (No. 1462621L now JC-328359W),
17-03-2001.£

Hav Ranbir Singh (No. 1462632P now JC-328360Y),
13-03-2001.£

Hav Balbir Singh (No. 1464241L now JC-328361N),
12-03-2001.£

£ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2001
without effect on pay and allces).

(To be Nb Sub SKT)

Hav/SKT Ganga Prasad Raturi (No. 1475022M now JC-
328362W), 03-03-2001.&

& (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001
without effect on pay and allces).

Hav/SKT Sukhdev Singh (No. 1475660H now JC-328363Y),
19-04-2001.\$

Hav/SKT Satnam Singh (No. 1475674H now JC-328364F),
17-03-2001.\$

\$ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2001
without effect on pay and allces).

(To be Nb Sub Svy)

Hav Svy Ram Datt (No. 1471627N now JC-328365K),
10-06-2000.*

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001
without effect on pay and allces).

Hav/Svy Ravinder Kumar (No. 1465376Y now JC-328366M),
01-12-2000.%

%% (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2000).

Hav/Svy Sattar Ali (No. 1472536W now JC-328367P),
16-03-2001.@

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar
2001 without effect on pay and allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav Anup Kumar Gou (No. 1461266M now JC-328368W),
15-01-2001.†

† (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 99
without effect on pay and allces).

Hav Durga Bahadur (No. 1478268N now JC-328369Y),
15-01-2001.£

£ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 99
without effect on pay and allces).

Hav Gurdev Chand (No. 1458265Y now JC-328370N),
15-01-2001.@

Hav Mohan Krishan Ram (No. 1403680A now JC-328371W),
29-01-2001.@

Hav Kedar Singh Rawat (No. 1403768K now JC-328372Y),
13-01-2001.@

Hav Jai Bhagwan (No. 1461508K now JC-328373F), 12-01-
2001.@

Hav Om Bahadur Thapa (No. 1403708P now JC-328374K),
16-01-2001.@

Hav Ishwar Singh (No. 1461064N now JC-328375M),
08-01-2000.@

Hav Armer Nait (No 1461448A now JC 328286P) 19-01-2001 @

Hav Ratan Singh (No 1461475K now JC-328287X) 05-02-2001 @

Hav Virendra Kumar (No 1461570W now JC-328288A), 05-01-2001 @

Hav Jasod Singh Mehra (No 1461610M now JC 328289H), 03-01-2001 @

Hav Bir Singh (No 1461667F now JC 328290X) 08 01 2001 @

Hav Sada Ram (No 1461720F now JC-328291A) 08 01 2001 @

Hav Rara Baran (No 1461622M now JC 328292H) 22 01 2001 @

Hav Harius Toppo (No 1461831Y now JC 328293I) 18 01-2001 @

Hav Alck Kumar Patra (No 1461828Y now JC-328294N) 23-01-2001 @

Hav Naendra Nath Maharana (No 1461886M now JC 328295W) 09-01-2001 @

Hav Devi Bahadur Gutung (No 1403706K now JC 328296Y) 07-02-2001 @

Hav Ravi Kumar (No 1403725P now JC-328297F), 05 01-2001 @

Hav Purna Dhar Gogoi (No 1461242H now JC 328298K) 08-01 2001 @

Hav Ravinder Singh (No 1461978P now JC 328299I) 03 01 2001 @

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Dec 2000 without effect on pay and allces)

Hav Shyamal Kumar Biswas (No 1402056M now JC 328300W), 12 01 2001. £

Hav Lal Singh (No 1462059M now JC 328301Y) 14 01 2001 £

Hav Mohan Lal (No 1462093M now JC 328302F), 11 01 2001 £

Hav Prasanta Kumar Pattanayak (No 1464188L now JC 328303K), 13-01-2001 £

Hav Lal Pal (No 1460686 now JC-328304M), 13 01 2001 £

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces)

(To be Nb Sub SKT)

Hav/SKT Yogendra Prasad Singh (No 1471497W now JC-328305P), 23-01-2001 \$

Hav/SKT Mahesh Pandey (No 1473271K now JC 328306X), 23-01-2001 \$

Hav/SKT Krishan Kumar Verma (No 1475587P now JC-328307A), 19-01-2001 \$

Hav/SKT Harbhajan Singh (No 1473591N now JC-328308H), 22 01 2001 \$

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces)

(To be Nb Sub Svy)

Hav/Svy Saryat Singh (No 1475071N now JC-328309L), 05-01-2001 **

Hav/Svy Tajwar Singh (No 1475635A now JC 328310A), 01 01-2001 **

Hav/Svy Ved Prakash Bhatt (No 1476110M now JC-328311H), 01-01-2001 *

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces)

To be Nb Sub (GD)

Hav Narayan Singh Bohra (No 1460318L now JC-328241P) 23 12 2000 *

Hav Avdesh Rai (No 1461046H now JC-328242X), 29 12-2000

Hav Kulish Narain Singh (No 1461423N now JC 328243X) 26-12 2000

Hav Manoj Kumar (No 1484719Y now JC- 28244H), 03 01-2001

Hav Satya Ram (No 1461629L now JC-328 45L) 08 01-2001

Hav Hardip Singh Sandhu (No 1461645M now JC 328246N) 01 01 2001.*

Hav Angad Singh (No 1461642P now JC-328247W) 26-12-2001 *

Hav Putan Dara Sahu (No 1461665W now JC-328248Y), 08 01 2001

Hav Rahman Mian (No 1461699K now JC 328249I) 26 12 2000 *

Hav Mohan Singh (No 1461700N now JC-328250W) 03 01 2001

Hav Ranjit Singh (No 1461718K now JC-328251Y), 03 01-2001

Hav Om Prakash Gutung (No 1403705F now JC 328252I), 09 01 2001 *

Hav Sat Pal (No 1461725X now JC 328253K) 31 12 2000

Hav Sukhbir Singh (No 1461737P now JC-328254M) 06 01 2001

Hav Maya Nath Rai (No. 1461793N now JC-328255P) 29-12-2000 *

Hav Chander Narayan (No 1461780W now JC-328256X) 30 12-2000

Hav Rajender Prasad Singh (No 1461852P now JC-328257X) 30-12-2000 *

Hav Lachhman Singh (No 1462790M now JC-328258H), 08 01-2001.*

Hav Sudhindra Nath Sasak (No 1462858H now JC-328259I) 08-01-2001.*

Hav Tapan Kumar Purja (No 1462883F now JC-328260A), 08-01-2001.*

Hav Ramji Singh (No 1462925H now JC-328261H) 29 12 2000 *

Hav Surender Singh (No 1462972A now JC-328262L), 08-01-2001 *

Hav Hari Singh (No 1463153H now JC-328263N), 08-01 2001

Hav Muket Singh (No. 1461535N now JC-328264W), 04-01-2001 *

Hav Khushal Singh (No 1462032P now JC-328265Y), 08-01-2001 *

(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Dec 2000 without effect on pay and allces)

Hav Ramesh Ram Arya (No 1462060F now JC-328266F), 12-01-2001 **

Hav Pushkar Singh (No. 1460106A now JC-328267K), 08-01-2001.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

(To be Nb Sub Clk (GD))

Hav/Svy Sunil Kumar (No. 1475621J now JC-328268M), 16-10-2000.®

Hav/Svy Basant Singh (No. 147103H now JC-328269P), 10-11-2000.®

®(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav/Svy Rajendra Chand (No. 147152N now JC-328270K), 01-12-2000.@

Hav/Svy Raj Narayn Singh Kushwaha (No. 1474967P now JC-328271M), 01-01-2001.@

Hav/Svy Mahipal Singh Rawat (No. 147502P now JC-328272P), 01-01-2001.@

Hav/Svy Swapan Datta (No. 1475630V now JC-328273X), 04-01-2001.@

Hav/Svy Sukkhu Ram (No. 1473341A now JC-328274A), 08-01-2001.@

Hav/Svy Babul Bardoloi (No. 1471259K now JC-328275H), 29-12-2000.@

Hav Kulwant Kumari (No. 1474858P now JC-328276L), 13-01-2001.@

Hav/Svy Subhash Chandra (No. 1475879L now JC-328277N), 04-01-2001.@

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces).

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav/Clk B Mutuga Reddy (No. 1379808Y now JC-306956L), 19 Jun 2000.*

Hav/Clk M Nirmal Raj (No. 1380903X now JC-306957N), 29 Jun 2000.*

Hav/Clk Nandakumar D (No. 1380984H now JC-306958W), 18 Aug 2000.*

Hav/Clk Suraj KP (No. 1381011Y now JC-306959A), 17 Jul 2000.*

Hav/Clk Rajendran (No. 1381045M now JC-306960N), 19 Aug 2000.*

Hav/Clk P Anthony Dass (No. 1381498X now JC-306968A), 24 Aug 2000.*

Hav/Clk Reji Kumar KV (No. 1381639F now JC-306970X), 01 Jul 2000.&

Hav/Clk M Lingesan (No. 1381766W now JC-306972H), 10 Jul 2000.&

Hav/Clk K Dharmalingam (No. 1381768I now JC-306973L), 19 Jul 2000.&

Hav/Clk Pushparaj M (No. 1381776A now JC-306974N), 14 Jul 2000.&

Hav/Clk Arivudai Nambi S (No. 1381701H now JC-306975W), 30 Aug 2000.&

Hav/Clk A Sudai Veera Pandian (No. 1381712P now JC-306976Y), 01 Jul 2000.&

Hav/Clk K Satheesh Kumar (No. 1381864W now JC-306969N), 03 Jul 2000.&

Hav/Clk Kuttikrishnan KD (No. 1381891A now JC-306977F), 01 Jul 2000.&

Hav/Clk S Mohan (No. 1381916F now JC-306978K), 17 Aug 2000.&

Hav/Clk Unnikrishnan M (No. 1381927N now JC-306971A), 03 Jul 2000.&

Hav/Clk Pavitharan P (No. 1381944M now JC-306979M), 17 Nov 2000.&

Hav/Clk Chandran Mandapathingal (No. 1381947U now JC-306980F), 06 Jul 2000.&

Hav/Clk Mdhu Kumar C (No. 1382053X now JC-306994I), 08 Aug 2000.@

Hav/Clk Amle Suresh Amrta (No. 1382360P now JC-306995K), 10 Aug 2000.@

Hav/Clk Uttam Das (No. 1382543L now JC-306996M), 10 Aug 2000.@

Hav/Clk Shibsankar Mandal (No. 1382544N now JC-306997P), 23 Aug 2000.@

Hav/Clk Paresb Narayan Ghosh (No. 1382546Y now JC-306998X), 05 Aug 2000.@

Hav/Clk Supriakash Sengupta (No. 1382547Z now JC-306999A), 15 Sep 2000.@

Hav/Clk Vipin Kumar K (No. 1382557L now JC-307000F), 25 Aug 2000.@

Hav/Clk Binod Sharma (No. 1382584P now JC-307001K), 05 Aug 2000.@

Hav/Clk Sushil Kumar Pradhan (No. 1382726E now JC-307009W), 01 Sep 2000.®

Hav/Clk Ramesh Prasad Singh (No. 1382671H now JC-307010L), 02 Sep 2000.®

Hav/Clk Siya Ram (No. 1383181F now JC-307011L), 01 Sep 2000.®

Hav/Clk Hariharan K (No. 1381622N now JC-307017P), 28 Nov 2000.®

Hav/Clk A Christy Besky (No. 2483461A now JC-307018X), 20 Oct 2000.®

Hav/Clk Puran Singh (No. 1383637P now JC-307036A), 19 Oct 2000.‡

Hav/Clk Shionath Navik (No. 1383683K now JC-307037H), 01 Oct 2000.‡

Hav/Clk Bijay Kumar Pathak (No. 1383721P now JC-307038L), 05 Oct 2000.‡

Hav/Clk Awadh Kishor Singh (No. 1383906W now JC-307039N), 01 Oct 2000.‡

Hav/Clk Uttam Kumar Mahapatra (No. 1383754H now JC-307040H), 02 Oct 2000.‡

Hav/Clk Sakthivel (No. 1384006Y now JC-307042N), 01 Oct 2000.‡

Hav/Clk Anthony Michael J (No. 1384007F now JC-307043W), 03 Oct 2000.‡

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2000 without effect on pay and allces).

&(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2000 without effect on pay and allces).

@(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allces).

®(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allces).

‡(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

Hav/Cik S Nagaraj (No. 1384009M now JC-307044Y), 01 Nov 2000.\$

Hav Cik S Pazhaniappan (No. 1384010F now JC-307045F), 01 Nov 2000.\$

Hav/Cik Raj Kumar S (No. 1384018N now JC-307046K), 01 Nov 2000.\$

Hav/Cik Muniyeswaran (No. 138403Y now JC-307047M), 1 Nov 2000.\$

Hav/Cik D Gopala Krishnan (No. 1384062X now JC-307048P), 01 Nov 2000.\$

Hav Cik Bikas Chandra Mandal (No. 1383924Y now JC-307049X), 01 Nov 2000.\$

\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Chintambi Muniswamy (1365377M now JC-306910H), 18 Apr 2000.&

Hav (GE) Sadhihulla Baig (1362194L now JC-306913W), 27 Sep 2000.&

Hav (GD) Sibichan KS (1378505X now JC-306918P), 14 Apr 2000.&

Hav (GD) Ravindra Patil (1366401K now JC-306936X), 10 Jul 2000.\$

Hav (GI) Ponnann PR (1366441L now JC-306937A), 01 May 2000.

Hav (GD) R Sundara Raju (1366646A now JC-306961W), 26 Jul 2000.*

Hav (GI) Siddeswara DS (1366459F now JC-306966P), 21 Aug 2000.*

Hav (GD) M Krishnamoorthy (1367639W now JC-306984X), 08 Aug 2000.**

Hav (GI) S Bhima Rao (1367662K now JC-306985A), 01 Aug 2000.

Hav (GE) Patnala Kanna Rao (1367595K now JC-306986H), 16 Aug 2000.**

Hav (GE) Parasuraman R (1368406F now JC-306987L), 08 Aug 2000.**

Hav (GI) Kadambala Vasudeva Rao (1368348H now JC-306988N), 11 Aug 2000.**

Hav (GD) G Murugesan (1368752X now JC-306989W), 28 Aug 2000.**

Hav (GD) Sugunan AP (1369171M now JC-306990L), 01 Aug 2000.

Hav (GI) Bathavachalam (1369792L now JC-306991N), 09 Aug 2000.**

Hav (GI) Joseph George (1370264N now JC-306992W), 11 Aug 2000.**

Hav (GI) A Amirtharaj (1372611N now JC-306993Y), 01 Aug 2000.

Hav (GE) AG Elumalai (1372618K now JC-307003P), 01 Sep 2000.

Hav (GD) Kumaraswamy TB (1372627L now JC-307004X), 01 Sep 2000.

Hav (GD) A Anthony (1376660A now JC-307005A), 01 Sep 2000.

Hav (GE) P Srinivasan (1366560F now JC-307006H), 04 Sep 2000.***

Hav (GI) Fangovan G (1367383Y now JC-307007L), 01 Sep 2000.

Hav (GE) Ethiraj T (1368138H now JC-307008N), 01 Sep 2000

Hav (GD) Vasanthan T (1368526A now JC-307013Y), 01 Sep 2000.

Hav (GD) Sadasivan Pillai PC (1368275F now JC-307014F), 01 Sep 2000

Hav (GD) George TP (1368376P now JC-307019A), 11 Oct 2000.%

Hav (GD) I Adinarayana (1368816X now JC-307020P), 06 Oct 2000.%

Hav (GD) Sekar S (1369380A now JC-307022A), 03 Oct 2000.%

Hav (GD) S Selvaraj (1369559X now JC-307023H), 17 Oct 2000.%

Hav (GD) R Vasantha Kumar (1369942W now JC-307024I), 26 Oct 2000.%

Hav (GD) M Sagayaraj (1371041H now JC-307026W), 03 Oct 2000.%

Hav (GD) K Girisankar Reddy (1372541N now JC-30727Y), 03 Oct 2000.%

Hav (GD) S Muthuramalingam (1372643H now JC-307028I), 03 Oct 2000.%

Hav (GD) Ganesan P (1366355A now JC-307029K), 19 Oct 2000.%

Hav (GD) Muralidharan Pillai K (1367838K now JC-307031F), 16 Oct 2000.%

Hav (GD) Hishikesa Karnavar (1368137A now JC-307032K), 18 Oct 2000.%

Hav (GD) Krishnappa Dandanmavar (1368084M now JC-307033M), 16 Nov 2000.%

Hav (GD) Hanumanth (1368311F now JC-307034P), 06 Nov 2000.%

Hav (GD) Mohanan G (1369512M now JC-307050M), 01 Dec 2000.%

Hav (GD) RVV Sathyanarayana (1369725A now JC-307051P), 02 Nov 2000.@

Hav (GD) K Nagarathinam ((1369802K now JC-307052X), 16 Nov 2000.@

Hav (GD) G Askar Ali (1369866P now JC-307053A), 13 Nov 2000.@

Hav (GD) M Govindudu (1370690F now JC-307054H), 04 Nov 2000.@

Hav (GD) Junaidhanan TR (1371245P now JC-307055L), 01 Nov 2000.

Hav (GD) Teekaram Kumar (1371264P now JC-307056N), 01 Nov 2000.

Hav (GD) Gangadharan K (1371983X now JC-307057W), 01 Nov 2000.

\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2000 without effect on pay and allces).

\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2000 without effect on pay and allces).

\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2000 without effect on pay and allces).

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allces).

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allces).

\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allces).

\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

Hav (GD) P Sunder Raj (136732/A now JC-306955), 01 Jan 2000 @

Hav (GD) S John Peter (1368032W now JC-307012W), 01 Sep 2000.

Hav (GD) Sunny PJ (136831/W now JC-307015K), 01 Sep 2000.

Hav (GD) Chinnappa Reddy Chintam (1369369L now JC-307021X), 01 Oct 2000

Hav (GD) Krishnakumar TS (1370216N now JC-307025N), 01 Oct 2000.

Hav (GD) John Kutty KV (1367584X now JC-307030Y), 01 Oct 2000.

Hav (GD) G Srinivasa (1369129N now JC-307035X), 05 Oct 2000.*

Hav (GD) Nagarajan N (1373782Y now JC-307058Y), 01 Nov 2000.

Hav (GD) Sadanandan KK (1375251A now JC-307059F), 01 Nov 2000

Hav (GD) P Dhanasekar (1376121K now JC-307060W), 04 Nov 2000.**

Hav (GD) Shyamala Nagaraja M (1377184Y now JC-307061Y), 01 Nov 2000.

Hav (GD) A Anbazhagan (1373745L now JC-307063K), 01 Nov 2000.

Hav (GD) V Rajaram (1367348W now JC-307064M), 06 Dec 2000.***

Hav (GD) C Chinnappan (1365280F now JC-307065P), 01 Dec 2000

Hav (GD) Madhavan K Kuthurumal (1366619W now JC-307066X), 19 Dec 2000.***

Hav (GD) V Kumaran (1367562Y now JC-307067A), 01 Dec 2000.

Hav (GD) Sivasankara Kurup P (1369596L now JC-307068H), 01 Dec 2000.

Hav (GD) Nagarajan G (1365683Y now JC-307069L), 23 Dec 2000.***

Hav (GD) Alex MG (1366330N now JC-307070A), 01 Dec 2000.

Hav (GD) Dayanandan I (1368435W now JC-307071H), 27 Dec 2000.***

Hav (GD) P Maruthan (1368580N now JC-307072L), 04 Dec 2000.*

Hav (GD) M Srinivasa Rao (1369684F now JC-307074W), 08 Dec 2000.***

Hav (GD) N Rajasekaran (1366224P now JC-307075Y), 01 Jan 2001.

Hav (GD) Rathakaram Patinharechali (1366495M now JC-307076F), 04 Dec 2000.***

Hav (GD) Abdul Munaf Dharwad (1367919K now JC-307077K), 01 Dec 2000.

Hav (GD) Sanjeeva Reddy (1369311N now JC-307092Y), 01 Jan 2001

Hav (GD) Ramappa Tirilapur (1371396W now JC-307094K), 01 Jan 2001.@

Hav (GD) Soundarajan M (1371579K now JC-307095M), 24 Jan 2001.@

Hav (GD) Dharmalingam M (1367835M now JC-307098A), 01 Jan 2001

Hav (GD) Rajan PV (1369980M now JC-307099H), 15 Jan 2001.@

Hav (GD) G Venkata Rami Reddy (1370981F now JC-307100M), 13 Jan 2001.@

Hav (GD) Rudresha (1376335A now JC-307103A), 02 Feb 2001 @

Hav (GD) Bellam Veeraju (1376861Y now JC-307104H), 11 Jan 2001.@

Hav (GD) Gopi P (1366906A now JC-307105L), 01 Jan 2001

Hav (GD) Srinivasan G (1372101Y now JC-307108Y), 05 Feb 2001.@@

Hav (GD) A Savarimuthu (1364928A now JC-307109F), 01 Feb 2001.

Hav (GD) Govindan P (1368286N now JC-307111Y), 01 Feb 2001

Hav (GD) Chandrasekara Kurup P (1367173Y now JC-307112F), 01 Feb 2001

Hav (GD) K Ruban (1369726H now JC-307113K), 01 Feb 2001.

Hav (GD) P Thangaraju (1369924A now JC-307114M), 01 Feb 2001.

& (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 1997 without effect on pay and allces).

' (Granted Seniority in the rank of -Nb Sub wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).

'' (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).

' * (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces).

@ (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces).

@ @ (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces)

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (CLKGD)

Hav (CLKGD) Ashish Kumar Sharma (No. 1555778X now JC-348778P), 29th Nov 2000."

Hav (CLKGD) Om Prakash Gautama (No. 1557198F now JC-348780M), 08th Dec 2000.*

' (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (CLKGD) Rajendra Singh (No. 1555967F now JC-348783L), 27th Nov 2000.**

Hav (CLKGD) Patole Shamrao Anoba (No. 1556385N now JC-348786N), 29th Nov 2000.**

''' (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (CLKGD) Awadhesh Mishra (No. 1558686W now JC-348790W), 09th Dec 2000.@

Hav (CLKGD) More Shahji Mahaded (No. 1558999P now JC-348791Y), 14th Dec 2000.@

Hav (CLKGD) Rakesh Kumar Sharma (No. 1568304P now JC-348792F), 15th Dec 2000.@

Hav (CLKGD) Dharam Singh (No. 1568303M now JC-348793K), 15th Dec 2000.@

Hav (CLKGD) Jaiheer Singh (No. 1568300Y now JC-348794M), 16th Dec 2000.@

Hav (CLKGD) Major Singh (No. 1557877A now JC-348795P), 18th Dec 2000 @

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2000 without effect on pay and allowance).

Hav (CLKGD) Ghadge Vilas Laxman (No. 1555981 now JC-348797A), 24th Jan 2001.@

Hav (CLKGD) Goring Singh Bisht (No. 1558170 now JC-348796H), 25th Jan 2001.@

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Dec 2000 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Wani Singh (No. 1558107M now JC-348776K), 02nd Oct 2000.

Hav (GD) Rani Singh (No. 1551254M now JC-348777M), 2nd Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Aug 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Hina Lal Shukla (No. 1551545N now JC-348779X), 30th Nov 2000.*

Hav (GD) Vijai Kumar Thakur (No. 1550959Y now JC-348781P), 23rd Dec 2000.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2000 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Umrao Lal Saini (No. 1559871W now JC-348782X), 21st Nov 2000.@

Hav (GD) Shinde Yeswant Ramchandra (No. 1570042Y now JC-348783A), 24th Nov 2000.@

Hav (GD) Surinder Singh (No. 1551552P now JC-348784H), 27th Nov 2000.@

Hav (GD) Rajpal Singh (No. 1553433X now JC-348787W), 04th Dec 2000.@

Hav (GD) Bagicha Singh (No. 1555755L now JC-348788Y), 22nd Dec 2000.@

Hav (GD) Kulwant Singh (No. 1573151A now JC-348789F), 03rd Jan 2001.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Nov 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Massa Singh (No. 1549456F now JC-348796X), 26th Dec 2000.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Major Clk (GD)

Sub (CLK GD) Balbir Singh (JC-203091K), 16th Jan 2001.

Sub (CLK GD) Mohinder Singh (JC-203092M), 11th Dec 2000.

Sub (CLK GD) Amarjit Singh (JC-203084N), 2nd Feb 2001.

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Gopal Narayan Devang (JC-197275K), 8th Aug 2000.

Sub (GD) Gurdev Singh (JC-191624M), 13th Dec 2000.

Sub (GD) Chandgi Ram (JC-191635Y), 14th Dec 2000.

Sub (GD) Dilbag Singh (JC-197282A), 19th Jan 2001.

Sub (GD) Kartar Singh (JC-197315A), 8th Jan 2001.

Sub (GD) Karnal Singh (JC-197352F), 11th Jan 2001.

To be Subedar Major (SKT)

Sub (SKT) Pershotam Chand (JC-219617P), 29th Jan 2001.

9-124 Gf 2001

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub (CLK GD) Babu Khan (JC-347682A), 27th Dec 2000.

Nb Sub (CLK GD) Virender Singh Dahiya (JC-347896W), 10th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Sobha Ram (JC-347907X), 13th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Balbir Singh (JC-347904K), 19th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Ram Raj Mishra (JC-347911A), 19th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Gopal Singh Rana (JC-347879W), 20th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Patake Ravindra Rajaram (JC-347679A), 11th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Jos M (JC-347685N), 20th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Mumtaz Ahmed (JC-347686W), 23rd Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Pargat Singh (JC-347785Y), 16th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Guru Datt Sharma (JC-347735N), 20th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Salinder Singh (JC-347693M), 7th Feb 2001.

Nb Sub (CLK GD) Jagtar Singh (JC-347734L), 15th Jan 2001.

Nb Sub (CLK GD) Jagan Singh (JC-347695X), 19th Jan 2001.

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Jeewan Singh (JC-347632P), 1st Jan 2000.

Nb Sub (GD) Gian Singh (JC-347728X), 26th Dec 2000.

Nb Sub (GD) Sohan Singh (JC-347746A), 23rd Jan 2001.

Nb Sub (GD) Chaudhari Laxman Janardhan (JC-347880L), 15th Jan 2001.

Nb Sub (GD) Gayur Ahmed Khan (JC-347721N), 22nd Jan 2001.

Nb Sub (GD) Mahboob Ali Khan (JC-347724F), 8th Feb 2001.

Nb Sub (GD) Darshan Singh (JC-347757M), 3rd Feb 2001.

Nb Sub (GD) Sohan Singh (JC-347758P), 24th Jan 2001.

Nb Sub (GD) Daljit Singh (JC-347810M), 16th Jan 2001.

Nb Sub (GD) Joginder Singh (JC-347822F), 19th Jan 2001.

To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT) Karamjit Singh (JC-347903F), 22nd Jan 2001.

Nb Sub (SKT) Rama Nand Kaushik (JC-347906P), 15th Jan 2001.

Nb Sub (SKT) Raj Singh (JC-347945N), 22nd Jan 2001.

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Sodhha Chatur Singh Khet Singh (No. 1568256A now JC-348871W), 12th Feb 2001.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

Inv (SKT) Jagat Pal (No. 1568288H now JC-348920N),
23rd Feb 2001.*

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef Feb 2001 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (CLKGD)

Hav (CLKGD) Bawaskar Shrikrishna Hari (No. 1567171 X now JC-348854W), 27th Jan 2001.*

Hav (CLKGD) Kirpal Singh (No. 1550443W now JC-34889M), 16th Feb 2001.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (CLKGD) Manipal Singh Rawat (No. 1568358W now JC-348914A), 06th Feb 2001.*

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2001 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Kirpal Singh (No. 1552124H now JC-348855Y)—02nd Feb 2001*.

Hav (GD) Balwinder Singh (1552418W now JC-348856F)—02nd Feb 2001*.

Hav (GD) Kuldeep Singh (No. 1551610N now JC-348857K)—02nd Feb 2001*.

Hav (GD) Kulda Singh (No. 1552263M now JC-348858M)—02nd Feb 2001*.

Hav (GD) Harjit Singh (No. 1552340W now JC-348859P)—02nd Feb 2001*.

Hav (GD) Mohamad Amin (No. 1552082F now JC-348860K)—02nd Feb 2001*.

Hav (GD) Puthpal Singh (No. 1550545M now JC-348861M)—02nd Feb 2001*.

Hav (GD) Paramjit Singh (No. 1551784N now JC-348862P)—02nd Feb 2001*.

Hav (GD) Raghunathan Nair B (No. 1551227P now JC-348863X)—05th Feb 2001*.

Hav (GD) Survan Singh (No. 1551314H now JC-348864A)—06th Feb 2001*.

Hav (GD) Pawar Manohar Mahadev (No. 1548963H now JC-348865H)—06th Feb 2001*.

Hav (GD) Anil Kumar Sharma (No. 1566772W now JC-348866L)—08th Feb 2001*.

Hav (GD) Sabir Khan (No. 1553505W now JC-348867N)—09th Feb 2001*.

Hav (GD) Dayashankar Chaube (No. 1549453N now JC-348868W)—10th Feb 2001*.

Hav (GD) Maruti Dattu Devarkar (No. 1548258K now JC-348869Y)—10th Feb 2001*.

Hav (GD) Balbir Singh (No. 1552987K now JC-348870N)—10th Feb 2001*.

Hav (GD) Rajinder Singh (No. 1552751P now JC-348872Y)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Dalbara Singh (No. 1552755I now JC-348873H)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Ashok Kumar (No. 1551921F now JC-348874K)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Nand Lal (No. 1552130M now JC-348875M)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Darbara Singh (No. 1550119Y now JC-348876P)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Salunke Prakash Bhikaji (No. 1552453K now JC-348877X)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Gulzar Singh (No. 1551192K now JC-348878A)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Dilbag Singh (No. 1550710M now JC-348879H)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Gajender Singh (No. 1550067N now JC-348880X)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Malode Bajirao Manikrao (No. 1550730A now JC-348881A)—12th Feb 2001*.

Hav (GD) Iqbal Singh (No. 1553015H now JC-348882H)—13th Feb 2001*.

Hav (GD) Sewa Singh (No. 1551112F now JC-348883L)—13th Feb 2001*.

Hav (GD) Gole Avaba Khashaba (No. 1553127H now JC-348884N)—13th Feb 2001*.

Hav (GD) Lachhman Singh (No. 1548789F now JC-348885W)—13th Feb 2001*.

Hav (GD) Inderjeet Singh (No. 1551606L now JC-348886Y)—15th Feb 2001*.

Hav (GD) Bidhi Chand (No. 1550349M now JC-348887F)—15th Feb 2001*.

Hav (GD) Dhian Singh (No. 1552930P now JC-348888K)—15th Feb 2001*.

Hav (GD) Rajpal Singh (No. 1552045N now JC-348890F)—16th Feb 2001*.

Hav (GD) Pawar Subhash Eknath (No. 1552500L now JC-348891K)—16th Feb 2001*.

Hav (GD) Siya Ram (No. 1551758M now JC-348892M)—16th Feb 2001*.

Hav (GD) Gurdev Singh (No. 1551649A now JC-348893P)—16th Feb 2001*.

Hav (GD) Kamlakar Ramchandra Kadam (No. 1551362H now JC-348894X)—16th Feb 2001*.

Hav (GD) Ghadage Subhash Appa (No. 1551346L now JC-348895A)—17th Feb 2001*.

Hav (GD) Rajindra Singh (No. 1549452L now JC-348896H)—17th Feb 2001*.

Hav (GD) Jadhav Dasharath Pandurang (No. 1552272N now JC-348897L)—19th Feb 2001*.

Hav (GD) Fakir Singh (No. 1553794W now JC-348898N)—19th Feb 2001*.

Hav (GD) Dalbara Singh (No. 1549461M now JC-348899W)—19th Feb 2001*.

Hav (GD) Gurjant Singh (No. 1552539X now JC-348900A)—19th Feb 2001*.

Hav (GD) Ganesh Ambadas Pachpawar (No. 1551224F now JC-348901H)—19th Feb 2001*.

Hav (GD) Babban Singh Kushwaha (No. 1550242X now JC-348902L)—19th Feb 2001*.

Hav (GD) Jalaudhin Khan (No. 1550791X now JC-348903N)—19th Feb 2001*.

Hav (GD) Jagdish Prasad (No. 1552202F now JC-348904W)—19th Feb 2001*.

Hav (GD) Lakhwinder Singh (No. 1549761N now JC-348905Y)—19th Feb 2001*.

Hav (GD) Daljit Singh Gill (No. 1552294M now JC-348906F)—20th Feb 2001*.

Hav (GD) Sudam Shankar Barge (No. 1551723W now JC-348907K)—21st Feb 2001*.

Hav (GD) Tejpal Singh (No. 1550400F now JC-348908M)—22nd Feb 2001*.

Hav (GD) Rachpal Singh (No. 1551241F now JC-348909P)—24th Feb 2001*.

Hav (GD) Sucha Singl (No. 1552413X now JC-348910 K)—26th Feb 2001**.

Hav (GD) Moti Lal (No. 1550863W now JC-348911M)—28th Feb 2001**.

Hav (GD) Suresh (No. 1551592W now JC-348912P)—02nd Mar 2001.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Shamsuddin (No. 1552723H now JC-348913X)—02nd Feb 2001**.

Hav (GD) Hira Singh (No. 1553004W now JC-348915 H)—12th Feb 2001**.

Hav (GD) Pritam Singh (No. 1552360A now JC-348916 L)—12th Feb 2001**.

Hav (GD) Pawar Sampat Shahaji (No. 1552843F now JC-348917N)—17th Feb 2001**.

Hav (GD) Prithpal Singh (No. 1553173X now JC-348918 W)—19th Feb 2001**.

Hav (GD) Kokithar Sriyukant Laxman (No. 1552958P now JC-348919Y)—19th Feb 2001**.

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2001 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Abdul Gaffa (No. 1554715H now JC-348921 W)—01st Mar 2001@.

@ (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2001 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Toran Singh (No. 1567637P now JC-348812 K)—31st Jan 2001**.

Hav (SKT) Imran Ahmed (No. 1567882X now JC-348837W)—06th Feb 2001**.

Hav (SKT) Rajbir Yadav (No. 1567857Y now JC-348840 W)—07th Feb 2001**.

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Tara Chand (No. 8025763Y now JC-348801 X)—09th Jan 2001**.

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Ziley Din (No. 1551364N now JC-348803H)—17th Jan 2001**.

Hav (GD) Sukhdev Singh (No. 1550627P now JC-348804 L)—27th Jan 2001**.

Hav (GD) Nikam Bhurat Ramchandra (No. 1552166P now JC-348805N)—27th Jan 2001**.

Hav (GD) Madan Singh (No. 1551187Y now JC-348806 W)—27th Jan 2001**.

Hav (GD) Ram Shanker (No. 1575488F now JC-348807 Y)—27th Jan 2001**.

Hav (GD) Shamshei Singh Dugal (No. 1552231K now JC-348808F)—27th Jan 2001**.

Hav (GD) Shavir Husan (No. 1553071E now JC-348813 M)—01st Feb 2001**.

Hav (GD) Davinder Singh (No. 1551894H now JC-348814 P)—01st Feb 2001**.

Hav (GD) Som Dutt (No. 1552239W now JC-348815X)—02nd Feb 2001**.

Hav (GD) Jadhav Ashok Yashwant (No. 1551937M now JC-348816A)—02nd Feb 2001**.

Hav (GD) Gurnam Singh (No. 1551320W now JC-348817H)—02nd Feb 2001**.

Hav (GD) Ajit Singh (No. 1551251L now JC-348818L)—02nd Feb 2001**.

Hav (GD) Bhunwar Lal Sen (No. 1552126N now JC-348819J)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Bhag Singh (No. 1551119I now JC-348820 H)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Mohite Madhav Vyankat (No. 1551899F now JC-348821I)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Mahabir Singh (No. 1552106A now JC-348822N)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Narinder Singh (No. 1551216H now JC-348823W)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Gazuddin (No. 7771648N now JC-348824Y)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Hari Ram (No. 1549936L now JC-348825F)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Nahar Singh (No. 1551663M now JC-348826 K)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Suraj Singh (No. 1551462N now JC-348827M)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Nirmal Singh (No. 1551111Y now JC-348828P)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Gopal Tiwari (No. 1551333N now JC-348829 X)—03rd Feb 2001**.

Hav (GD) Niranjan Singh (No. 1551425A now JC-348830M)—05th Feb 2001**.

Hav (GD) Bahadar Singh (No. 1551588N now JC-348831P)—05th Feb 2001**.

Hav (GD) Ranjit Singh (No. 1551485P now JC-348832 X)—05th Feb 2001**.

Hav (GD) Singara Singh (No. 1551945L now JC-348833 A)—05th Feb 2001**.

Hav (GD) Kewal Singh (No. 1551789M now JC-348834 H)—05th Feb 2001**.

Hav (GD) Resham Singh (No. 1550757X now JC-348835 L)—05th Feb 2001**.

Hav (GD) Harjinder Singh (No. 1551128M now JC-348838Y)—06th Feb 2001**.

Hav (GD) Roop Singh (No. 1551280A now JC-348839I)—06th Feb 2001**.

Hav (GD) Gurmeh Singh (No. 1552341Y now JC-348841 Y)—07th Feb 2001**.

Hav (GD) Chandrakant Sukhdeo Suraywanshi (No. 1551129P now JC-348842F)—07th Feb 2001**.

Hav (GD) Rakesh (No. 1551718I now JC-348843K)—07th Feb 2001

Hav (GD) Jaywant Singh (No. 1550536L now JC-348844M)—08th Feb 2001**.

Hav (GD) Asim Khan (No. 1551544W now JC-348845 D)—08th Feb 2001**.

Hav (GD) Rami Prakash (No. 1551139Y now JC-348848 J)—10th Feb 2001**.

Hav (GD) Hanif Ahmed (No. 1552087A now JC-348849 I)—13th Feb 2001**.

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Singar Singh (No. 1552919W now JC-348850 A)—27th Jan 2001@.

Hav (GD) Gurdit Singh (No. 1552412P now JC-348851 H)—27th Jan 2001@.

Hav (Grd) Mohd Razul (No. 135257H now JC-348553 N)—07th Feb 2001@.

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2001 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Kashmiri Masih (No. 1554947E now JC-348799L)—30th Nov 2000@.

Hav (Clk GD) Pitu Rajendra Madhavrao (No. 1554570H now JC-348800P)—29th Dec 2000@.

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Oct 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Amarjit Singh (No. 1559472M now JC-348802A)—30th Jan 2001**.

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Duwairi Prasad (No. 1551332I now JC-348809K)—30th Jan 2001@.

Hav (Clk GD) Kantan Singh (No. 1568153F now JC-348810Y)—30th Jan 2001@.

Hav (Clk GD) Ravinder Pal Singh Cheeda (No. 1555431L now JC-348811F)—31st Jan 2001@.

Hav (Clk GD) Dasanand (No. 1555617P now JC-348836 N)—06th Feb 2001@.

Hav (Clk GD) Vasudevan N (No. 1555719L now JC-348846X)—10th Feb 2001@.

Hav (Clk GD) Rai Baran Azad (No. 1567166M now JC-348847A)—10th Feb 2001@.

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk GD) Miha Singh (No. 1550954A now JC-348852L)—06th Feb 2001@@.

@@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2001 without effect on pay and allowances).

(MES)

MILITARISED CADRE (TO BF NB SUB)

Hav Gurmeh Singh (No. 1456927X now JC-327455Y)—12-11-98.

Hav Bahadur Singh (No. 1459109F now JC-327456F)—28-12-98.

Hav Gurdev Singh (No. 1545824N now JC-327457K)—29-12-98.

Hav Nand Kishore (No. 1459207F now JC-327458M)—10-11-98.

Hav Ram Niwas (No. 1476247Y now JC-327459P)—21-3-99.

Hav Tirath Ram Sharma (No. 1463732P now JC-327460K)—15-3-99.

Hav S Kannan (No. 1554488N now JC-327515A)—13-4-99.

Hav Sewa Singh (No. 1468611X now JC-327461M)—23-3-99.

Hav Kuldip Singh Badhamra (No. 1468787H now JC-327462P)—22-4-99.

Hav Dasrath Singh (No. 1468784P now JC-327463X)—15-3-99.

Hav Jodh Singh Nehra (No. 1557828W now JC-327516II)—17-3-99.

Hav Om Prakash (No. 1559737L now JC-327464A)—19-3-99.

Hav Jagtar Singh (No. 1547415Y now JC-327465H)—19-3-99.

Hav Kanwar Singh Yadav (No. 1469210P now JC-327466 I)—19-3-99.

Hav Adil Khan Mustafa Khan (No. 1567172A now JC-327467N)—19-3-99.

Hav Ramesh Kumar Malik (No. 1568016H now JC-327468W)—19-4-99.

Hav Dharm Pal Singh (No. 1469505L now JC-327469Y)—12-4-99.

Hav M Jacob Chandran (No. 1380936X now JC-327470 N)—18-3-99.

Hav Kishan Lal Chaudhary (No. 1469937A now JC-327517I)—4-6-99.

Hav Jai Nath Prasad Singh (No. 1470086L now JC-327471 W)—17-3-99.

Hav Surendra Singh (No. 1470502K now JC-327472Y)—20-3-99.

Hav Paramjit Singh (No. 1552578W now JC-327518N)—27-3-99.

Hav Prasanna Kumar Swain (No. 1471434N now JC-327473F)—20-3-99.

Hav Mungase Sandip Vithal (No. 1570787W now JC-327474K)—15-3-99.

Hav Vinod Kumar (No. 1557182W now JC-327475M)—15-3-99.

Hav Brij Kishore (No. 1572227H now JC-327476P)—19-3-99.

Hav Jagdish Singh (No. 1382504M now JC-327477X)—23-4-99.

Hav Subrata Biswas (No. 1382542H now JC-327478A)—20-3-99.

Hav D Manikantan (No. 1383432A now JC-327525M)—22-3-99.

Hav Ishwar Singh (No. 15300229K now JC-327479H)—15-4-99.

Hav Sachidanand Behra (No. 1477933Y now JC-327480X)—8-4-99.

Hav Janardhan Maurya (No. 1573871F now JC-327481A)—28-4-99.

Hav Dasrathi Swain (No. 1573875X now JC-327482H)—31-3-99.

Hav Jagat Kishore (No. 1473379F now JC-327483L)—17-3-99.

Hav Madan Mohan Barel (No. 1474939Y now JC-327484 N)—16-3-99.

Hav Virendra Kumar Sharma (No. 1552044L now JC-327519W)—4-5-99.

Hav Kiran Pal Sharma (No. 1558007N now JC-327584 Y)—29-4-99.

Hav Sheo Raj (No. 1567412M now JC-327485I)—22-4-99.

Hav Raghunath Roy (No. 1469753F now JC-327520N)—13-7-99.

Hav Harnam Singh (No. 1569237F now JC-327521W)—5-6-99.

Hav Bachittar Singh (No. 1482255N now JC-327486Y)—28-4-99.

Hav Prem Singh (No. 1572366M now JC-327522Y)—19-6-99.

Hav Bharat Dwij (No. 1568776L now JC-327575X)—17-9-99.

Hav Sishu Ram Borah (No. 15300309P now JC-327576 A)—21-9-99.

- Hav Satender Pal Singh (No. 1162220W now JC-327586 K)—24-11-99.
- Hav Thakuraj NK (No. 1483515A now JC-327591P)—24-1-2000.
- Hav Daya Lai (No. 1468491K now JC-327616W)—2-3-2000.
- Hav Rani Swarth Sharma (No. 1474301H now JC-327617 Y)—11-4-2000.
- Hav Ratnesh Kumar (No. 1473561F now JC-327618F)—2-3-2000.
- Hav Subhash Chandra Roy (No. 15301019W now JC-327619K)—31-3-2000.
- Hav Ingle Devidas Mahadho (No. 1576066H now JC-327620Y)—1-4-2000.
- Hav Devendra Singh (No. 1462408I now JC-327488K)—8-1-99.
- Hav Surinder Singh (No. 1546814W now JC-327489M)—7-4-99.
- Hav Matamari BV Mohan Rao (No. 1368940Y now JC-327490F)—15-3-99.
- Hav Beant Singh Gill (No. 1553896M now JC-327491K)—4-4-99.
- Hav Ganesh Chandra Adak (No. 1471761Y now JC-327492 M)—12-3-99.
- Hav Shankar Singh Rautela (No. 1458853M now JC-327493P)—10-3-99.
- Hav Ram Kumar (No. 1458995K now JC-327494X)—1-3-99.
- Hav Inderjit Singh (No. 1459364N now JC-327495A)—1-3-99.
- Hav Paritosh Gangoli (No. 1459272F now JC-327496H)—1-3-99.
- Hav R Vasudevan (No. 1362086F now JC-327497L)—3-3-99.
- Hav Kuppu Swami N (No. 1362966X now JC-327498N)—16-3-99.
- Hav Purushothaman O (No. 1549228Y now JC-327499W)—13-3-99.
- Hav Raut Appa Ananda (No. 1548496W now JC-327500 W)—16-3-99.
- Hav Mewa Singh (No. 1548713I now JC-327501H)—11-3-99.
- Hav Ganga Sahai (No. 1460776F now JC-327502I)—12-3-99.
- Hav Jai Narain Jalwal (No. 1459001K now JC-327589X)—3-1-2000.
- Hav JK Govind Rao (No. 1555317M now JC-327621F)—26-7-2000.
- Hav Murlidhar (No. 1472376K now JC-327444M)—3-12-98.
- Hav G Santha Kumar (No. 1375365L now JC-327445P)—7-12-98.
- Hav F Swami Nathan (No. 1571962H now JC-327446X)—21-12-98.
- Hav Shyam Singh (No. 1471741L now JC-327447A)—1-1-99.
- Hav Lakshman Singh Rana (No. 1471731F now JC-327503N)—8-1-99.
- Hav Suresh Kumar M (No. 1472118F now JC-327448H)—16-12-98.
- Hav Baikantha Talukdar (No. 1463729P now JC-327585 F)—26-1-99.
- Hav Harendra Datta M (No. 1473108K now JC-327504 W)—27-1-99.
- Hav Jasmer Singh (No. 1473981F now JC-327449L)—30-12-98.
- Hav Avtar Singh (No. 1474120X now JC-327450A)—16-12-98.
- Hav D Niranjan (No. 1383475P now JC-327505Y)—22-1-99.
- Hav Hariom Dubey (No. 1477603A now JC-327451H)—11-12-98.
- Hav S Palani Kumar (No. 1374401A now JC-327452L)—14-1-99.
- Hav Patil Madhukar Pandurang (No. 1569988H now JC-327506F)—8-2-99.
- Hav V J Mohan Reddy (No. 1370752W now JC-327507 K)—8-2-99.
- Hav Rappai VP (No. 1378545X now JC-327508M)—8-2-99.
- Hav Kaluvan G (No. 1572569M now JC-327523F)—28-5-99.
- Hav Murti Ram Thakur (No. 1571024M now JC-327524 K)—27-5-99.
- Hav Parant Dass K (No. 1375341F now JC-327590N)—1-12-99.
- Hav Badag. Thagawet Shankar (No. 1556003Y now JC-327626X)—13-6-2000.
- Hav Ahmed Ansari (No. 1554722N now JC-327627H)—3-3-2000.
- Hav Bhupinder Singh (No. 1563735F now JC-327628L)—16-6-2000.
- Hav Shri Gurupathan (No. 1379148M now JC-327629 4)—22-6-2000.
- Hav Mohan AV (No. 1373513M now JC-327630H)—16-6-2000.
- Hav Vasudevan Kumar KK (No. 1372171X now JC-327631I)—12-6-2000.
- Hav Ruggopada V (No. 1373102N now JC-327632N)—18-7-2000.
- Hav Asolon MK (No. 1374581M now JC-327633W)—10-6-2000.
- Hav Subhash Chand (No. 1471133K now JC-327634Y)—13-6-2000.
- Hav Radhe Singh (No. 1468867A now JC-327635F)—13-6-2000.
- Hav Haridar C (No. 1378122L now JC-327636K)—16-2-2000.
- Hav R Baktha Singh (No. 15300683P now JC-327637M)—14-6-2000.
- Hav Ajith Kumar J (No. 1568513M now JC-327587M)—18-12-99.
- Hav Pradip Kumar Das (No. 1474299W now JC-327563 H)—1-10-99.
- Hav Nani Gopal Nath (No. 1474137I now JC-327579N)—8-10-99.
- Hav Jandish Chandra Joshi (No. 1472936H now JC-327564L)—6-10-99.
- Hav Ram Nath Sharma (No. 1175104M now JC-327565 N)—6-10-99.
- Hav Bij Bhushan Singh Rawat (No. 1475124A now JC-327566W)—6-10-99.
- Hav Rampal Singh (No. 1471788W now JC-327530H)—15-10-99.

Hav. Ram Vinod Pathak (No. 1471850X now JC-327567Y)—5-10-99.

Hav. Surender Pal Singh (No. 1475251P now JC-327568F)—8-10-99.

Hav. Ranvir Singh (No. 1475395X now JC-327569K)—4-10-99.

Hav. Narendra Kumar Nayak (No. 1475497N now JC-327570X)—11-10-99.

Hav. Gurdev Singh (No. 1475564N now JC-327571F)—8-10-99.

Hav. Harjit Singh (No. 1474612H now JC-327581L)—16-10-99.

Hav. Tulok Singh (No. 1476151W now JC-327572K)—6-10-99.

Hav. Ram Milan Prasad (No. 1476278Y now JC-327582N)—18-11-99.

Hav. Ram Kishan (No. 1476309N now JC-327573M)—11-10-99.

Hav. Suresh Kumar S (No. 1473237I now JC-327574P)—13-10-99.

Hav. Hans Raj (No. 1471776F now JC-327583W)—10-11-99.

Hav. Anil Kumar Singh (No. 1471509A now JC-327588P)—19-1-2000.

Hav. Jai Prakash Dubey (No. 1465702W now JC-327592X)—27-6-2000.

Hav. Vasi Reddy Nagesh Babu (No. 1374009Y now JC-327593A)—27-6-2000.

Hav. Pushp Raj (No. 1377669I now JC-327594H)—27-6-2000.

Hav. Jalandhar Paramanik (No. 1468617Y now JC-327595I)—26-6-2000.

Hav. Gouranga Sunder Paramanik (No. 1470546I now JC-327596N)—27-6-2000.

Hav. Janardan Pandey (No. 1471118P now JC-327522K)—10-7-2000.

Hav. Rajbir Singh (No. 1471520Y now JC-327597W)—27-6-2000.

Hav. Rama Kant Mahlo (No. 1471498Y now JC-327598Y)—3-7-2000.

Hav. Raj Kumar Mandal (No. 1471499F now JC-327599F)—28-6-2000.

Hav. Sushanta Chakrabarty (No. 1471544H now JC-327600I)—1-7-2000.

Hav. Ramesh Chandra (No. 1471866W now JC-327601N)—26-6-2000.

Hav. Krishan Kumar (No. 1377449X now JC-327602W)—26-6-2000.

Hav. Jai Krishna Prasad Yadav (No. 1473275A now JC-327623M)—3-8-2000.

Hav. Kartick Chandra Mandal (No. 1568363F now JC-327624P)—5-7-2000.

Hav. R. Dhayalan (No. 1474397W now JC-327603Y)—3-7-2000.

Hav. Jai Prakash Singh (No. 1475042Y now JC-327604F)—4-7-2000.

Hav. Ram Dhari (No. 1475239N now JC-327605K)—20-6-2000.

Hav. Sat Pal (No. 1474579K now JC-327606M)—3-7-2000.

Hav. Ram Prakash (No. 1474897N now JC-327607P)—29-6-2000.

Hav. Jaswant Tiwari (No. 1475348A now JC-327608X)—1-7-2000.

Hav. Suresh Chandra (No. 1475377P now JC-327609Y)—29-6-2000.

Hav. Lallan Singh Kushwaha (No. 1475492P now JC-327610P)—30-6-2000.

Hav. Dilbag Singh (No. 147566Y now JC-327611X)—3-7-2000.

Hav. Deo Nath Singh (No. 1476279I now JC-327612Y)—30-6-2000.

Hav. Samir Kumar Ghosh (No. 1476357N now JC-327613H)—30-6-2000.

Hav. Bishwajit Ghosh (No. 1476339I now JC-327614I)—28-6-2000.

Hav. Harbu Singh (No. 1476410H now JC-327615N)—3-7-2000.

Hav. Brendra Prasad Singh (No. 1464380P now JC-327625X)—5-8-2000.

Hav. Emil Inkra (No. 1471519K now JC-327671M)—22-9-2000.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 1997, 01 Jul 98, 01 Jul 98, 01 Sep 98, 04 Sep 98, 05 Sep 98, 12 Dec 98, 26 Feb 99, 11 May 99, 22 May 99, 01 Oct 99, 11 Nov 99, 18 Dec 99, 11 May 2000 and 26 May 2000 without effect on pay and Allowances).

Hav. Ramchar (1468021Y now JC-327663N), 29-09-2000.

Hav. Shiw Nath (1558029M now JC-327664W), 30-9-2000.

Hav. Naresh Kumar (1468386N now JC-327665Y), 18-09-2000.

Hav. Trilok Singh (1468015L now JC-327672P), 27-09-2000.

Hav. Mahendra Singh Amant (161911K now JC-327666F), 23-09-2000.

Hav. Santokh Singh (1550367P now JC-327667K), 27-09-2000.

Hav. Avindra Mohan Shahi (1451014A now JC-327673X), 08-11-2000.

Hav. Suresh Shetty K (1374829I now JC-327668M), 26-09-2000.

Hav. Prabir Roy (1483874N now JC-327674A), 17-10-2000.

Hav. Sushil Kumar Yadav (1478047F now JC-327669P), 28-09-2000.

Hav. Saumya Brata Maifi (1530201K now JC-327670K), 27-09-2000.

Hav. Vidyadhar Swami (157938Y now JC-327683F), 01-01-2001.

Hav. Laxman Yadav (1579251E now JC-327684K), 01-01-2001.

Hav. Sudhansu Kumar Sahu (1579789H now JC-327690X), 06-01-2001.

Hav. Jyote Prakash (15306107N now JC-327685M), 01-01-2001.

Hav. Ratan Chand (1559453F now JC-327638P), 04-10-2000.

Hav. Atun Kumar (1550173M now JC-327639X), 30-09-2000.

Hav. Balkar Singh (1580999P now JC-327640M), 29-09-2000.

Hav. Surinder Singh (1473209X now JC-327675H), 30-09-2000.

Hav. S. Rajendran (1564938K now JC-327641P), 29-09-2000.

Hav Balkar Singh (1458057K now JC-327642X), 05-01-2000.

Hav Nimbalkar Pandurang Punalik (1555912X now JC-327643A), 29-09-2000.

Hav Ishwar Singh (1578406Y now JC-327676L), 09-10-2000.

Hav Banke Shivaji Tatoba (1579498H now JC-327677N), 24-10-2000.

Hav Mahabir Singh (1460926M now JC-327644H), 25-09-2000.

Hav Rajashekharan Nair (1550410L now JC-327645L), 27-09-2000.

Hav Banger Bhagwat Trimbak (1551140N now JC-327646N), 28-09-2000.

Hav Birendra Singh (1461588M now JC-327647W), 27-09-2000.

Hav Nagender Kumar Pandey (1553603W now JC-327648Y), 28-09-2000.

Hav Bahajan Parammal (1368546N now JC-327649F), 29-09-2000.

Hav Mahalingam R (1369536W now JC-327678W), 30-09-2000.

Hav Ashok Kumar Goswami (1461843N now JC-327650W), 28-09-2000.

Hav Patil Shashikant Shankar (1554851Y now JC-327651Y), 30-09-2000.

Hav Gurbax Singh (1550135W now JC-327652F), 09-10-2000.

Hav Natha Singh (1551028F now JC-327653K), 28-09-2000.

Hav Chaukande Santosh Pandik Rao (1551454P now JC-327654M), 28-09-2000.

Hav Pokhatkar Jayram Ganapat (1551507H now JC-327655P), 29-09-2000.

Hav Basant Singh (1551978W now JC-327679Y), 20-10-2000.

Hav Udaibir Singh (1553745N now JC-327656X), 29-09-2000.

Hav Chandra Mohan Singh (1461041K now JC-327657A), 28-09-2000.

Hav Chayan Dinyanova Namadeo (1552226Y now JC-327658H), 27-09-2000.

Hav Karande Dattatray Anna (1555066P now JC-327659L), 25-09-2000.

Hav Mohammad Shadab (1556599K now JC-327660A), 05-10-2000.

Hav Gajare Nana Bhanu Popat (1557572Y now JC-327661H), 29-09-2000.

Hav Sakhawati Ali (1559604P now JC-327662L), 28-09-2000.

Hav Deo Krishna Sharma (1461565L now JC-327680N), 29-02-2000.

Hav Mirza Safdar Ali Shariff (1366360L now JC-327681W), 01-11-2000.

Hav Bal Krishan Chhetri (1567346X now JC-327682Y), 13-11-2000.

Hav Baban Baber Kundlik (1570866L now JC-327688A), 23-11-2000.

Hav Mohan Singh Rawat (1458546P now JC-327686P), 08-12-2000.

Hav Virendra Pal (1475545P now JC-327687X), 12-12-2000.

Hav Daler Singh (1475670M now JC-327689H), 09-01-2001.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 11 Sep 2000, 26 May 2000 & 25 Oct 2000 without effect on Pay and Allces).

RK OJHA
Dy. Secy.

No. 376, dated 28th May 2001 — The President is pleased to make the following promotions : —

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (RT)

Subedar Jagram Singh (JC-70735X), 01 Jun 98.

Subedar Sachidanand Dwevdi (JC-72560H), 01 Jun 98.

Subedar Vamadevan K (JC-72561L), 14 Apr 99/01 Mar 99.

Subedar Kamlesh Chander (JC-72858M), 01 Mar 99.

Subedar Lalit Kishore Tiwari (JC-73065W), 01 Mar 99.

Subedar Shiv Charan Prasad Tiwari (JC-73851P), 01 Mar 99.

Subedar Raj Kumar Mishra (JC-73852X), 01 Mar 99.

Subedar Chellappan Nadar M (JC-74145A), 20 May 99/01 Apr 99.

Subedar Gityadhai Prasad Choudhary (JC-74280N), 24 Oct 99/01 Oct 99.

Subedar Ram Shankar Sharma (JC-75130L), 01 Oct 99.

Subedar AV Raghavan (JC-76556X), 03 Apr 2000/01 Apr 2000.

Subedar Chandra Ballabh Sharma (JC-78063P), 01 Aug 2000.

Subedar Akhilesh Tiwari (JC-78214H), 01 Oct 2000.

To be Substantive Subedar Major (RT-G)

Subedar Himat Singh Sidhu (JC-75492L), 01 Mar 2000.

(Gtd dry seniority wef)

R CHATURVEDI
Under Secy.

No. 377, dated 25th May 2001 — The President is pleased to make the following promotions :

REGULAR ARMY

Order of Seniority (OP)

To be Naib Sub (ID)

Hav Rajpal Rai (3963618M now JC-841058N), 24 Jan 2001.

Hav Chandra Sekhuan (1045031A now JC-841059W), 12 Feb 2001.

(Granted seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allowances)

Hav Dilbagh Singh (2658991W now JC-841060L), 13 Feb 2001.

Hav Manish Kumar (1045031A now JC-841061N), 19 Jan 2001.

Hav Ajit Kumar Brahma (10242477K now JC-841062W), 27 Jan 2001.**

Hav Ram Laxhan (8017438K now JC-841063Y), 17 Jan 2001.**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allowances).

Hav KV Vaighese (2559121P now JC-841064F), 16 Feb 2001.***

Hav Dharam Raj Dwivedi (1248428K now JC-841065K), 29 Jan 2001.***

Hav Jamadar Nagappa (10419950P now JC-841066M), 06 Feb 2001.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allowances).

Hav Karuppannan Vembadi (10450859A now JC-841067P), 17 Feb 2001.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allowances).

Hav Kollapurj (8013301A now JC-841068X), 20 Feb 2001.***

Hav PA Joseph (11107746F now JC-841069A), 07 Mar 2001.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Ck

Hav Ck Rangil Singh (14213790Y now JC-841070P), 09 Mar 2001.***

Hav Ck Manbir Singh (1449383L now JC-841072A), 15 Mar 2001.***

Hav Ck Gajraj Singh (88236271 now JC-841071X), 02 Mar 2001.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub Ck wef 13 Jan 2001 without effect on pay and allowances).

R. S. CHOUDHARY
Under Secy.

WS-149 Monica, Engrs, 09 Mar 99

WS-155 S Agaiwal, EME, 09 Mar 99.

WS-165 Sonia Anand, EME, 09 Mar 99.

WS-167 V Arulmozhi, Engrs, 09 Mar 99.

WS-186 Sunita Asthana, Sigs, 24 Aug 99.

WS-202 S Mares, Engrs, 12 Mar 2000.

WS-206 N Duggal, EME, 12 Mar 2000.

WS-211 R Maharishi, Engrs, 12 Mar 2000.

WS-212 S Sharma, Engrs, 12 Mar 2000.

WS-226 S Gangal, EME, 05 Sep 2000.

WS-234 S Sandhu, EME, 05 Sep 2000.

WS-238 PJ Pradnya, Engrs, 05 Sep 2000.

WS-245 YS Mahala, Sigs, 05 Sep 2000.

WS-248 TP Priva, Engrs, 05 Sep 2000.

WS-255 A Shyla, EME, 05 Sep 2000.

WS-265 M Viridi, Sigs, 10 Mar 2001.

WS-275 Jaya Rani, Engrs, 10 Mar 2001.

S D RAI
SCSO
MS 8C

No. 379 dated 25th May 2001.—The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Flt Lt to Sqn Ldr Q/S

Ravi Kumar H (DS-11910N) (AJ 24473S), 14-01-2000.

R K SEIJI
Brig
Dy. DGDS

No. 378, dated 30th May 2001.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

Lt to be Capt

(WSES)

WS-148 Benor Desai, AOC, 09 Mar 2001.

WS-151 R Tripathi, AOC, 09 Mar 2001.

WS-153 Reeta Kumari, AOC, 09 Mar 2001.

WS-154 N Masta, JAG, 09 Mar 2001.

WS-156 Avdesh Dua, AOC, 09 Mar 2001.

WS-157 Sunita Rana, JAG, 09 Mar 2001.

WS-159 Urmila Nain, ASC, 09 Mar 2001.

WS-160 Mini John, AEC, 09 Mar 2001.

WS-162 N Prabhakar, JAG, 09 Mar 2001.

WS-163 Soney Joseph, JAG, 09 Mar 2001.

WS-164 PG Tolani, ASC, 09 Mar 2001.

WS-166 Santosh Kumari, AEC, 09 Mar 2001.

No. 380 dated 29th May 2001.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Lt Col to be substantive Col

JS Labana, SM IC-30202, Arty, 01st Jan 1999.

YS Bains IC-33303, Arty, 01st Jan 1999.

RS Rathee IC-30494, ASC, 01st Jan 1999.

K Bhattacharya IC-30496, Sigs, 01st Jan 1999.

PV Pathak IC-33519, Sigs, 01st Jan 1999.

KK Pasrija IC-33602, Sigs, 01st Jan 1999.

BV Alphonse IC-36700, EME, 01st Jan 1999.

DM Ranade IC-30694, EME, 17th Nov 1999 but seniority from 01st Jan 99 without effect on pay and pension.

Girish Dhawan IC-30740, Sigs, 01st Jan 1999.

AK Sarkar IC-30866, AOC, 01st Jan 1999.

LS Murthy IC-34300, EME, 01st Jan 1999.

Major to be Substantive Lt Col by Selection

GK Das IC-31603, Engrs, 30 Nov 93
 Swaran Singh IC-36577, Inf, 01 Jun 1998
 G Ravikumar IC-37734, FME, 01 Jun 1998
 NB Pradhan IC-37173, Mech Inf, 01 Jun 1998.
 VC Katoch IC-37175, Armd Corps, 01 Jun 1998.
 RC Singh IC-37177, Mech Inf, 01 Jun 1998.
 RS Sidhu SM IC-37178, Mech Inf, 01 Jun 1998.
 UK Chhibber IC-37179, Inf, 01 Jun 1998
 S Banerjee IC-37181, Armd Corps, 01 Jun 1998
 KJ Singh IC-37183, AOC, 01 Jun 1998.
 Suresh Kumar IC-37184, Inf, 01 Jun 1998
 KPS Rana IC-37187, Inf, 01 Jun 1998.
 Satish Kumar IC-37188, Arty, 01 Jun 1998.
 BS Sambval IC-37189, Inf, 01 Jun 1998.
 RM Sharma IC-37190, ASC, 01 Jun 1998 .
 S Adhikari IC-37193, Inf, 01 Jun 1998.
 Gurmeet Singh IC-37194, EME, 01 Jun 1998.
 Kulbir Singh IC-3719 , AOC, 01 Jun 1998.
 AD Palande IC-37190, Inf, 01 Jun 1998 .
 BB Atray IC-37200, Armd Corps, 01 Jun 1998.
 PS Shekhawat IC-37201, ASC, 01 Jun 1998.
 KC Pant IC-37202, Inf, 01 Jun 1998.
 VK Sharma IC-37203, Inf, 01 Jun 1998.
 Ganga Prasad Singh (IC-35235), ASC, 01 Jun 1998.
 V. Kumar (IC-3527), Int, 01 Jun 1998.
 SD Redkar (IC-35278), Inf, 01 Jun 1998.

SS SINHA,
 Dy. Asstt. Military Secy. 8-A

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 381, dated 28th May 2001—The President is pleased to make the following promotions :—

The undermentioned Technical Officer(s) 'B' to be Technical Officer(s) 'C' (Group 'A' Gazetted) in the Defence Research & Technical Service with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 10,00-325-15200 :—

Name, Estt/Lab & Date

(Shri/Smt/Kum/Dr.)

MB Barve, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 Karampal Singh Pall, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 AV Deosthale R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 AK Chattopadhyay, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000
 VP Kulshrestha, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 MA Dugge, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000
 Brij Mohan, IASFC, Delhi—01-09-2000.
 Krishna Kohli, IASFC, Delhi—01-09-2000
 Srinivasa Murthy A, GTRF, Bangalore—01-09-2000.

Prabhakar ND, GTRF, Bangalore—01-09-2000.

Sheshadri M, GTRF, Bangalore—01-09-2000

Sundaramoorthy S, GTRF, Bangalore—01-09-2000.

Sarkar PC, GTRF, Bangalore—01-09-2000.

Ve phese George, GTRF, Bangalore—01-09-2000.

Vijayan V, GTRF, Bangalore—01-09-2000

The undermentioned Technical Officer(s) 'A' to be Technical Officer(s) 'B' (Group 'A' Gazetted) in the Defence Research & Technical Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500 :—

Name, Estt Lab & Date

(Shri/Smt/Kum/Dr.)

SS Gaikwad, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 Ferio Rocky, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 BJ Shinde, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 AG Kamble, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 BS More, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 RN Upadhyay, R&DE (Engrs), Pune—170922000.
 BN Borade, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 JI Kamble, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 BB Awati, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 VV Pawar, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 VT Mettlu, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 SM Kulkarni, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 Savita Chawla, ISSA, Delhi—01-09-2000.
 E Shyamkishwar Singh, ISSA, Delhi—01-09-2000.
 MMP Singh, ISSA, Delhi—01-09-2000.
 CV Madhura, DFRI, Mysore—01-09-2000.
 S Sukumaran, CABS, Bangalore—01-09-2000.
 RC Sarin, RAC, Delhi—01-09-2000.
 RS Sinohi, LASTEC, Delhi—01-09-2000.
 Iqbal Singh, LASTEC, Delhi—01-09-2000.
 Santosh Dass, LASTEC, Delhi—01-09-2000.
 Mahesh Chander, IASTFC, Delhi—01-09-2000.
 Harendra Nath, LASTEC, Delhi—01-09-2000.
 Puran Chand, LASTEC, Delhi—01-09-2000.

The undermentioned Senior Technical Assistant(s) to be Technical Officer(s) 'A' (Group 'B' Gazetted) in the Defence Research & Technical Service with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 7450-225-11500 :—

Name, Estt/Lab & Date

(Shri/Smt/Kum/Dr.)

CI Waghmare, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 SS Bagul, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 VH Madec, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 AJ Gaikwad, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000
 VS Moholkar, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.
 Chandan Bose, R&DE (Engrs), Pune—01-09-2000.

VR Hirve R. P. () () ()
 AS Mudhya () () ()
 BN Ahir, R. & L. () () ()
 RR Polkarni () () ()
 RG Gohel R. & L. () () ()
 CM Adhale, R&DE (Engs), Pune—01-09-2000

JK KHADWAI
 Jt Director (Pers)

Read—Hav Skt C Mangala Selvan (No. 1376787H now JC-306827L) 01 Oct 1999

(Granted seniority in the rank of Nb Sub 01 Oct 1999 without effect on pay and allowances)

In Ministry of Defence Notification No. 481 dated 06 Sep 2000 notified in Gazette of India No. 41 dated 07 Oct 2000 under heading 'REGULAR ARMY' Corps of Engineer Bombay Engineer Group after ensy Sub (Cik GD) Mahendra Pal Singh (JC-199991N) 1st June 2000 and Nb Sub (GD) Nathiram More (JC-347796I) 1st Jun 2000 respectively —

To be Subedar Major Cik (GD)

FOR

Sub (Cik GD) Awtar Singh (JC-199992W), 1st Jun 2000

READ

Sub (Cik GD) Avtar Singh (JC-199992W), 1st Jun 2000

To be Subedar (GD)

FOR

Nb Sub (GD) Pawar Ravindra Sakhamam (JC-347737Y), Jul 2000

READ

Nb Sub (GD) Pawar Ravindra Sakhamam (JC-347737Y), 1st Jul 2000.

In Ministry of Defence Notification No. 481 dated 06 Sep 2000 notified in Gazette of India No. 41 dated 07 Oct 2000 under heading 'REGULAR ARMY' Corps of Engineer Bombay Engineer Group on heading of "To be Subedar Major (GD)" and "To be Subedar (GD)" respectively

FOR

To be Subedar Major Cik (GD)

READ

To be Subedar Major (GD)

FOR

To be Subedar (D)

READ

To be Subedar (GD)

R. K. GUHA,
 Dy. Secy.

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 382, dated 25th May 2001 —On attaining the age of superannuation viz 60 years, the following officers of R&D Orgn retired from Govt service with effect from the dates shown against each —

Shri S B Saravastava ACSO—28-2-2001 (Transferred to Pension Establishment wef 1-3-2001)

Shri G. D. Batra, ACSO, 31-3-2001 (Transferred to Pension Establishment wef 1-4-2001)

Shri I. C.COVER, ACSO, 30-4-2001 (Transferred to Pension Establishment wef 1-5-2001)

Shri P. C. Sharma, ACSO, 30-4-2001 (Transferred to Pension Establishment wef 1-5-2001)

SANTOSH DASGUPTA
 Dy. Chief Administrative Officer (Admn)

No. 383, dated 28th May 2001 —Consequent upon approval of Competent Authority Shri Rajender Kumar, SC 'C' DRDO HQ Dept of IF & IPR) Voluntarily Retired from service with effect from 30-4-2001 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 1-5-2001 (F/N)

JK KHADWAI
 Jt Director (Pers)

ARMY BRANCH CORRIGENDUM

No. 384, dated 25th May 2001 —In M of D Notn No. 841 dt. 06 Sep 2000 published in the Gazette of India dated 07 Oct 2000 under heading 'Regular Army' sub headings 'Corps of Engineers' and 'Madras Engineer Group' below to be Nb Sub/SKT

For—Hav/Skt C Mangala Selvan (No. 1376787H now JC-306827L) 01 Dec 1999